

# रंगमंच और नाटक की भूमिका

लक्ष्मीनारायण लाल

# रंगमंच और नाटक की भूमिका

डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल

नेशनल पब्लिशिंग हाउस  
दिल्ली

सुरेश अवस्थी को

शग हाउस,  
दिल्ली-७  
, दिल्ली-६  
विल्ली-३२

## निवेदन

नाट्यकेन्द्र, स्कूल आॅफ ड्रेमिटिक आर्ट इलाहाबाद में अनवरत छः वर्षों तक नाटक और रंगमंच कला पर छात्रों और सहयोगियों के बीच अध्ययन, अध्यापन तथा व्यावहारिक नाट्य प्रस्तुतिकरण कार्य करते हुए जो किंचित उपलब्धि मुझे हुई है, उसके लिए मैं उसी महत् रंगकार्य को ही धन्यवाद दूँगा। परम श्रद्धेय पंत जी (श्री सुमित्रानन्दन पंत) उन दिनों मुझसे प्रायः कहा करते थे कि जितना जो जीवन को देगा, जीवन उसका कई गुना उसे देगा।

प्रस्तुत पुस्तक उसी का एक दान है।

रंगमंच क्षेत्र से संबंधित सभी लोग बड़ी तीव्रता से यह अनुभव करते रहे हैं कि नाटक और रंगमंच जब तक हमारे जीवन का अंग नहीं बनता, तब तक इसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। इस दिशा में सर्वप्रथम इसका संबंध अनिवार्यतः हमारी शिक्षा से जुड़ना ही है। जहाँ से हम अपनी नई पीढ़ी को वे सारे रंग-संस्कार और नाट्य-मर्यादा दे सकें कि उनकी रुचि और सौन्दर्यवोध उचित रंगमंच के अनुकूल बन सके। पश्चिम में 'युनिवर्सिटी थियेटर्स' की अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। ये एक और देश के रंगमंच-आनंदोलन को उचित दिशा देते हैं, तो दूसरी ओर इनसे उस भाषा के नाटक और रंगमंच को, गभीर अध्ययन और अध्यापन स्तर से एक पुष्ट और स्तरीय मर्यादा मिलती है।

यह सौभाग्य की बात है कि हिन्दी भाषा के अन्तर्गत इस महत् विषय का समारम्भ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने अभी किया है। निश्चय ही इस दृष्टिपूर्ण योजना का सारा श्रेय प्रोफेसर डॉवटर नगेन्द्र के मूल्यवान् व्यक्तित्व को है। इस दूरदर्शिता के निए उनका नाम सदा स्मरणीय रहेगा।

प्रस्तुत पुस्तक मूलतः रंगमंच और नाटक की भूमिका है। इवर संस्कृत से लेकर मध्ययुग तक तथा उधर ग्रीक थियेटर से 'रेस्टोरेशन' तक। इस व्यापक और सम्पूर्ण भूमि के बीच से रंगमंच और नाटक के स्पष्ट व्यक्तित्व के अध्ययन का मैने प्रयास किया है—ताकि दोनों विभिन्न रंगभूमियों, पूर्व और पश्चिम के आधुनिक रंगमंच के स्वरूप और प्रकृति का सहज अभिज्ञान हम आगे कर सकें।

प्रस्तुत पुस्तक में मूलरूप से रंगमंच की निश्चित अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है। सारा अध्ययन, रंगमंच के ही परिप्रेक्ष्य में किया गया है। भारतवर्ष में, विशेषकर हिन्दी में नाटक का अध्ययन अभी तक केवल काव्य तथा साहित्य स्तर पर ही होता रहा है। इस कारण भी 'रंगमंच' की हठिक का अभाव सदा बना रहा है। इस तरह रंगमंच के व्यापक और गहन स्तर से ही इस पुस्तक की कल्पना तथा संरचना की गयी है।

पाश्चात्य देशों में प्राचीन और मध्ययुगीन नाटक, रंगमंचीय कार्यकलाप, नाट्य-प्रयोग का महत् अध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही 'रंगमंच' के परिषेक्षण में होने लगा था। भारतवर्ष में अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के फलस्वरूप इस रंगमंच-टृष्णि का सर्वथा अभाव बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध तक रहा है। अपनी प्राचीन नाट्य-निधि तथा रंग-क्रियाकलाप का रंगमंच के स्तर पर समुचित अध्ययन स्वातन्त्र्योत्तर भारतवर्ष की देन है। जबकि इस देश की चेतना प्रायः एक युग बाद गंभीर रूप से व्यावहारिक रंगमंच-क्षेत्र में कार्यरत हुई है। जबकि आधुनिक रंगमंच—अन्वेषण में स्वभावतः इस जागरण को (चेतना) अपनी प्राचीन, शास्त्रीय और लोक, पूर्व और पश्चिम—इस सब नाट्य-सामग्री तथा रंग-क्रियाकलापों के वास्तविक अध्ययन और उन सब में व्याप्त निश्चित रंगमंच के रूप तथा प्रकृति को समझने और ग्रहण करने की अपरिहार्य आवश्यकता पड़ी। इस संदर्भ में यह भी सच है, कि इस रंगमंच-अन्वेषण का कार्य वही कर सकता है जो व्यावहारिक रंगमंच में एक सजग, सचेत कार्यकर्ता के व्यक्तित्व को सतत जी रहा है। या जो उस महत् व्यक्तित्व को जीने की कामना करता है। वरना केवल बुद्धिद्वारा किसी भी देश, युग, प्रकृति के नाटक और रंगमंच को पूर्ण रूप से न समझा ही जा सकता है, न ग्रहण ही किया जा सकता है।

इस पुस्तक में जान-बूझकर नाटक से सम्बन्धित उन तथ्यों और पक्षों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है जिनका अध्ययन साहित्य और काव्यशास्त्र के स्तर से यहाँ पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है।

वास्तविक अर्थों में यह अध्ययन सम्पूर्ण होगा अपने आगामी भाग में आधुनिक रंगमंच के साथ।

यह पुस्तक यथाशीघ्र लिखने की प्रेरणा मुझे डॉक्टर विजयेन्द्र स्नातक ने दी। मैं उन्हें धन्यवाद देकर उस महत् क्षण का मूल्य नहीं घटाना चाहता।

इस पुस्तक-लेखन के पीछे प्रेरणास्वरूप उस अवाधि इतिहास की मूकवाणी सदा कार्य करती रही है, जहाँ भारत और पश्चिम के अनेक विद्वानों इस क्षेत्र में अपनी अनेक उल्लेखनीय कृतियाँ प्रस्तुत की हैं।

वह सब कृषि-कृषि मेरे माथे पर है।

साथ ही कुछ संस्थाओं—भारतीय नाट्य संघ, संगीतनाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तथा मित्र—श्री नेमिचन्द्र जैन, रमेश भट्ट, गोविन्द विद्यार्थी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अनेक स्तरों से इस पुस्तक में मेरी सहायता की है।

२६ अक्टूबर, १९६५  
नवी दिल्ली

—लक्ष्मीनारायण लाल

## रंगमंच-प्रस्तावना

पश्चिम का  
थियेटर और

### क. रंगमंच-अन्वेषण

रंगमंच : म  
सत्य। रंगमं  
सत्य। रंगमं

### ख. रंगमंच और उन्हें

आसत्याभास  
रंगमंच की

## १. संस्कृत रंगमंच

संस्कृत नाट  
अवस्थाएँ।  
रंग-वर्जित स  
लोकव्रूमिता  
अनुष्ठानगत  
नाटक के प्र  
मान्यतायें अ  
की स्थिति।

## २. संस्कृत रंगमंच

संस्कृत नाट

रंगमंचीय कार्यकलाप,  
के प्रथम दशक से ही  
नेक ऐतिहासिक और  
सर्वथा अभाव बीसवीं  
वित्तीय तथा रंग-किया-  
प्रोत्तर भारतवर्ष की  
भास्त्रीय और लोक,  
भास्त्रकलापों के वास्त-  
रूप तथा प्रकृति को  
। इस संदर्भ में यह  
है जो व्यावहारिक  
जी रहा है। या जो  
केवल बुद्धि द्वारा  
रूप से न समझा ही

ब्यों और पक्षों का  
और काव्यशास्त्र

भी भाग में आधु-

जयेन्द्र स्नातक ने  
ना चाहता।  
तिहास की मूक-  
नेक विद्वानों

टक अकादमी,  
सिंह, गोविन्द  
मेरी सहायता

लारामण लाल

## अनुक्रम

००००००

१—६

### रंगमंच-प्रस्तावना

पश्चिम का 'थियेटर' तथा भारत का 'नाट्य' और 'रंगमंच'  
थियेटर और रंगमंच।

१०—१७

### क. रंगमंच-अन्वेषण

रंगमंच : मनुष्य की एक समातन प्रवृत्ति। रंगमंच : एक अमूर्तं  
सत्य। रंगमंच में नाट्य-कृति। नाट्य-कृति में रंगमंच का मूर्तं  
सत्य। रंगमंच क्या है?

१८—२३

### ख. रंगमंच और उसकी रीति

असत्याभासी भाववर्मी रीति। सत्याभासी प्रतिनिधान रीति।  
रंगमंच की प्रक्रिया। रंगमंच के मात्र चरण।

२५—५१

### १. संस्कृत रंगमंच : कृतित्व पक्ष—रूपक (नाटक)

संस्कृत नाटक (रूपकत्व)। नाटक के तत्त्व। अर्थप्रकृतियाँ।  
अवस्थाएँ। संधियाँ। पात्र अथवा नेता। रस। नाटक में  
रंग-वर्जित सत्य। नाटक का स्वरूप और प्रकृति। धमिताएँ।  
लोकवर्मिता। लोक-नाटक की परम्परा और नाट्य-रूढ़ियाँ।  
अनुष्ठानगत कुछ रंग-परम्पराएँ। लोकनाट्य रूढ़ियाँ।  
नाटक के प्रमाण। नाट्यांग। नाटक के विषय। नाट्यगत  
मान्यताये और भारतीय जीवन-दर्शन। संस्कृत नाटक में संघर्ष  
की स्थिति।

५३—७१

### २. संस्कृत रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

संस्कृत नाट्य प्रदर्शन (प्रस्तुतिकरण) की परम्परा और

सुखान्तकी

१३५—१४१

रोमीय सुखान्तकी शैली। शेक्सपियर की सुखान्तकी शैली।  
शेक्सपियर की सुखान्तकी की प्रकृति। सुखान्तकी के प्रकार।  
सुखान्तकी का प्रदर्शन। प्रह्लादन।

७३—७७

७८—८०

८१—८५

अध्य-

८१—१२१

न्त।

शंक-

द्रामा

ता।

और

अन।

पूर्व-

यां।

१२२—१२३

१२४—१३४

त्व।

ता।

ति।

७. पाश्चात्य रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

१४३—१५०

निर्देशक। अभिनेता और अभिनय। मंच तथा प्रस्तुतिकरण  
सज्जा।

८. प्रेक्षागृह

१५१—१५५

प्रेक्षागृह तथा प्रस्तुतिकरण। ग्रीक प्रेक्षागृह। मध्ययुगीन प्रेक्षा-  
गृह। एलिजाबीथन रंगभवन (प्रेक्षागृह)। रेनेसाँ—'प्रोसीनियम  
आर्च मंच'।

९. दर्शक

१५६—१५७

१०. पाश्चात्य रंगमंच : इतिहास और परम्परा

१५८—१६४

रोमन थियेटर। मिडीवल थियेटर। रेनेसाँ—नवजागरण काल।  
एलिजाबीथन थियेटर। फ्रेंच बलैस्किल धारा। रेस्टोरेशन  
थियेटर।

परिशिष्ट

१६५—१६८

अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली

## चित्र-सूची

१. रंगमंच क्या है ?

मुखौटाधारी मनुष्य

चित्र, श्री गोविन्द विद्यार्थी के सौजन्य से

२. रंगमंच प्रन्वेषण

लोकवर्मी नाट्य परम्परा

३. रंगमंच का विकास

आस्ट्रेलियन समाचार ब्यूरो से प्राप्त चित्र

४. रंगमंच की प्रक्रिया

आस्ट्रेलियन समाचार ब्यूरो के सौजन्य से

५. रंगमंच और उसकी रीति

चित्र, श्री गोविन्द विद्यार्थी

६. लोक रंगमंच

चित्र, श्री गोविन्द विद्यार्थी

७. संस्कृत रंगमंच प्रस्तुतिकरण पथ

पूर्व रंग, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से

८. अभिनय, नृत

९. अभिनय, नृत्य

१०. विद्वान्

चित्र, श्री गोविन्द विद्यार्थी

११. भास के 'मध्यम व्यायोग' के दो पात्र

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से

१२. नाट्य धर्मी परम्परा के पात्रों की वेशभूषा  
भारतीय नाट्य संघ के सौजन्य से
१३. लोकधर्मी परम्परा के पात्रों की वेशभूषा  
भारतीय नाट्य संघ के सौजन्य से
१४. लोक नाट्य
१५. रंगभवन और प्रेक्षागृह—प्राचीन भारतीय रंगभवन  
चित्र, भारतीय नाट्य संघ के सौजन्य से
१६. कोणार्क का नट मंदिर
१७. भारतीय रंगमंच : इतिहास और परम्परा  
'जर्जर' नामक इन्द्रध्वज पूजा  
चित्र, श्री गोविन्द विद्यार्थी के सौजन्य से
१८. मध्यपुरान धार्मिक नाट्य परम्परा  
अंकिया नाट्यरूप, चित्र श्री गोविन्दजी

#### पाश्चात्य रंगमंच

१९. पाश्चात्य रंगमंच ड्रामा का प्रतीक
२०. शेक्सपियर रंगमंच, किंगलियर
२१. रंगभवन तथा प्रस्तुतिकरण  
ग्रीक थियेटर
२२. ओलिम्पिक थियेटर
२३. एलीजाबीथन थियेटर
२४. 'नोह' ड्रामा का मंच  
चित्र, भारतीय नाट्य संघ के सौजन्य से

रंगमंच और नाटक  
की  
भूमिका

●

## रंगमंच-प्रस्तावना

### पश्चिम का 'थियेटर' तथा भारत का 'नाट्य' और 'रंगभूमि'

श्री भरत मुनि प्रणीत नाट्य-शास्त्र में 'नाट्य' शब्द का प्रयोग और व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थ में हुआ है, जिसकी व्यपनी मर्यादा और विशेष अर्थ-गौरव है। यहाँ 'नाट्य' से तात्पर्य केवल नाटक अथवा रंग से नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत नाटक (कृति), रंग, वास्तु, अभिनय, रस, छन्द, नृत्य, संगीत, अलंकार, वेशभूषा, रंग-शिल्प, उपस्थापन, पात्र और दर्शक-समाज सब हैं—और इन सब का शास्त्र 'नाट्य-शास्त्र' है। नाट्य-शास्त्र के प्रथम अध्याय का एक सौ सोलहवाँ श्लोक इस स्थापना को स्वयं प्रमाणित करता है।

न तज्जानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न इसौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्द्यन्दृश्यते ॥

अर्थात् अध्ययन (श्रव्य एवं दृश्य) से प्राप्त किया ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, विद्या नहीं है, कला नहीं है, योग नहीं है, कर्म नहीं है, जो इस 'नाट्य' में न देखा जाता है।

पाठ्यात्य नाट्य साहित्य में 'थियेटर' शब्द का व्यवहार और अर्थ-गौरव भी इस 'नाट्य' के अनुरूप है। वहाँ 'थियेटर' के अन्तर्गत, नाट्य-साहित्य, प्रस्तुतिकरण, अभिनय, उपस्थापन, रंग-शिल्प, रंगभवन, रंगशाला और नाट्यालोचन और इन सबका शास्त्र समाहित है।

ठीक इसी प्रकार संस्कृत में 'रंग' शब्द का भी अपना विशेष अर्थ-गौरव है। 'रंग' के अन्तर्गत रंगभूमि और रंगशाला, दोनों भाग एक ही में समाविच्छृं हैं। विकृष्ट, चतुरस्र और त्रिकोण ये तीनों 'रंग' के प्रकार हैं। इन रंग-प्रकारों में विशद् रूप से रंगभूमि और रंगशाला के स्वरूपों का वर्णन मिलता है। विकृष्ट, चतुरस्र और त्रिकोण की रंगशाला में कितनी भूमि होनी चाहिये, उसका मानसार क्या हो, उसमें कितने अंग हों, किस वर्ग के दर्शक कहाँ और किस विधि से बैठेंगे—इन सबका सविस्तार वर्णन नाट्य-शास्त्र में मिलता है। इसी प्रकार, दूसरी ओर, इन तीनों प्रकार के 'रंगों' में 'रंगभूमि' का स्वरूप

क्या हो, इसके कितने भाग, किस भाष्य से रखे जाएँ और इसमें नेपथ्य, रंग-शीर्ष, रंग-पीठ, मत्तवारणी और यवनिका आदि की क्या स्थिति हो, इन सबका अत्यन्त वैज्ञानिक निदर्शन कहाँ मिलता है। वस्तुतः इसी को 'नाट्य' का वास्तु-शास्त्र कहा गया है।

पर 'नाट्य' शब्द की पश्चिम के 'थियेटर' शब्द के अनुरूप मर्यादा और इसका अर्थ-गौरव भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र काल तक ही सुहृद रहा—ऐसा स्पष्ट प्रकट होता है।

क्योंकि आगे चलकर धनंजय ने 'दशरूपकम्' में—जो भरत के नाट्य-शास्त्र के रूपक विषयक सिद्धान्तों का सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत करता है, नाट्य-शास्त्र के 'नाट्य' की मर्यादा और उसके विशाल अर्थ-गौरव को केवल 'रूपक' के क्षेत्र में सीमित कर दिया है। फिर तो स्वभावतः 'नाट्य' को स्पष्ट अथवा नाटक के ही अर्थ में ग्रहण कर लेना 'दशरूपकम्' के रचना-काल के बाद संस्कृत के समस्त नाट्य-शास्त्रियों और रस-शास्त्रियों के लिए सहज ही हो गया। क्योंकि तब नाट्य-शास्त्र को छोड़कर 'दशरूपकम्' ही बाद के नाट्य-शास्त्र तथा रस-शास्त्र के ग्रन्थों—प्रताप रुद्रीय, एकावली, साहित्य-दर्पण, नाट्य-दर्पण और रस-मंजरी आदि का उपजीव्य रहा।

लगता है कि कालान्तर में एक समय ऐसा आया कि 'नाट्य-शास्त्र' ही विलुप्त हो गया। भरत का नाम तो लोग लेते रहे, पर उन विद्वानों को नाट्य-शास्त्र के दर्शन न हो सके। आधुनिक युग में पश्चिम के अनेक स्वनामधन्य विद्वानों ने नाट्य-शास्त्र का अनुसंधान किया। इस तरह जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसका नये सिरे से सम्पादन और नव संस्करण हुआ। और जब इसके अनुवाद होने लगे तथा इसकी व्याख्यायें प्रस्तुत की गयीं, तब स्वभावतः 'नाट्य' शब्द का अनुवाद तथा अर्थवौध 'ड्रामा' से किया गया। फिर यही कार्य जब भारत के विद्वानों ने किया, तब उन्होंने भी 'नाट्य' का अनुवाद एवं भावग्रहण 'नाटक' से ही किया। आगे चलकर इससे यह अनर्थ हुआ कि पश्चिम के 'ड्रामा' और संस्कृत के 'नाटक' को एक ही भाव से देखना अथवा ग्रहण करना शुरू कर दिया गया। वर्तमान संदर्भ में ड्रामा शब्द का अनुवाद नाटक स्वीकार किया जा सकता है, पर 'ड्रामा', 'नाटक' (संस्कृत) का पर्याय हो जाय, यह इटिकोण भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों नाट्य-धर्मिताओं, पद्धतियों तथा रंग-संस्कारों के विपरीत है। इससे सबसे बड़ा दोष और हानि यह हुई है कि आज नाटक का विद्यार्थी तथा रसभोगी, पूर्व-पश्चिम की नाट्य-संपत्ति को सही ढंग

से ग्रहण नहीं वर्म की नाट्य-रह गये जिन्हों

हिन्दू अथ  
ड्रामा 'हेमलेट'

आगे चलक  
हुआ। पश्चिम  
आया। मर्योग  
दरिद्रचन्द्र, जिन्हे  
नाट्य-साहित्य से  
भी लिवे—विशेष  
उन्होंने भी इस  
उन्होंने लिखा, व  
नियम तथा टीक  
और अंग्रेजी नाट  
भारतेन्दु जी ने न  
ही पुनर्स्थानि वि  
'थियेटर' के स्वर  
वस्तुतः यह  
मूल दोष भारतीय  
उपरान्त काव्य-क्षे  
वामन, कुन्तल और  
कृष्ण न की कि क  
के 'नाट्य' सम्बन्ध  
प्रकाश ढाले। फल  
के सम्बन्ध में यीं,  
उसके स्थान पर  
त्यापना विशुद्ध रू  
शास्त्र को अविकास  
आचार्यों ने काव्य-न  
रूपक और 'नाट्य'

में नेपथ्य, रंग-  
हो, इन सबका  
नाट्य' का वास्तु-  
ल मर्यादा और  
हड़ रहा—ऐसा

के नाट्य-शास्त्र  
है, नाट्य-शास्त्र  
'रूपक' के क्षेत्र  
अथवा नाटक  
बाद संस्कृत के  
गया। क्योंकि  
श्वर तथा रस-  
द्वय-दर्पण और

नाट्य-शास्त्र' ही  
तानों को नाट्य-  
के स्वनामधन्य  
कुछ भी प्राप्त  
और जब इसके  
भावतः 'नाट्य'  
यही कार्य जब  
एवं भावप्रहरण  
कि पश्चिम के  
ग्रहण करना  
नाटक स्वीकार  
हो जाय, यह  
तयों तथा रंग-  
हुई है कि आज  
को सही ढंग

से ग्रहण नहीं कर पाता है। मेरा विश्वास है, इस विरोधी प्रकार और विभिन्न  
रंग की नाट्य-संपत्तियों के रस-ग्रहण एवं सही मूल्यांकन से वे विद्राह्म ही वंचित  
रह गये जिन्होंने 'ड्रामा' और 'नाटक' का एक ही अर्थ लिया।

हिन्दू अथवा संस्कृत रंगमंच का नाटक 'आकृतलम्' है और पश्चिम का  
ड्रामा 'हेमलेट' है।

आगे चलकर हमारा सम्पर्क बहुत समीप से पाश्चात्य नाट्य-साहित्य में  
हुआ। पश्चिम का 'थियेटर' शब्द अपने उसी अर्थ-गौरव के साथ हमारे सामने  
आया। संयोग की बात है कि हिन्दी के सर्वप्रथम यशस्वी नाटककार भारतेन्दु  
हरिश्चन्द्र, जिन्होंने अनेक मौलिक नाटक लिखे, संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी  
नाट्य-साहित्य में नाटक अनूदित किये तथा नाटक से सम्बन्धित अनेक लेख  
भी लिखे—विशेषकर 'योरोप में नाटकों का प्रचार' जैसे विषय पर; किन्तु  
उन्होंने भी इस व्यावहारिक दिशा में कुछ नहीं कहा। जो कुछ अपने लेखों में  
उन्होंने लिखा, वह एक और प्राचीन नाट्य-शास्त्र के कुछ नाटक-सम्बन्धी सामान्य  
नियम तथा टीका-स्तर से उनकी परिभाषायें हैं और दूसरी ओर भाषा नाटक  
और अंग्रेजी नाटक के इतिहास पर उनके अपने विचार हैं। पर कहीं भी  
भारतेन्दु जी ने न तो संस्कृत नाट्य-शास्त्र के 'नाट्य' शब्द के अर्थ-गौरव को  
ही पुनर्स्वर्णित किया, अथवा उसके लिये नया शब्द ही दिया, न तो अंग्रेजी के  
'थियेटर' के स्तर से भारतीय और पाश्चात्य नाट्य-साहित्य को ही देखा।

बस्तुतः वह दोष भारतेन्दु जी पर उतना आरोपित नहीं होना चाहिये—  
मूल दोष भारतीय समीक्षा-प्रणाली का रहा है। भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र के  
उपरान्त काव्य-क्षेत्र में एक-से-एक बड़े आचार्य अवतरित हुए, भामह, दण्डी,  
वामन, कुन्तल और पंडितराज जगन्नाथ, पर इनमें से एक भी आचार्य ने यह  
कृपा न की कि काव्य के ही अन्तर्गत मुख्य स्थान पाने वाले रूपक अथवा नाटक  
के 'नाट्य' सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा रूपों पर वे अपनी महत लेखनी से समुचित  
प्रकाश डालें। फल यह हुआ कि नाट्य-शास्त्र में जो महत्वपूर्ण स्थापनाएँ नाटक  
के सम्बन्ध में थीं, उनको न आगे प्रकाश ही मिला, न उनकी संवृद्धि ही हुई।  
इसके स्थान पर भरत मुनि ने जिस रस-निष्पत्ति का विवेचन और उसकी  
स्थापना विशुद्ध रूपक अथवा नाटक के ही प्रसंग में की, और उन्होंने समूचे  
शास्त्र को ग्रंथिकांशतः 'नाट्य' के ही अन्तर्गत रखकर देखा, फिर भी बाद के  
आचार्योंने काव्य-शास्त्र के उस विराट धरातल को बहुत ही सीमित कर दिया।  
रूपक और 'नाट्य' को तो जैसे आचार्योंने भुला ही दिया। यद्यपि 'नाट्य-

'शास्त्र' से ही प्राप्त प्रत्यात रस-सूत्र, 'विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रस-निष्पत्ति' अथवा काव्य-सूत्र को आगे विभिन्न सम्प्रदायों—अलंकार, रीति, वकीलित और ध्वनि में बौद्ध दिया, और उनके अति सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन हुए, पर दुर्भाग्यवश मूल 'नाट्य' ही पीछे छोड़ दिया गया।

यह व्यवहारिक हृष्टि-भेद हमारे नाट्य-निर्माण में बहुत ही अमंगलकारी रहा है, और नाटक के समस्त पक्ष और आयाम, मृजन और विवेचन इन दोनों धरातलों से अविकसित ही रह गये, तथा दूसरी और हमारी समूची नाट्य-सम्पत्ति मूल्यांकन-विहीन रह गयी। फलतः हमारे आधुनिक नाट्य को वह महान बल और महत्त्व प्रेरणा उस स्तर से नहीं प्राप्त हो सकी जिस तरह आधुनिक पाठ्याचार्य 'थियेटर' अथवा 'नाट्य' को वहाँ की प्राचीन नाट्य-सम्पत्ति के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा हृष्टि से प्राप्त हुई है। हर देश का 'नाट्य' वहाँ की प्राचीन सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं परम्परागत मूल्यों के विकास-क्रम में नित-नृत्तन और समुदिशाली होता जा रहा है। बिना इसके किसी भी देश में, भाषा में जो नाट्य आनंदोलन होते हैं अथवा जो नाटक रच जाते हैं, वे अपना, शक्तिहीन एवं जारज रहकर नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उनसे कोई भी नाट्य-संस्थान विकसित नहीं हो पाता। हमारे आधुनिक 'नाट्य' आनंदोलन की शक्तिहीनता के पीछे इस सत्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

### थियेटर और रंगमंच

जयशंकर प्रसाद ने भी पश्चिम के अपने अर्थ-गौरवपूर्ण शब्द 'थियेटर' के लिये सम्भवतः 'रंगमंच' शब्द का प्रयोग नहीं किया।<sup>१</sup> इस शीर्षक के अन्तर्गत मुख्यतः रंगमंच से तात्पर्य रंगभूमि अवर्त्ति अंग्रेजी के स्टेज से ही लिया है—वे लिखते हैं, "रंगमंच में भी दो भाग होते थे। पिछले भाग को रंगशीर्ष कहते थे, और सबसे आगे का भाग रंगपीठ कहा जाता था।"<sup>२</sup> वस्तुतः रंगभूमि का यह विभेद नाट्य-शास्त्र के ही आधार पर है। परन्तु नाट्य-शास्त्र में कहीं भी इस तरह 'रंगमंच' शब्द का व्यवहार ही नहीं हुआ है और मुख्यतः 'स्टेज' के संदर्भ में, यह तो असंभव ही है।

<sup>१</sup>. 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध' के अन्तर्गत, अनुक्रम में छठा निबंध, 'रंगमंच' पृष्ठ ६२। मारती भण्डार, पंचम संस्करण।

<sup>२</sup>. 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध' के अन्तर्गत अनुक्रम में छठा निबंध, 'रंगमंच' पृष्ठ ६४। मारती भण्डार, पंचम संस्करण।

स्वतन्त्रता प्र  
हमने अपने आपक  
भी नया अर्थ-गौर  
वहण करना प्रार  
अर्थ-गौरव के अनु  
आधुनिक रंगमंच  
एक स्वायत्त कला  
मामाजिकता की ।  
थियेटर, थियेटर  
में आज हमने 'रंग  
और मरणी रंगमंच  
और भी व्याप्त हो  
आर्द्ध थियेटर'। यह  
नाट्य-साहित्य, नाट  
स्वरूप और प्रस्तुति

लगता है  
एक हो पक्ष—  
पक्ष को। शेष  
पर्याय 'रंगमंच'

परिवेद्य

क्षेत्र में नाट्य-  
में, 'थियेटर' के  
शिळ्प, अभिनय  
केवल नाटक (—  
कर लिया।

'थियेटर'  
'थियेटर' से भी  
भीमाओं में नष्ट  
जाता। वस्तुतः  
इससे भी अधिक  
गे देखने का।

उगता है कि, पश्चिम के 'थियेटर' शब्द से यहाँ के विद्वानों ने उसके केवल एक ही पक्ष—भवन, मंच अथवा 'स्टेज' को ही लिया, अर्थात् थियेटर के बास्तु पक्ष को। ऐप पक्षों का भाव-ग्रहण ही ही नहीं सका। इसी लिए 'थियेटर' के पर्याय 'रंगमंच' को भी लोगों ने स्वभावतः बास्तु-स्तर से ही लिया।

परिप्रेक्ष्य की यह निम्न दुर्घटना ठीक उसी प्रकार हुई, जैसे संस्कृत समीक्षा क्षेत्र में नाट्य-शास्त्र के प्रति हुई है। 'नाट्य' के गौरव-पूर्ण क्षेत्र और आयाम में, 'थियेटर' के ही सहश, उसी अर्थ-गौरव के समान, नाटक, रंगभवन, रंग-शिल्प, अभिनय आदि सभी पक्ष समाहित थे, पर आगे के लोगों ने 'नाट्य' को केवल नाटक (नाट्य के केवल एक अंग अथवा पक्ष) के ही स्तर पर विधिटित कर लिया।

'थियेटर' के लिये 'रंगमंच' बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है पर इससे क्या। 'थियेटर' में भी अधिक उपयुक्त, गौरव-पूर्ण शब्द जब 'नाट्य' को हमने अपनी मीमांसा में नष्ट कर दिया, तो फिर शब्द विशेष का उत्तरा महत्व नहीं रह जाता। बस्तुतः महत्व है शब्द के पीछे अवधारणा, भाव-बोध, अर्थ-बोध और इससे भी अधिक उसके प्रति कृतसंकल्प होने का, उसे कर्म और दर्शन की इच्छा में देखने का।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त हम समान स्तर से पश्चिम के सम्पर्क में आये। हमने अपने आपको गौरव देने के साथ ही स्वभावतः अपने व्यवहृत शब्दों को भी नया अर्थ-गौरव दिया। 'रंगमंच' को हमने 'थियेटर' के ही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करना प्रारम्भ किया है। अब हम 'नाट्य-शास्त्र' में व्यवहृत 'नाट्य' के ही अर्थ-गौरव के अनुरूप कहने लगे हैं—संस्कृत रंगमंच (Hindu Theatre), आधुनिक रंगमंच (Modern Theatre), 'रंगमंचीय आनंदोलन'। 'रंगमंच : एक स्वायत्त कलासंस्था'। 'रंगमंच : एक आदिम परम्परा'। 'रंगमंच : पूरी मामाजिकता की अवाध वाना'। 'रंगमंच : आत्मदान'। शीर्ष थियेटर, लिटिश थियेटर, थियेटर ऑफ थेम्पियर के ही अर्थ-गौरव और ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 'रंगमंच' को देखना शुरू किया है—'प्रसाद का रंगमंच', 'वंगला और मगठी रंगमंच तथा भारतीय रंगमंच'। दूसरे संदर्भ में रंगमंच का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है, जैसे 'हिन्दू रंगमंच', 'शीर्ष थियेटर' और 'मास्को आर्ट थियेटर'। यहाँ 'हिन्दू रंगमंच' के अर्थबोध में एक और संस्कृत का समस्त नाट्य-साहित्य, नाट्य-शास्त्र है, दूसरी ओर उसमें व्याप्त और प्रतिपादित मंच-स्वरूप और प्रस्तुतिकरण का समूचा भावचित्र है। अभिनय और रंग-शिल्प

का सम्पूर्ण सत्य है। तीसरी ओर उसमें समूचा युग-मन है, उसकी कला-रचि, आनन्द-भोग का स्तर और उसकी विलास-भूमियाँ हैं। अर्थात् उस समूचे युग के नाटककार, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, निर्देशक, सुन्धार और सामाजिक-रसभोगी और उनके देश-काल, सभी कुछ यहाँ समन्वित है।

इसी प्रकार 'श्रीक थियेटर' से भावबोध है—यूनान के समूचे समाज के प्रतीक। 'एथेन्स' और 'ऐटिका' के नर-नारियों का जीवन और उनकी दिव्य धुई, पत्थर की रंगभूमि बनाई थी, 'थियेटर ऑफ डायोनिस'। उसके नाटकार, एस्किलस, सोफोक्लीज, इयुरिपिडेस और एरिस्टोफेन्स। नाट्य-अनुष्ठान-विधि, समृद्धगान, मुखोंटे और उनके नृत्य-संगीत। नाट्य-शास्त्री, अरस्तू और अभिनेता 'थेसिपिस'।

जीवन-गत रंगमंच का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। हम कहते आये हैं, जीवन रंगमंच है। हम इसमें अपनी पात्रता भोगकर, समय को प्रदर्शितकर प्रस्थान कर जाते हैं। हम जीवन-अभिनेता हैं। हम जीवन और काल-रूपी रंग-भूमि में प्रवेशकर राग-विगग, सुख-दुःख, सत-प्रसतु, कुरुपता एवं विराट सौन्दर्य के साक्षी बनते हैं, और अपनी गति से काल को भी विमोहित कर ले जाने हैं—

रंगभूमि जब सिय पगु धारी ।

देखि रूप भोहे नर-नारी ॥

भूपन सकल सुवेश सुहाये ।

अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥

हरिषि मुरन्ह दुन्दुभी बजायी ।

बरसि प्रसून अपछरा गायी ॥

यह एक जीवन-व्याप्ति, सम्पूर्ण और चिरन्तन रंगमंच की भाँकी है। नाट्य, रंगभूमि, अभिनय, रंग-शिल्प, अंग-रचना, हृष-सज्जा, गीत-संगीत, विमोहित नर-नारी रूपी प्रेक्षक वर्ग—सब कुछ तो है यहाँ, रंगमंच के सभी आयाम, सभी पक्ष।

अर्थ-गीरव के इस श्रीगणेश के साथ, यह अत्यावश्यक है कि हमारी पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को रंगमंच की सम्पूर्ण दृष्टि, और अर्थबोध—तात्त्विक एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों से प्राप्त हो।

आज यह बात नहीं है कि रंगमंच नवोन्मेष में सभी लोग इस 'रंगमंच' को सही ढंग से ही ले जाते हैं—अधिकांशतः लोग यही नहीं समझ पाये हैं कि रंगमंच क्या है? आज भी लोग रंगमंच को भवन और स्टेज के ही अर्थ में लेते हैं, मनोरंजन अथवा अतिरिक्त कार्यकलाप के ही रूप में। यह हमारे लिये ग्रासचर्य और दुःख की बात नहीं है। हमने अभी-अभी तो नाटक की, उसकी कुछ वाचित

मर्यादा देनी अभी (फिर से) प्रति जो निम्न व्याप्त थे, विरह है। मेरा विश्व मिलते ही हम रंगमंच भाव से बड़ा दुःख

विषयक हृष्टिके 'कान्सिस' 'थियेटर' की भूमि ढंग से सकेत विपरम आशंका प्रकार के वास्तविक व्याप्ति तो हम संसार के हो जायेगे।

वस्तुतः काव्य आज के समाजमें विशेषकर हिन्दी राजा के नाल में ग्रामभूमि के साथ सूक्ष्म ढंग से समाज को दीक्षित होता है,

आज 'रंगमंच' होता है, वह कुछ इन भौतिक सुविधाओं से

1. Thus the gets lost, own in co or pure m gossip on

न है, उसकी कला-हचि,  
अथवा उस समूचे युग  
और सामाजिक-सभोगी

न के समूचे समाज के  
स्फूर्ति और उत्तरास का  
वेवन और उनकी दिव्य  
उत्ताकार, उन्मुक्त छली  
द्वायोनिसम् । उसके  
ऐस्ट्रिस्टोफेन्स । नाट्य-  
नाट्य-शास्त्री, अस्तु

हम कहते ग्राह्य हैं,  
यम को प्रदाशितकर  
और काल-हप्ती रा-  
एवं विराट सौन्दर्य  
कर ले जाते हैं—

की है । नाट्य,  
विमोहित नर-  
शाम, सभी पक्ष ।  
क है कि हमारी  
बोध—तात्त्विक

स 'रंगमंच' को  
ग्राह्य हैं कि रंग-  
भर्य में लेते हैं,  
लिये ग्राइचर्य  
की कुछ बाढ़ित

### रंगमंच-प्रस्तावना

७

मर्यादा देनी प्रारम्भ की है । रंगमंच की अपनी अतुल गतिमा है । इसे हमने अभी (फिर से) ग्रहण किया है । इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि रंगमंच के प्रति जो निम्न वारणाये, कुश्रुतियाँ और कुसंस्कार आज से पहले समाज में व्याप्त थे, विरासत के रूप में स्वाभावतः आज के रंगमंच को वे भी मिल गए हैं । मेरा विश्वास है, रंगमंच को नव संस्कार, नव अर्थ और उसका स्वायत्त भाव मिलते ही हमारी रंगमंच-विषयक दृष्टि परिवर्तित हो वास्तविक और मम्पूरण रंगमंच भाव से गरिमापूरण हो जायेगी ।

बड़ा दुःख और अद्विर्वद पवित्रम् में कुछ परम विद्यात देशों के रंगमंच विषयक दृष्टिरूपों के विघटन पर अवश्य है ।

'कानिस स करगूसन' ने अपने अति महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'द आइडिया ऑफ वियेटर' की भूमिका में<sup>१</sup> इस वात की ओर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण एवं सशक्त ढंग से सकेत किया है, जिसमें पश्चात्ताप के साथ-ही-साथ इस तथ्य की ओर परम आशंका प्रकट की गई है कि 'ब्राडवे' अथवा 'हॉलीवुड' का समाज 'वियेटर' के वास्तविक धर्म, मूल धर्म और गौरव की भावना से दूर न हो जाय, नहीं तो हम समाज के नाट्य-साहित्य के आनन्द और विराट धारा से ही विछिन्न हो जायेगे ।

वस्तुतः काव्य एवं कला के महत दृष्टिकोण के स्तर पर यह सार्वदेशिक विघटन आज के समसामयिक जीवन की सांस्कृतिक दुर्बलता है । भारतीय रंगमंच का, विशेषकर हिन्दी राष्ट्रीय रंगमंच का पुनरुत्थान-कार्य, भावों के ऐसे ही संक्षमण काल में प्रारम्भ हुआ है, अतएव यहाँ पूरी सावधानी एवं विचार-गाम्भीर्य के साथ सूक्ष्म ढंग से रंगमंच के वास्तविक क्षेत्र और मर्यादा से रंगमंच-कर्मी समाज को दीक्षित एवं मुसंस्कृत करना है ।

आज 'रंगमंच' का नाम लेते ही जो भाव-चित्र हमारे सामने सहज उजागर होता है, वह कुछ इस प्रकार का है, आधुनिक जीवन के आनन्द-प्रसाधन तथा भौतिक सुविधाओं से परिपूरित एक विशाल रंगभवन—जिसके भीतर रंगशाला,

- Thus the very idea of a Theater, as Hamlet assumed it, gets lost, and the art of drama, having no place of its own in contemporary life, is confused with lyric poetry or pure music on one side, or with Editorializing and gossip on the other.....Page 15 (Introduction : 1)

जहाँ एक भाग में कुसियों पर सजे-सजाये दर्शकगण बैठे हैं और सामने मेहराव-वचित रंगदार और रंगपीठ पर अभिनेताओं द्वारा नाट्य-अनुष्ठान। पहला अन्तर्याम—दर्शकों का बाहर आना-जाना, शोर-गुल, चाय-काफी और सिगरेट पान। इसी भाँति दूसरा और तीसरा अंतराल और दो-ढाई घंटों की चहल-पहल, पारस्परिक औपचारिकता, सामाजिक आदान-प्रदान, साथ ही मनोरंजन, मित्रों-परिचिनियों से भेट-मिलान, और अपने-अपने व्यवसाय की अलग-अलग बातें।

रंगमंच के नाम पर आज यह भावचित्र और यह अवधारणा संभवतः हमें आधुनिक जीवन और उसमें भी अधिक मिलेमा-सम्भया से प्राप्त हुई है—जिसने निःसंदेह रंगमंच के व्यापक वर्ष, मूल प्रकृति, गौरव एवं अर्थवोध को धटा दिया है।

शेवसपियर ने हैमलेट के मुख से विषेषट्ट को 'दर्पण' कहा है, जो समूची प्रकृति की ऐसी अनुकूलित करता है कि जिसमें उसकी अंतरात्मा की लिंग, और काल की स्थिति उजागर होती है।

आज के सामाजिक तथा पाठक कहेंगे कि रंगमंच की यह प्रकृति, उसका यह स्वरूप 'हैमलेट' के अपने युग की अवधारणा के फलस्वरूप है। आज रंगमंच के प्रति यह अवधारणा नहीं बन सकती। हम आज जिस युग में जी रहे हैं, उसकी अपनी साधन-सम्पन्नता है, कला-रुचि है और सौन्दर्यवोध के अपने माप-इड हैं।

पर जरा चिंता करने की बात है—कि क्या यह सच भी है। क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि हमारा युग क्या है? इसका व्यक्तित्व कैसा है? और क्या इस युग की प्रकृति और इसकी अंतरात्मा, इसका सारा दुख-सुख, स्वर्ण और आशा, पीड़ा और त्रास आज हमारी नाट्य-कृतियों और उनके अनुष्ठानों में प्रतिविमित है? मैं अनुभव करता हूँ कि हम आज अपनी नाट्य-कृतियों तथा नाट्य-अनुष्ठानों से अपने समय को, जीवन को और अपनी प्रकृति की अन्तर्द्विती को नहीं देख पा रहे हैं। लगता है जैसे हमारे बीच में कोई जड़-मरीन आ खड़ी हुई है, जिसने रंगमंच की समूची प्रकृति, स्वरूप और गौरव को आच्छादित कर रखा है। रंगमंच को उसके मूल स्थान से ही स्थानान्तरित किया जा रहा है, और नभी रंगमंच के अभिज्ञान में आज इतना सकट उपस्थित है।

यह ठीक है कि आज हम कालिदास श्रवण शेखसपीयर के रंगमंच का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि निःसंदेह वह अपने युग की एक विशेष मृदित है—अनुभूति है। वह इतिहास दुहराया नहीं जा सकता। पर आज यह अन्यावश्यक है कि, रंगमंच क्या है? इसका सत्य भाव हमें प्राप्त हो तथा उसकी अनुभूति हमें हो जाय। जब तक हम इस महाभाव में वचित रहेंगे, तब तक न हम कालिदास, जेक्सपियर श्रादि की मढ़ान् नाट्य-कृतियों का रसा-

स्वादन पा सकते  
युग-विशेष का र  
जीवन्त काव्य-क  
विद्वा के ही स्तर

नाटक में न  
हमें रंगमंच का

एवं वेठे हैं और मामने मेहराब-  
नाट्य-अनुष्ठान। पहला अन्त-  
य-काफी और सिगरेट पान।  
ई धंटों की चहल-पहल, पार-  
थ ही मतोरंजन, मित्रो-परि-  
श्रालग-श्वलग वाते।

यह अवधारणा संभवतः हमें  
ता से प्राप्त हुई है—जिसने  
अर्थवोध को धारा दिया है।  
‘दर्पण’ कहा है, जो ममूची  
अंतर्गतमा की लक्षि, और

च की यह प्रकृति, उसका  
कलस्वरूप है। आज रंग-  
आज जिस युग में जी रहे  
और सौन्दर्यवोध के अपने

सब भी है। क्या हमने  
सका व्यक्तित्व कैसा है ?  
इसका सारा दुख-मुख,  
दय-कृतियों और उसके  
हम आज अपनी नाट्य-  
को और अपनी प्रकृति  
मारे दीव में कोई जड़-  
ति, स्वरूप और गौरव  
न से ही स्थानान्वयित  
आज इतना मंकट उप-

त्रियर के रंगमंच का  
की एक विशेष मृद्घि  
कता। पर आज यह  
हमें प्राप्त हो तथा  
मे वंचित रहेगे, तब  
य-कृतियों का रसा-

स्वादन पा सकते हैं, न उस युग की कला-रुचि ही समझ सकते हैं और न अपने  
युग-विशेष का रंगमंच निर्मित कर सकते हैं। नाटक जैसे अति शक्तिशाली तथा  
जीवन्त काव्य-कला माध्यम को केवल हम साहित्य के एक सामान्य प्रकार एवं  
विद्या के ही स्तर से देखते रह जायेगे।

नाटक में नाटक की आत्मा की अनुभूति और उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिये  
हमें रंगमंच का सम्पूर्ण सत्य भाव चाहिये।

क  
०००००

## रंगमंच-अन्वेषण

रंगमंच का स्वरूप-अन्वेषण, और उसका अर्थ-गौरव जीवन की ही भाँति है। यह अपने अतल में जितना गहन और अमृत है, भौतिक धरातल पर यह उतना ही सूर्त और विराट है। जितना ही यह एक और आदिम और सनातन है, उतना ही यह गत्यात्मक और युग-सापेक्ष है। यह इतना असीम और अपरिमेय है कि इसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को देख पाना, अभिज्ञान करना और सबसे अधिक इसे अनुभवगम्य कर पाना किसी समाज अथवा व्यक्ति के लिये परम साधना और सौभाग्य से ही सम्भव है।

'रंगमंच क्या है?' इसके व्यक्तित्व से परिचय कराने का अतिमहत्वपूर्ण प्रयत्न शेखसपियर ने 'हेमलेट' के माध्यम से किया है। 'हेमलेट' अपने अभिनेताओं से इसके स्वरूप तथा धर्म-अभिज्ञान के विषय में कहता है :

"The purpose of playing, whose end, both at first and now, was and is, to hold, as 'Twere' The Mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her image, and the very age & body of the time his form & pressure."

अर्थात् नाटक खेलने का प्रयोजन तथा उद्देश्य, जैसा कि आदि काल से अब तक था, और आज भी है—प्रकृति को दर्पण दिखाना है, (सत) गुण को उसकी आकृति देना है, उसकी भूति का उपहास करना है, तथा युग, काल के जारीर को, उसके स्वरूप और प्रभाव को (व्यक्त) करना है।

मात्र इतने कथन में अनेक महत्वपूर्ण मकेत हैं, जो पादचात्य रंगमंच के मूलभूत तत्वों का निर्देश करते हैं। इनमें वे तत्व भी हैं, जो संसार के सभी रंगमंचों के मूलाधार हैं और उनके स्वरूप के परिचायक हैं—जैसे रंगमंच का अदिकालिक तथा सनातन पक्ष, युग-काल तथा समाज की व्यंजना, तथा इसके अन्तर्गत नाटक खेलने और दिखाने के स्तर से नाटक-अभिनय, दर्शक-समाज आदि। वस्तुतः यह कथन शेखसपियर के थियेटर के व्यक्तित्व-परिचय के संदर्भ

में है, जो निःसन्दर्भ करता है। हेमलेट रंगमंच की प्रकृति है। हेमलेट का वह करता है जो यथा महाशक्तिमान है।

रंगमंच : मनुष्य

रंगमंच एक मानव-संस्कृति में उपलब्ध जीवन की मूलगत, इतिहास है, पर किसी मनुष्य होने का हम संज्ञा मिलती है।

इस सनातन तमानव-हृदय की वसूर्त और युग के साथ

रंगमंच के प्राय मंच का उदय वार्षिक मनुष्य की वार्षिक प्रमुख ने अपनी जंग आधार पर रंग रचाना

पर आधार-भूत स्वाला। मनुष्य में एक जूद उसके विषय में इसी भी नहीं कहा है—यह विष्वां तथा हृशीं को करने का सत्य। अर्थात् देने की प्रवृत्ति अर्थात् व

में है, जो निःसन्देह अपने युग, अपनी कला-रुचि का जीवन्त प्रमाण उपस्थित करता है। हेमलेटने थियेटर को दर्शण की उपमा से समझाया है, जो पाश्चात्य रंगमंच की प्रकृति और स्वरूप का सत्यतम और सुन्दरम उदाहरण और उपभान है। हेमलेटका वह रंगमंच ऐसा दर्शण है, जो समूची प्रकृति की सफल अनुकृति करता है जो यथार्थ की प्रतिक्रिया है। पर वह दर्शण इतना सनातन और महाशक्तिमान् है कि उसमें युग और काल की समूची छवि उतर आती है।

## क ००००० मंच-अन्वेषण

यीवन की ही भाँति  
क विशाल पर यह  
आदिम और सनातन  
प्रसीम और अपरि-  
करना और सबसे  
किं के लिये परम

तेमहत्वपूर्ण प्रयत्न  
ने अभिनेताओं से

at first and  
Mirror up to  
er image, and  
ssure."

काल से अब तक  
युगा को उसकी  
काल के शरीर

चात्य रंगमंच के  
संसार के सभी  
जैसे रंगमंच का  
नना, तथा इसके  
दर्शक-समाज  
परिचय के संदर्भ

### रंगमंच : मनुष्य को सनातन प्रवृत्ति

रंगमंच एक मानव प्रवृत्ति है—अनिवार्य, आदिम सत्य, जिसकी तुलना मानव संस्कृति में उपलब्ध कोई अन्य विभूति नहीं कर सकती। हम शताब्दियों तक, जीवन की मूलगत, आवश्यक सुविधाओं तथा साधनों के बिना रहे हैं, इसका साक्षी इतिहास है, पर किसी भी रूप में सही, रंगमंच के बिना हम कभी नहीं रहे हैं। मनुष्य होने का हमारा यही प्रमाण रहा है, संभवतः तभी हमें अमृत-पूत की संज्ञा मिलती है। रसमय और कलापूत हम कहे गये हैं।

इस सनातन तथा आत्मसिद्ध इच्छा के पीछे अवारभूत सत्य क्या है ? मानव-हृदय की वह कौन-सी अवाधि, प्रेरक शक्ति थी जिससे रंगमंच अमृत से मूर्त और युग के साथ सदैव चिरगामी रहा !

रंगमंच के प्रायः सभी इतिहासकारों तथा विशेषज्ञों ने बताया है कि रंग-मंच का उदय धार्मिक अनुष्ठानों तथा धर्म-कृत्यों से हुआ है, इस प्रकार रंगमंच मनुष्य की धार्मिक प्रवृत्ति की देन है। कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि मनुष्य ने अपनी जंगली अवस्था में ही अपने कर्मों तथा साहसिक घटनाओं के आधार पर रंग रचना प्रारम्भ किया था।

पर आधार-भूत सत्य इन स्थापनाओं से कहीं और गहरे है—वस्तुतः मानव की आदि चेतना और मन ही सबसे अधिक मौलिक, सृजनशील और नाटकीय है। इतना नाटकीय कि ईश्वर तथा प्रकृति की सृजन-सत्ता को ही चुनांती देने वाला। मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसकी असीम प्राणवत्ता के बावजूद उसके विषय में इतिहास, मनोविज्ञान और सौन्दर्य-शास्त्र ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है—यह है रूपान्तर करने की प्रवृत्ति, अर्थात् वाणि जगत से प्राप्त विष्वां तथा हश्यों को स्वेच्छा-मृष्ट अन्तःकरण से उद्भूत हश्यों के विरुद्ध खड़ा करने का सत्य। अर्थात् प्रकृति में दीखने वाले, प्राप्त हश्यों को एक अन्य रूप देने की प्रवृत्ति अर्थात् वह प्रवृत्ति जिसका वास्तविक रूप स्पष्टतः उस अववारणा

में प्रकट होता है, जिसे नाटकीयता कहा जाता है।

मनुष्य की यह आदिम प्रवृत्ति उसकी एक ऐसी विशेष मृजनशील शक्ति थी, जिसका पता वह सदियों तक स्वयं भी न पा सका, पर उस शक्ति को वह सनातन से व्यवहार तथा प्रयोग में लाना रहा। इस शक्ति तथा प्रवृत्ति का आभास मनुष्य को जब हुआ होगा, तब तक वह सदियों जी चुका होगा और अपनी उस प्रवृत्ति के असंख्य जीवित प्रभासण दे चुका होगा।

एक मृजन ईश्वर करता है, प्रकृति करती है, पर मनुष्य इससे संतुष्ट कहाँ होता है? वह तो संतुष्ट तब होता है, जब वह स्वयं एक अपना अलग मृजन करता है—अपने आपमें एक जगत का मौलिक निर्माण करता है। इस क्षेत्र में उसे चाहे मुखौटे, नक्ली चेहरे और रंग पोतकर ही क्यों न अपने कार्य पूरे करने पड़े। मनुष्य की यह नाटकीय प्रवृत्ति उसे अनेक स्तरों का आनन्द देती है। वह लक्ष्मा का आनन्द लेता है। अमरत्व का देवता और ईश्वर बनने का वह आनन्द लेता है। अर्थात् वह उस सबको अपने इस स्वरचित जगत में प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है, जो उसे ईश्वर तथा प्रकृति की ओर में नहीं मिला, अथवा जो उसे कभी नहीं मिलता।

भारत में द्वंद्ववज के उत्सव के ग्रंथ के रूप में नाटक के प्रथम अभिनय और दूसरी और पश्चिम में देवता के पूजन-आनन्द को डितिहासकारों ने धार्मिक कृत्य के स्तर से नाटक अथवा रंगमंच का आदि स्वरूप माना है। वस्तुतः यह स्वरूप यूलतः मनुष्य की उक्त मनातन प्रवृत्ति का परिचायक था, जहाँ उसने रूपान्तरण और अनुकरण का मार्वजनिक तथा व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह धार्मिक कृत्य अथवा अनुष्ठान वाद में हुआ होगा, पहले यह आत्मानन्द ही रहा होगा। प्राचीन भारत के इस प्रकार के उत्सवों में सर्वाधिक महान उत्सव इन्द्र के ध्वज-इष्ठ का था, जिसे 'द्वंद्ववज महा' अथवा 'शक्रमहा' कहते थे। नाट्य-शास्त्र इसी रंगोत्सव को अपना आधार मानकर चलता है। कालान्तर में जब रंगोत्सव के अन्तर्गत नाटक मुख्य हो गया होगा तब रंग का उत्सव पक्ष द्वकर पूर्वरंग के रूप में विलीन हो गया होगा।

### रंगमंच : एक अमूर्त सत्य

रंगमंच एक भाव है—एक अनुभव है, जिसकी अपनी असीम व्यापकता और गहराई है। इसके मूलभाव और इसकी सम्पूर्ण प्रवृत्ति के साथ ही मनुष्य जन्म लेता है और शिशु जो जेन रखता है, और अपनी संहज मंडली के बीच

रंगमंच-प्रस्ता

वह जो वहर  
उदाहरण नहीं  
अनुकरण तथा  
उसके रंगक्षेत्र  
नहीं कर सकता।  
चरम सीमा।

बच्चा के  
रंग-संसार भी  
है। उसके इस  
बनकर अपनी  
अपनी आँखों  
है, और उसके

जिशु के  
नहीं समझ सकते  
हमसे पूर्णतः  
है : जिसमें जिन  
न अभिनेता हैं।

इस प्रका  
शक्ति का सृ  
हुआ जीवन  
दिये सीमित  
गौरवान्वित है  
उपभोक्ता में  
सृजनकर रंग  
आनन्द लेने  
जीवंत होता है  
वरन उसका जीना मनुष्य

सुन्दर, इ  
वह प्रकृति का  
मौलिक, उसके

शक्ति  
शक्ति को  
थथा प्रवृत्ति  
होगा और

संतुष्ट कहाँ  
लग सृजन  
इस क्षेत्र में  
नी कार्य पूरे  
आनन्द देती  
र बनने का  
त में प्राप्त  
ओर में नहीं

अभिनय  
सकारों ने  
माना है।

चायक था,  
उदाहरण  
, पहले यह  
में सर्वाधिक  
‘शक्तिसहा’  
चलता है।  
गा तब रंग

व्यापकता  
ही मनुष्य  
जी के बीच

वह जो बहुरंगी नाट्य उजागर करता है, वह क्या इसी स्वाधी भाव का उत्तर्लेन उदाहरण नहीं है? वह जो कुछ अपने प्रत्यक्ष जगत में देखता है, उसका अनुकरण तथा उसका सजीव अभिनय उसका अपना संसार है। जब मनुष्य उसके रंगक्षेत्र को समझ नहीं पाता, अथवा उसके रचन नाटक की अनुभूति नहीं कर सकता और उसमें विद्धि उपस्थित करता है, तब शिशु के दुख की चरम सीमा उसके आँसू है।

बच्चा अपने इस अनुकरणमय रंग-संसार के अतिरिक्त एक सृजनमय रंग-संसार भी बनाता है, जो ईश्वर और प्रकृति की शक्ति और नियमों से परे है। उसके इस रंग-संसार में पेड़-पौधे बोलते हैं। मिट्टी के बिलीने राजा-रानी बनकर अपना पूरा जीवनवृत्त रचा जाते हैं। वह ग्रहश्य लोक से परियों को अपनी आँखों में उतारकर सामने धूल-माटी में साक्षात् सस्वदप खड़ा कर लेना है, और उनसे अपनी अनोखी वाणी में बातें भी करता है।

शिशु के इस सृजनशील विशुद्ध काल्पनिक रंगमंच को हम-आप बिलकुल नहीं समझ सकते। सम्भवतः इसी लिये बच्चा सबसे छिपकर, अर्थात् अपने को हमसे पूर्णतः अदृश्य रखकर अपना रंग रचता है—जिसका पूरा ‘नाट्य’ अद्भुत है: जिसमें किसी भी रंग-साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, न नाट्य कृति की, न अभिनेता की, न मंच की और न किसी दर्शक की।

इस प्रकार रंगमंच मनुष्य की मूलतः आंतरिक वृत्तियों तथा उसकी सम्पूर्ण शक्ति का सृजन-रूप है। मनुष्य अपने प्राप्त जीवन के भीतर से एक अपना रचा हुआ जीवन अनुभूत करता है, और सजा-ननाकार, ईश्वर अथवा प्रकृति के दिये सीमित तथा विवश जीवन में सर्वथा भिन्न सिद्धकर वह यह कहने में गौरवान्वित होता है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा जीवन है, जिसका सियामक और उपभोक्ता मैं हूँ।” जिस जाति एवं राष्ट्र में इस प्रकार अपने जीवन को स्वयं सृजनकर रंगमंच के भीतर उसकी इस भाँति पूर्ण छवि देखने और उसका पूर्ण आनन्द लेने की क्षमता होती है, वह जाति एवं राष्ट्र उतना ही महान् और जीवंत होता है, क्योंकि इस मूल्य स्तर से मनुष्य, जीवन का रसभोक्ता ही नहीं, वरन् उसका कर्ता और स्वामी भी होता है। अन्यथा केवल प्रकृतिप्रदत्त जीवन जीना मनुष्य की वास्तविक दासता है।

सुन्दर, शक्तिशाली और गोरक्ष-पूर्ण मनुष्य की पहचान क्या है? यही कि वह प्रकृति का दास नहीं है, उसका मुक्तापेशी नहीं है। बल्कि वह एक अपना मौलिक, उसमें सर्वथा भिन्न अपना मनचाहा संसार रचता है।

मनुष्य का अपना विरचित संसार—यही वास्तविक रंगमंच है। और रचना का सम्पूर्ण विराट भाव उसकी प्रेरणा—यही रंगमंच का चिरन्तन दर्शन है, जिसमें वह अपनी पूर्ण छवि प्रत्यक्ष देखता है—अपने युग और जीवन की आत्मा को समझने और उसका आनन्द लेने का वह प्रयत्न करता है। यायद यही कारण है कि जैसे-जैसे जीवन का रूप बदलता गया है, जीवन में आनन्द लेने की प्रकृति बदलती गयी है, वैसे-वैसे स्वभावतः रंगमंच के स्थापत्य में, रचना में परिवर्तन होता गया है।

रंगमंच की आत्मा नाटक अथवा नाटकीयता है, और उसका सनातन धर्म प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन का सत्य समान रूप से मनुष्य के लिये भी लागू है। तभी यह कहना सत्य है कि रंगमंच की सत्ता मनुष्य जीवन के साथ है, विनिक एक दूसरे का पर्याय जैसा है।

प्रदर्शन मनुष्य का सहज धर्म है, और उसका आत्मानन्द भी और इससे भी आगे यह आत्म-प्रदर्शन उसकी धार्मिक प्रवृत्ति तथा सौन्दर्य-बोध के लिये भी है।

इसी प्रदर्शन और भावाभिव्यक्ति के ही आधार पर यह सिद्ध है कि, जब कहीं कोई एक भी नाटक नहीं लिखा गया था, रंगमंच का पूर्ण अस्तित्व तब भी था। आदिम काल में मनुष्य ने अपने गिरोह के साथ मृगया-आनन्द, विजयोल्लास, देव-पूजा और कृषि-उत्सव अथवा कर्म में जब समूह नर्तन किया होगा, वह रंगमंच ही था।

वह भी रंगमंच ही था जब मनुष्य ने गिरोह के सम्मुख अपनी किसी हृदय-स्पर्शी घटना, घनीभूत मनोभाव को मुद्राओं और संकेतात्मक भावाभिन्नता के साथ, बिना किसी शब्दोच्चारण के व्यक्त किया होगा। पररूपण, भावाभिन्नता ही, इस प्रकार रंगमंच की मूलभूत कला है। इसके लिये यह न किसी रंग भवन की अपेक्षा करता है, न किसी विशेष मंच की। क्योंकि इसकी रचना, इसकी अभिव्यक्ति कहीं भी, कैसे भी, सदैव संभव है—खेत में, भार्ग में, खुले मैदान में, मनुष्यों की परिवार और उनकी भीड़ में।

### रंगमंच में नाट्य कृति

सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिये रंगमंच के लिये नाटक सदियों बाद कालान्तर में लिये गए, प्रथम चरण में, नृत्य-गीत आदि के रूप में। द्वितीय चरण में, कथा और चरित्र का रंग डालकर। और उयों-ज्यों इस

भाँति मनुष्य का उ स्वभावतः पूर्ण रचना इनी बड़ी कि रंगमंच अन्तर्निहित हो गया

रंगमंच का रूप साथ सरल से संशिलित

### नाट्य-कृति में रंग

जब नाटक खेल विधि में रंगमंच अपना नरह भी कह सकते अथवा अलिखित नाम और व्यापक शर्थ से

मनुष्य इसके पूरक उसने जब रंगमंच के स्वभावतः नाटक खेल विधि में समाहित नाटक खेलने तथा रंग

प्रादृश्य-कृति और एक-दूसरे के पूरक अ

नाट्य-कृति में नाट्य-रेखाओं में ब्राह्मणों, मनोवृत्तियों लन तथा संकलन वै चरित्रों के पीछे अभिव्यक्ति कलात्मक, मृजनशील हम समाज में अपने सकौं। हम एक ही समाज के साथ आने वाले हैं।

ठीक इसी सदमें

है। और  
चिरन्तन  
और जीवन  
करता है।  
जीवन में  
के स्थापत्य

प्रत्यन धर्म  
लागू है।

है, बल्कि

और इसमें  
के लिये

कि, जब  
तत्त्व तब  
आनन्द,  
नियंत्रित किया

ही हृदय-  
भन्य के  
मावाभि-  
क्षसी रंग  
रचना,  
में, सुने

नाटक  
के रूप  
यों इस

भाँति मनुष्य का जीवन सरल से मंशिलष्ट होता गया, उसके रंगमंच में स्वभावतः पूर्ण रचित नाट्य कृति की अपेक्षा होती गई। और यह अपेक्षा इननी बड़ी कि रंगमंच का पूर्ण रूप, उसका मारा स्थापत्य नाट्य-कृति में अन्तर्निहित हो गया।

रंगमंच का रूप और उसका स्थापत्य भी स्वभावतः जीवन की प्रकृति के साथ सरल ने मंशिलष्ट होता गया।

### नाट्य-कृति में रंगमंच का मूर्त्त सत्य

जब नाटक खेलने के लिये लिखा गया, तब उसकी अन्तरात्मा और रचनाविधि में रंगमंच अपने समस्त तत्त्वों के साथ कार्य करता गया। बल्कि हम इस नरह भी कह सकते हैं कि रंगमंच को ही अभिव्यक्ति देने के लिये लिखित अथवा अलिखित नाट्य-कृति की सृष्टि हुई। क्योंकि नाटक ही तो अपने मूर्त्त और व्यापक अर्थ से रंगमंच है। और नाट्य-प्रवृत्ति इसका प्राण।

मनुष्य इसके पूर्व सदा अलिखित नाटक खेलता आ ही रहा था और वस्तुतः उसने जब रंगमंच के अनुष्ठान के लिये नाटक लिखना प्रारम्भ किया, तब स्वभावतः नाटक खेलने की समस्त विधियाँ—समस्त छंद, स्वर, रंग-शिल्प, वर्ण-विपय में समाहित हुए। विना इसके नाटक 'नाटक' ही नहीं हो सकता और नाटक खेलने तथा रचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

~~नाट्य-कृति~~ और रंगमंच एक-दूसरे के कार्य और कारण हैं, दूसरे स्तर पर एक-दूसरे के पूरक और यहाँ तक कि एक-दूसरे के पर्याय भी हैं।

नाट्य-कृति में नाटककार ने एक समाज, एक युग अथवा काल को अपनी नाट्य-रेखाओं में बांधा। अर्थात् विविध प्रकार के चरित्रों तथा उनके कर्मों, ग्राकांकाशों, मनोवृत्तियों और जीवन में उनके प्रभावों एवं परिणामों के आकलन तथा संकलन के ही रूप में वह नाट्य-कृति प्रस्तुत हुई। नाट्य-कृति के चरित्रों के पीछे अभिनय और अभिनेता की कल्पना हुई। और यह सब, इतना कलात्मक, मृजनशील तानाबाना इसलिए तैयार किया गया कि उसे प्रस्तुतकर हम समाज में अपने आनन्द और मनोरंजन को विविध और असीम रूप दे सकें। हम एक ही स्तर से, एक ही समय, एक ही स्थान पर अपने रस-रंजक समाज के साथ आनन्द ले सकें।

ठीक इसी संदर्भ में रंगमंच अपने अमूर्त रूप में—

- नाटककार
- निर्देशक
- प्रस्तुतिकरण-अंग
- दर्शक-समाज

के अन्तःकरण में सदैव विद्यमान रहता है और वहाँ निरंतर सौन्दर्य-बोध के साथ विकसित होता रहता है। भारतीय रस-सिद्धान्त के पीछे वही सत्य मूलाधार के रूप में प्रकट है : और पाठ्यात्म्य नाट्य-शास्त्र के प्राचीन और आधुनिक रंगमंच में यही सत्य क्रमशः रेचन-सिद्धान्त और सम्प्रेरणीयता के मूल्य की कोड़ि में चरितार्थ होता है।

### रंगमंच क्या है ?

ऊर के विचार अनुक्रमों में रंगमंच का अन्वेषण उसके भावना पथ, अथवा उसके आंतरिक पक्ष की गरिमा के स्तर से किया गया है, जो निश्चय ही अपेक्षाकृत अनुभूति का विषय है, विचार-विनिभय का उतना नहीं।

रंगमंच एक अनुभूति है, उसे हम रंगमंच का आन्तरिक पथ कह सकते हैं, पर जीवन में इसकी विराटना और समग्रता को देखना और उसके विभिन्न तत्वों को सही अर्थों तथा उसके ही अनुपात में समझना, रंगमंच की अनुभूति का व्यावहारिक पक्ष है।

रंगमंच का इसके सम्पूर्ण अर्थ में ग्रहण अथवा इसकी महत अवधारणा, यह आधुनिक युग के चिन्तन और व्यवहार का फल है। प्राचीन अथवा मध्ययुग में मनुष्य ने नाटक की रचना की, उसे सेला, देखा और वह भावमन हुआ। वह इतने बड़े रंगमंच का व्यापक प्रयोग अथवा व्यवहार कर रहा है, शायद वह इसके लिए इतना चेतन न था—जितना कि आधुनिक युग रंगमंच के प्रति चेतन और जागरूक हुआ है।

रंगमंच के विषय में आधुनिक युग की चेतना इतनी बड़ी है कि इसे विज्ञान तक का स्तर मिला है। विभिन्न पक्षों में एक हिट से देखकर रंगमंच का एक व्यापक और सही अर्थ इस युग में लिया गया। हम जब रंगमंच कहते हैं, तब हमारी अवधारणा और हिट में इतना व्यापक अर्थ रहता है :

नाट्य, कृतित्व पक्ष  
(नाटक)

निर्देशन

अभिन्नय

आंगिक


वाचिक

मंच सज्जा

प्रकाश

रिहर्सल

रंगमंच के इस विभिन्न पक्ष में आज इतने विभिन्न काल का है। रंगमंच की श्रम-विभाजन की



रंगमंच के इस व्यावहारिक रूप का उक्त भावनिक निश्चय ही वर्तमान काल का है। रंगमंच अपने विविध पक्षों में—विशेषकर अपने प्रस्तुतिकरण-पक्ष में आज इतने विभागों में बँटा हुआ है, इसके पीछे निश्चय ही आधुनिक मुण्ड की श्रम-विभाजन की प्रवृत्ति कार्य कर रही है।

व्याख्यायें, रंगबोध  
रंगमंच-क्षेत्र में मिल  
फिर भी दो मृ  
दिया जाता है।—

० असत्याभास

(नान इ

१ सत्याभासी

(इत्युज्जि

ख  
०००००

## रंगमंच और उसकी रीति

पिछले पृष्ठों में हमने विचार किया है कि रंगमंच तब भी था, जब नाटक नहीं लिया जा सकता था, जबकि आदिम मनुष्य ने आनन्द-विभोर होकर गिरोह में नृत्य किया था, आपने किसी सफल मुग्या-अभियान में। विना कुछ बोले, जब उसने मुद्रा, भंगिमा और चाप्टाओं-संकेतों से कोई भावकथा कही होगी। शब्द-हीन कथा-वस्तु की नृत्यकथा—भावकथा।

अपने प्रत्यक्ष अर्थों में रंगमंच किसी विषयवस्तु को अभिनय द्वारा प्रदर्शन करने की कला है। इसके लिये इसे न किसी विशेष रंगभवन की आवश्यकता है, न मंच की, न किसी रंगशिल्प की। व्योंगि रंगमंच की प्रतिष्ठा, इसकी रचना इसका प्रयोग कहीं भी किसी भूमि-वंड पर ही सकता है। वस्तुतः यही रंगमंच की मूल प्रकृति है।

कालान्तर में जैसे-जैसे मनुष्य का जीवन उन्नत, समृद्ध और संश्लिष्ट हुआ, स्वभावतः रंगमंच का भी वही रूप हुआ। उसके भीतर पूर्ण संगठित नाट्य-कृति आयी। उस नाट्य-कृति में जो जीवन प्रतिविम्बित हुआ, उसे उस नाटक से निकालकर मंच पर रखने और दर्शक को दिखाने का प्रश्न आया। इसका फल यह हुआ कि प्रथम, रंगमंच का क्षेत्र बहुत ही विशाल और गहन हो गया। इसमें मंच, प्रस्तुतिकरण-तत्व, रंग-शिल्प, इन सब पक्षों का ग्रद्भुत विकास हुआ। और ये सब अपने-आप में बहुत गहन कलात्मक हो गये। दूसरे, नाटक की प्रदर्शन-पद्धति, उसकी व्याख्या, अर्थबोध को लेकर निर्देशकों के, विभिन्न विचार और उद्देश्य प्रकट होने लगे। अर्थात् सीधा-सादा स्पष्ट रंगमंच, साहित्य, कला और विज्ञान तीनों को अपने व्यक्तित्व में समेट ले गया।

नाट्य-वस्तु को मंच पर प्रस्तुत करने के लिये उसे एक निश्चित रूप, व्यवहार और अर्थ देना—इस सत्य ने रंगमंच की रीति और प्रकृति को बहुत ही व्यापक और गहन बना दिया। एक ही नाटक के दो प्रदर्शन, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। एक नाटक के दो विभिन्न निर्देशकों और प्रस्तुतकर्त्त्रों द्वारा किये गये प्रयोग एक-दूसरे से कितने भिन्न हो जाते हैं, उनकी कलागत

असत्य भासी भाव

नाटक को इस भूति लगे। नाटक प्रथमतः वाचिक क्षम्भज और सीधा करणा। यह इस अवस्तु का, उस्यान केमें आपना प्रतिनिधि प्रकृति है। विशेष के समक्ष मंच-नृत्य है। जहाँ का अतिवर्भवता है, कभी वो में भट्ट मगव पहुँच सड़क या जंगल में पोटा वक्स ही जह पुता हुआ रंग ही वस्तुतः यह की सम्प्रेषणीयता वे तत्त्वों में पूर्ण विश्व दर्शक की पूर्ण समरूपियाँ और परम समन्वय होती हैं।

न्यास्यामें, रंगबोध किनमे अलग-अलग होते हैं, इसके असंख्य उदाहरण आशुनिक रंगमंच-क्षेत्र में मिलते हैं।

फिर भी दो मूल प्रदर्शन-रीतियाँ हैं, जिनसे नाटक को रंगमंच का रूप दिया जाता है।—

० असत्याभासी भावधर्मी रीति

(नान इल्यूजिनस्टिक प्रेजेन्टेशनल स्टाइल)

१ सत्याभासी प्रतिनिधान रीति

(इल्यूजिनस्टिक रिप्रेजनेशन स्टाइल)

ख  
०००००

## उसकी रीति

था, जब नाटक  
द्व-विभोर होकर  
विना कुछ बोले,  
कथा कही होगी।

नय द्वारा प्रदर्शन  
की आवश्यकता  
न्या, इसकी रचना  
तुतः यही रंगमंच

और संस्लिष्ट हुआ,  
संगठित नाट्य-  
, उसे उस नाटक  
न आया। इसका  
पर गहन हो गया।  
अद्भुत विकास  
थे। दूसरे, नाटक  
शिकों के, विभिन्न  
रंगमंच, माहित्य,

क निरिचित रूप,  
र प्रकृति को बहुत  
रंशन, एक दूसरे से  
और प्रस्तुतकर्त्त्वों  
उनकी कलागत

## असत्य मासी भावधर्मी रीति

नाटक को इस रूप में अभिनीत करना कि वह पूर्णतः एक रंगमंचीय श्रनु-  
भूति वगे। नाटक की विषय-वस्तु को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाय कि वह  
प्रथमतः वाचिक की अपेक्षा अभिव्यंजित सिद्ध हो। यह रंग-प्रदर्शन स्वाभावतः  
सहज और सीधा होता है और इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अभिव्यंजना है—प्रकटी-  
करण। यह इस वर्ते में भावधर्मी है, कि यह नाटक की कथा का, उसकी विषय-  
वस्तु का, उस्थान करता है। यह नहीं कि वह कथा, वह विषय-वस्तु, जीवन में  
कैसे अभना प्रतिनिधान पायेगी। वस्तुतः यही रंग-पद्धति संस्कृत रंगमंच की  
प्रकृति है। विशेषवार इसकी लोकधर्मी नाट्य-परम्परा की प्रकृति, जहाँ दर्शक के  
के समक्ष मंच-दृश्य वदना जाता है। उसकी मंच-मामग्री उठा ली जाती  
है। जहाँ का अभिनेता मुद्रा और गति के भाव्यम से कभी रथ का सारथी  
वमता है, कभी घोड़े दौड़ाता है। मंच पर दो परिक्रमा करके जहाँ वह काशी  
मे भट्ट मगध पहुँच जाता है, और वहाँ से क्षण भर में पाटलिपुत्र या किसी  
मढ़क या जंगल में। जहाँ अभिनेता का हाथ ही तलवार है, लकड़ी का छोटा-  
मोटा ब्रक्स ही जहाँ राजसिहासन अथवा न्यायाधीश का आमन है। मुँह पर  
पुता हुआ रंग ही उसकी चित्रवृत्ति का दर्पण है।

वस्तुतः यह रंगमंच है रूपवाद और रीतिवद्धता का। जहाँ वास्तविकता  
की सम्प्रेषणीयता के लिये प्रतीक का इस्तेमाल होता है। जहाँ दर्शक को प्रदर्शन-  
तत्वों में पूर्ण विश्वास करके चलना पड़ता है। यह अथवा, अवाद विश्वास  
दर्शक की पूर्ण समवेदना पर चलता है, और इसका आवार है इस रंगमंच की  
रुद्धियाँ और परम्पराये जो स्वभावतः दर्शक के संस्कार और सौन्दर्यबोध से  
ममन्वित होती हैं।

योरोप का मध्ययुगीन रंगमंच और इलिजाबीथन रंगमंच द्वारी रंगमंच-रीति में आता है। श्रीक रंगमंच विशेषकर इसका दुन्वान्तकी प्रकार इस असत्याभासी भावधर्मी रीति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उनके वस्त्र, उनके मुख्योट, उनके लम्बे-ऊँचे लकड़ी के तले लगे लूने, उसी उपस्थापन तत्व के ही लिये सब थे; तभी उनका सारा अभिनय रीतिवद था। सारा मंच हृष्य-रीति में बैंधा था।

आधुनिक रंगमंच में ब्रैह्ट का रंगमंच, मूलतः वही असत्याभासी भवाधर्मी रंगमंच है। उसके 'एपिक थिएटर' की अवधारणा के पीछे रंगमंच की वही सबल रीति है। यह रीति आधुनिक रंगमंच में काफी लोकप्रिय है, तथा आधुनिक रंगमंच की यह आज मृत्यु प्रदूषित होती जा रही है।

### सत्याभासी प्रतिनिधान रीति

पहले रंगमंच प्रकार की रीति से विलकुल दूसरी सीमा पर। जहाँ का सत्य उपस्थापन नहीं, बल्कि प्रतिनिधान है। और वह भी ऐसा प्रतिनिधान, जहाँ सत्य का ग्राभास लगे। जहाँ दर्शक के विश्वास का भरोसा न करके उसके विज्ञान, तक का महारा लिया जाय। उसे जहाँ चुनीती दी जाय, कि मंच पर जो कुछ ही रहा है, वह जैसे जीवन में हो गहा है। जितना आशम जीवन में है, इनिक स्थितियों में, उसी के भीतर उसी गथार्थबोध में मंच निर्मित होता है, अभिनेता उसी तरह अभिनय करते हैं, मंच पर वही गथार्थमय व्यवहार होते हैं।

**वस्तुतः** यह रंगमंच, 'गथार्थवाद' और 'प्रकृतिवाद' का रंगमंच है जिसके प्रमुख नाटककार हुए हैं 'इम्सन,' 'शा,' 'चेम्ब्रव,' 'स्टिवर्ग,' 'आर्थर पिलर' आदि। और इस रंगमंच-रीति के प्रमुख निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता हैं 'स्टेन्स्लावेस्की' और 'इलिया कंजान'।

### रंगमंच की प्रक्रिया

नाटक, रंगभवन, मंच, रंग-धिल्प, साज-मञ्जा इन सारे तत्वों के मध्य में दो मूल तत्व वे हैं, जिनके बिना रंगमंच की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वे मूल तत्व हैं—अभिनेता और दर्शक।

मानव संस्कृति के इतिहास में एक चरण वह था, जब नाटक (गठ ग्रथव)

कृति) नहीं निखल गया तब भी था। पैट्टोमाइ ईमिल्प। पर यह रंगमंच, दूसरे उमे देवर्म यता। दूसरे शब्दों में माध्यम से एक नमून है।

यह कथन दो प्रकरण करना करके। जिसे कार्य डारा करता है, जिसे भाषा, गति, कार्य और सत्य के, जिसे वह सम का मूल्य सत्य कर चुका भै मन्मेषित बात है। किन्तु रंगमंच कार्य का और कार्य—दोनों का अद्दे उम्युग के लिए मंदर्भ में विलकुल अपना विचार, उसके ग्रादर्श था—रंगमंच की हाफिताओं को इसे बेलने के लिए प्रेक्षक वर्ग एक व्यूद्रक का, मृच्छकटिक

किसी कृतित्व डाकता का। किन्तु आगे यह क्षेत्र है प्रदद्यन्ती और समाज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उसका सबसे देता है। तथा उसी अभिनेता दर्शक के साथ-

**अताव रंगमंच प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और नेता होता है।**

प्रश्न यह है, इस का अपनी बात का व

री रंगमंच-नीति  
स असत्याभासी  
मुद्रौट, उनके  
तय सब थे; तभी  
धा था।

आसी भवानी  
मंच की वही  
तथा आधुनिक

जहो का सत्य  
तेनिधान, जहो  
न करके उसके  
य, कि मंच पर  
प्राप्त जीवन में  
निर्मित होता है,  
यवहार होते हैं।  
रंगमंच है जिसके  
परिलर प्रादि।  
'स्टेट्स्लावेस्की'

त्वों के मध्य में दो  
सकती। वे मूल  
टक (गठ प्रबन्धा

कृति) नहीं लिखा गया था, यहाँ तक कि जब शब्द भी नहीं था, पर रंगमंच तब भी था। पेन्टोमाइम-अभिनन्दन के रूप में। तब न रंगभवन था, न मंच, न रैमशिल्प। पर वह रंगमंच का मूल्य सत्य, अभिनेता और दर्शक—एक खेलने वाला, दूसरा उसे देखने वाला। बस्तुतः कला सम्पूर्ण का ही मूल है सम्प्रेषणी-यता। दूसरे शब्दों में कोई भी कला-कृति, व्यक्ति द्वारा किसी भी स्पष्ट और मात्र्यम से एक नमूद के प्रति कथन है, प्रतिनिवेदन।

यह कथन दो प्रकार से संभव है। पहला, कहकर, दूसरा करके—कुछ रचना करके। जिसे कोई कृति कहेंगे हम। रंगमंच में यह रचना मनुष्य के बल कार्य द्वारा करता है, जिसमें उसकी बोली है, गति है, व्यवहार है। और यह बोली-भाषा, गति, कार्य और व्यवहार सब साथन हैं, उसी एक साध्य के, उसी एक सत्य के, जिसे वह समाज को सम्प्रेषित करता चाहता है। इस तरह रंगमंच का मूल्य सत्य कर चुकने में नहीं, वल्कि उसके कार्य के ढंग में है, और उसमें से सम्प्रेषित वाल है। नाटक निश्चय ही एक किया हुआ कार्य हो सकता है किन्तु रंगमंच कार्य का करता है। यह एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। साक्षात् कम और कार्य—दोनों का सत्यविन्दु। उदाहरण के लिए शूद्रक का 'मृच्छकटिकम्' अपने उस युग के लिए जो कुछ था, वह आज हमारे इस युग के लिए हमार मंदर्भ में विलुप्त अपना है—विलुप्त अपना और नया। इसमें व्याप्त शूद्रक के विचार, उसके आदर्श, उसका कवित्व, यह सब उस नाटक का माहित्य पक्ष था—रंगमंच की हटिट से एक गोरा पक्ष। मूल्य पक्ष वह था, जिसने अभिनेता श्रोतों के इसे खेलने के लिए अनुप्रेरित किया, वह तत्व, जिसे देखने-पाने के लिए प्रेक्षक वर्ष एकत्र हुए और जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा—यही रंगमंच था। शूद्रक का, मृच्छकटिकम् का।

किसी कृतिक्व द्वारा समाज को सम्प्रेषित करता, यह क्षेत्र है मर्जनात्मक कला का। किन्तु आगे प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा दर्शक को बोध करना, दिवाना यह क्षेत्र है प्रदर्शनशील कला का। स्वभावतः मर्जनात्मक कला में कलाकार और समाज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, जब कि दूसरी कला में यही प्रत्यक्ष सम्बन्ध उसका भवमें बड़ा आकर्षण है। और यही प्रत्यक्ष अनुभूति को जन्म देता है। तथा उसी अनुभूति से वही सम्प्रेषित हो जाता है, जिसके उद्देश्य में अभिनेता दर्शक के सामने हाजिर हुआ था।

अतएव रंगमंच एक वहुत बड़ी कला है। वही कला हमी निए कि इसकी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और सम्पूर्ण होनी है। और मूलतः इसका मात्र्यम वही अभिनेता होना है।

प्रदन यह है, इस अभिनेता का वह मूल साधन क्या है, जिसमें वह दर्शक को अपनी वाल का बोध कराना है। अभिनेता का व्यक्तिगत साधन है, उसकी

आवाज, मुद्रा, उसका मुखौटा, उसका वस्त्र और उसका उपकरण—वाचावन्त्र आदि। ये साधन अभिनेता के मूल और मुख्य साधन हैं। उसके अन्य साधन हैं—वह स्थान, वह मंच, जहाँ वह अभिनय करता है, वह पृष्ठसूमि, दश्य-सज्जा जिनसे वह अपने संदर्भ के निर्माण में सहायता प्राप्त करता है।

अभिनेता का यही निज का साधन ही वह मूल शक्ति है, जहाँ से रंगमंच अपना जन्म पाता है। यह एक भिन्न बात है कि किसी जनसमूह में सहस्रा एवं व्यक्ति खड़ा होकर जब उस पूरे समूह को सम्बोधित करता है, तब स्वभावतः उसे अपनी बोली, स्वर, आवाज बदलनी पड़ती है। क्योंकि दिना किसी विचित्रता के उसकी ओर लोगों का ध्यान कैसे जायगा? इस विचित्रता के लिये ही वस्त्र और मुखौटा ही सबसे अधिक सरल और प्रभावशाली साधन रहा है। अभिनेता में यह तत्त्व आते ही रंगमंच के स्वरूप का निर्माण शुरू हो जाता है। अर्थात् अभिनेता प्रभाव और सम्प्रेरणीयता के लिये रंगमंच-शिल्प का स्वयं एक साधन बनता है। यही कारण है कि संसार भर के रंगमंच-इतिहास का पहला चरण मुखौटा-काल रहा है। मुखौटा पहनकर ही व्यक्ति पहली बार मनुष्य से अभिनेता बना, और उसके इसी मुखौटे में ही आदिम रंगमंच का स्वरूप प्रकट हुआ।

इस मुखौटे ने वह विशेष कार्य किया? मुखौटे ने उस परिचित मनुष्य के स्थान पर एक अपरिचित, देवता, अर्धमानुष, राक्षस और जानवर को उस समूह के सामने ला खड़ा किया। इसने उस अभिनेता के व्यक्तित्व में अपार प्रथमांश पैदा कर दिया।

अभिनेता के इसी साधन आधार पर वस्तुतः रंगमंच की धुरी धूमती है। जहाँ साधन आधार में परिवर्तन हुआ, वहाँ से निश्चय ही रंगमंच का नया युग शुरू हुआ। अभिनेता जो खेल खेलता है, इस खेल के रंग-ढंग में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होता गया, एक उसी के अनुरूप रंगमंच का सारा स्वरूप बदलता गया। साधारण खेल से संगठित खेल तक और वहाँ से पूर्ण नियोजित और पूर्ण सुसंस्कृत प्रयोग तक—एक अवाव रंगमंच-इतिहास संसार के सामने प्रकट होता रहा।

रंगमंच के इस क्रमिक विकास से, यह कहना कठिन है कि उस 'खेल' में उत्तरोत्तर अधिकाधिक और प्रभाव आता गया या नहीं। हाँ, खेल यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि वह 'खेल' क्रमशः अपने युग की माँगों और दर्शक के मौन्दर्यवोध के अनुरूप स्वभावतः ढलता चला गया।

कृष्ण की भूमिका

रण—वाद्यत्र  
के अन्य सावल  
मि, दश्य-सज्जा

जहाँ से रंगभंच  
समूह में सहजा  
करता है, तब  
ज्योंकि दिना  
इस विचित्रता  
वजाली साधन  
नेमाणि शुरू हो  
रंगभंच-शिल्प का  
रंगभंच-इतिहास  
किं पहली बार  
देम रंगभंच का

उस परिचित  
और जानवर को  
कित्ति में अपार

बुरी धूमती है।  
चक्र का नया युग  
में ज्यों-ज्यों  
स्वरूप बदलता  
नियोजित और  
के सामने प्रकट

उस 'खेल' में  
हैं, केवल यह  
की माँगों और




सुश्रीदाद्वारी मन्त्राय



लोकधर्मी नाट्य-परम्परा

लोकथर्मी नाट्य-प्रस्तुति



लोकथर्मी रंग-प्रस्तुति



तत्य, पूजन और धार्मिक समारोह का नाट्य

रंगमंच के सात चरण

रिचर्ड साउथर्न ने अभिन्न सुरु से आज तक मंसार चरणों में अध्ययन करके

पहला चरण है—  
चरण में रंगमंच के अन्य

दूसरे चरण में यही महोत्सव के रूप में आते हुए। यात्रा रूप में, धार्मिक चरण में कुछ लिखित ना

तीसरे चरण में रंगमंच हुआ। धर्म के स्थान पर की संख्या में कमी। विचित्र स्थान पर व्यावसायिकता प्रवेश। तकनीकी नियमों संख्या में कमी।

चौथे चरण में विशेष बाल नाटकों का उदय। आन्तरिक संघर्ष और दृढ़

पौंचदें चरण में रंग होना। विशेष रंगभवनों का उदय। नाटक के गूढ़, अर्पणोद पर आग्रह।

छठे चरण में सत्याभास आधार बनाना।

और रंगमंच का सात तटस्थिता का, अनियमन का

### रंगमंच के सात चरण

रिचर्ड साउथरन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द सेविन एंजेज आफ द थियेटर' में शुरू से आज तक संसार भर के रंगमंच-विकास को व्यान में रखते हुए इसे सात चरणों में अध्ययन करके देखा है।

पहला चरण है—वस्त्र-विभूषित मुखौटाधारी अभिनेताओं का। इस चरण में रंगमंच के अन्य तत्त्व उसके सहायक न हो सके थे।

इसरे चरण में यही मुखौटाधारी अभिनेता अधिक संख्या और वर्ग में महोत्सव के रूप में आते हैं। मुक्त आकाशी मंच, चारों ओर दर्शकों से घिरे हुए। यात्रा रूप में, धार्मिकता के तत्वों के साथ, पूजा के अवसरों पर। इसी चरण में कुछ लिखित नाट्य अंश का भी समावेश संभव हुआ।

तीसरे चरण में रंगमंच अपने अधिक तत्वों तथा साधनों के साथ उजागर हुआ। धर्म के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मंच, धर्मनिरपेक्ष नाटक। अभिनेताओं की संख्या में कमी। विचित्रता के स्थान पर सहजता। उमंग और उल्लास के स्थान पर व्यावसायिकता। मुक्त आकाश के नीचे से मंच का भवन के भीतर प्रवेश। तकनीकी नियमों में बेल का बैधना। विशेष दर्शकवर्ग और उसकी संख्या में कमी।

चौथे चरण में विशेष मंच का निर्माण। मंच पर अनेक अंकों और दृश्यो-वाले नाटकों का उदय। कथा-तत्त्व और चरित्र-चित्रण पर आग्रह। पात्रों के आन्तरिक संघर्ष और दृन्दृ भाव पर विशेष वल।

पाँचवें चरण में रंगमंच का पूर्णरूप से चित्रबंध स्थिति में प्रतिष्ठित होना। विशेष रंगभवनों का निर्माण। रंगशिल्प में दृश्य-सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था का उदय। नाटक के गूढ़, मर्मस्थलों की समुचित सम्प्रेषणीयता और उसके ग्रंथवोध पर आग्रह।

छठे चरण में सत्याभास पर आग्रह। जीवन के यथार्थ बोध को रंगमंच का आधार बनाना।

और रंगमंच का सातवाँ चरण है, असत्याभास (एंटी एल्यूजन) का। तटस्थिता का, अनियमन का।

पहला भाग

संस्कृत-रंगमंच

कृतित्व पक्ष : रूपक (नाटक)

कला अथवा नाहित्य के मूल रूप और उसके वास्तविक मिलानों को समझना, कला और साहित्य को समझना है।

पर नाटक ?

जो न पूर्णतः साहित्य की परिवर्ति में आता है, न पूर्णतः कला की !

शब्द और वाच्य साहित्य के मूलाधार हैं : पर 'पैन्ट्रोमाइम' भावाभिन्न जो नाटक का प्रारम्भिक और शक्तिशाली रूप है, उसमें शब्द और वाच्य तो होते ही नहीं—न कथन का उच्चारण ही होता है।

संसार के प्रायः समस्त महान् और श्रेष्ठतम् नाटक खेलने के लिये लिये गये थे। उनकी रचना, मंच-ग्रनुष्ठान के व्यंग से हुई थी। इस रूप में वे पहले भी जायेंगे, संभवतः इतना भी उन्हें अनुमान न था।

ग्रीक रंगमंच के 'सोफोक्लीज' के उत्कृष्ट नाटक 'ओडिपस रेक्स' की रचना प्राचीन यूनान के देवता 'डायोनिसस' के पूजन-समारोह के लिये हुई थी, जो वसंत के दिनों में एथेन्य तथा ऐटिका के नर-नारियों को नया जीवन प्रदान करते थे। 'शेक्सपियर' का 'हेमलेट' उस समय 'ओपोलो' के प्रति धार्मिक अभिनवशन हेतु रंग-ग्रनुष्ठान के लिये लिखा गया था। संभवतः कालिदास का 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्', 'मालती मावत', 'मालविकाग्नि मित्र' और शूद्रक के 'मृच्छकटिकम्' की रचना क्रमशः तत्कालीन वसंतोत्सव, विजय-पर्व, पुत्रोत्सव अथवा कौमुदी महोत्सव और मदनोत्सव के लिये हुई थी। संस्कृत रंगमंच के इन नाटकों के विषय में यद्यपि बाहर से ऐसा कोई प्रमाण अव तक नहीं मिला है, किन्तु इन नाटकों में परिव्याप्त रंगमंच, इनकी रचना-शैली और इनकी आन्तरिक भाव-धारा जो विशुद्ध आनन्द-उल्लास, मंयोग-मिलन और माँगलिक सूत्रों को अपने में समाहित किये हुये हैं—उनमें ग्राम-ग्राम ऐसा प्रकट होता है।

### संस्कृत नाटक (रूपकल्प)

हिन्दू अथवा संस्कृत रंगमंच में 'नाटक' का मूल 'रूपक' है। वनंजय ने इस रूपक को 'नाट्य' का पर्याय माना है। इस 'नाट्य' को स्पष्ट करने हुए,

दशहस्रकार ने 'रूप' और 'रूपक' को बड़े ही शास्त्रीय रूप से उमके बाह्य और आंतरिक लक्षणों को बनाते हुए प्रकट किया है।<sup>१</sup>

### अवस्थानुकृतिनिर्दियम्

"अवस्था के अनुकरण को ही 'नाट्य' कहते हैं। जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्गित वीरोद्धत, वीरोद्धन, वीरलवित, वीरप्रशास्ति प्रकृति के नायकों ( तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों ) का आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्रिक उन चार ढंग के अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह 'नाट्य' है। अवस्थानुकरण से तात्पर्य है कि चाल-डाल, वेश-भूषा, आत्माप्रत्याप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग में किया जाय कि नट में नाटक के पात्रों की 'तादात्मयापत्ति' हो जाय। जैसे नट दुष्यन की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक उसे दुष्यन ही समझें। नाट्य-अनुष्ठान के समय दुष्यन और नट का भेद न रहे, उनमें परस्पर 'अभेदप्रतिपत्ति' हो जाय।"

### 'रूपं दृश्यतयोच्यते'

'तदेव नाट्यं दृश्यमाननया रूपमित्यच्युते नीलादिरूपवत् !'  
यही नाट्य 'रूप' भी कहलाता है। नाट्य केवल शब्द न होकर मंच पर अभिनीत भी होता है, अतः यह हृश्य है। जैसे हम नील-रीले आदि रंग को देखते हैं तथा हमारे चक्षुरिन्द्रिय के विषय को रूप कहते हैं, उसी तरह चक्षुग्राह्य होने के कारण नाट्य 'रूप' भी कहलाता है।

### 'रूपकं नर्तमारोपान्'

नर्त रामाद्यवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्वृपकं मुखचन्द्रादिवत्

१. अनंत विचित्र 'दशहस्रम्' प्रधानः ८, व्याख्याकार दा० मोलाशंकर व्यास।  
चीकन्दा विज्ञ भवन, आशी।

"बही नाट्य है। जैसे हृषक दिया जाता है— पात्रों की अवस्था जिस तरह इस्त्र, में 'नाट्य,' 'रूप' पात्र और रस के नाटक, प्रकार इहामृग ।

नाटक हृषक और मिलान्न व्य नाटक, हृषक का अन्य प्रकारों के ल अतिरिक्त हृषक के जाती है।

रूपकों में न गयी है ? 'दशहस्रम्'

पहले तो ना नेता, रस के परिनाटक में रस का शृंगार या वीर व हृष के रूप में सन्निविट शास्त्रीय लक्षण ।

दशहस्रकार से किया है— प्रा और अंक ।

नाटक का प्र हृष में किया गय से चला जाता है, प्रवेश कर काव्य वह दिव्य हृष में मर्य द्वय में आये

इत्येकस्मिन्नर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य 'इन्द्रः पुरम्दरः शकः  
इतिवद्प्रवृत्तिनिमित्तभेदो दर्शितः ।

"वही नाट्य रूप 'रूपक' भी कहलता है, क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे रूपक अवकार में हम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है—मुखचन्द्रः (मुखही चन्द्रमा), वैसे ही नाट्य में नट पर गामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता है, अतः इस रूपक भी कहते हैं। जिस तरह इन्द्र, पुरम्दर, शक तीनों नामों से पुकारते हैं वैसे ही एक ही अर्थ में 'नाट्य,' 'रूप' तथा 'रूपक' तीनों शब्दों का प्रयोग होता है।" कथावस्तु, पात्र और रस के आधार पर रूपक के दस भेद हैं :

नाटक, प्रकरण, भासा, प्रहसन, डिम, वीणि, ममवकार, व्यायोग, शंक और दृष्टाभूषण ।

नाटक रूपकों में से सर्वप्रथम और अनन्य है : रूपक के प्रायः ममस्त लक्षण और मिद्धान्त व्यवहारतः नाटक पर ही चरितार्थ किये गये हैं। इससे भी आगे नाटक, रूपक का प्रतिनिविस्वरूप है, क्योंकि प्रकरण, प्रहसन आदि रूपक के अन्य प्रकारों के लक्षण नाटक के ही आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त रूपक के प्रागभूत तत्व 'रस' की पूर्ण प्रतिष्ठा नाटक में ही पायी जाती है।

रूपकों में नाटक की क्यों इतनी विराटता और सर्वप्रमुखता रूपीकार की गयी है ? 'दशरथपक' में इसके तीन कारण वराये गये हैं।

पहले तो नाटक ही अच्युतरूपकमेदों की प्रवृत्ति का मूल है, उसो में वस्तु, नेता, रस के परिवर्तन करने से अन्य रूपकों की मृदिट हो जाती है। दूसरे, नाटक में रस का परिवाक पूर्णरूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है। उसमें शृंगार या बीर कोई भी रस अंगी रस ही सकता है, तथा अन्य सभी रस अंगरूप में सन्निविष्ट किये जा सकते हैं। तीसरे, वस्तु व नेता (पात्र) के ममस्त शास्त्रीय लक्षण और रस की सभी मर्यादा इसी नाटक में पायी जाती है।

दशरथपकाकार अनंजय ने नाटक की विशेषताओं का विश्लेषण छः हृष्टियों से किया है—प्रारम्भिक विवान और वृत्ति, कथावस्तु, नायक, रस, वर्ज्य दृश्य और शंक ।

नाटक का प्रारम्भिक रंग-विवान 'दशरथपक' में बड़े विशद् और रंगनिष्ठ रूप में किया गया है। "जब सूत्रधार पूर्वरंग का विवान करते के बाद रंगमंच से चला जाता है, तो उसी की तरह (की वेशभूपा वाला) दूसरा नट मंच पर प्रवेश कर काथ्र की प्रस्थापना करे। यदि वस्तु देवना संबंधी (दिव्य) हो तो वह दिव्य रूप में मंच पर प्रवेश करे। यदि वह मानव संबंधी हो तो वह नट मर्यादा रूप में आये।

मंच पर आकर काव्यार्थ की स्थापना करते समय वह नाटक की कथावस्तु, उसकी 'बीज' नामक अर्थ-प्रकृति, मुख (इलेष के द्वारा) या समुख पात्र की सूचना दे।

... स्थापक नट सर्वप्रथम काव्य के अर्थों की सूचना देने वाले श्लोकों के द्वारा रंगमंथ सामाजिकों को प्रसन्नकर, किसी ऋतु को वर्णित करते समय भारती वृत्ति का प्रयोग करे। नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाला वाग्व्यापार भारती वृत्ति कहलाता है। इसके प्रयोगना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख ये चार भेद पाये जाते हैं।

संस्कृत-रंगमंच : क्र.

नाटककार ऐसे को नहीं बिगड़ सब नाटक की सम-

० पाँच

१ पाँच

२ पाँच

### ✓ अर्थप्रकृतियाँ

अर्थप्रकृतियाँ  
विभिन्न स्थितियों से  
कुल पाँच होती हैं।  
बीज, वृक्ष के  
द्वारा इतिवृत्त में सह  
है।

विन्दु वह स्थि-  
फैलता है और इस  
लगता है।

पताका के अन्त  
कारिक कथावस्तु के  
उसे पताका कहते हैं।

प्रकरी में दूसरी  
कथावस्तु के साथ कु  
कार्य जिस उद्दे-  
या, उसकी प्राप्ति क

### ✓ वस्थायें

वस्थायें नाटक  
एक सीधी गति अथवा

### नाटक के नत्य

नाटक के केवल तीन आभारभूत नत्य हैं :

- कथावस्तु (इतिवृत्त)
- नेता (पात्र-नायक आदि)
- रस

दशरूपकार ने नाटक की रचना-विधि तथा उसके अनुष्ठान के प्रारम्भिक विधान को बताने हुए कहा है कि "मूत्रघार इस प्रकार प्ररोचना, वीथी, प्रह-  
मन और आमुख आदि किसीके द्वारा काव्यार्थ अथवा नाटकीय पात्र की सूचना दे। उसका आक्षेप तथा परिचय दे दें पर प्रस्तावना के अंत में वह मंच से निष्कांत हो जाय तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपञ्चित करे।"

अतः नाटक के ही नायक तथा तत्सम्बन्धी वस्तु का ही मंकेत करते हुए दशरूपकार कहता है, : "नाटक का नायक या तो प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न राजपि भूपति होता है, जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त, धीरोदात प्रकृति का तथा प्रतापशील होता है; वह यश तथा कीर्ति की कामना किया करता है, उत्साह से युक्त होता है तथा तीनों वेदों का रक्षक होता है अथवा नाटक का नायक कोई दिव्य देवता हो सकता है, जो इन सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उस नायक के विषय से इतिहास-नुगाणादि में प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिये। जिस इतिहास-प्रसिद्ध (प्रख्यात) वृत्त में इस तरह का, इन गुणों व विशेषताओं से सम्बन्ध, नायक हो, वही वृत्त नाटक के उपयुक्त होता है।"

१. हिन्दी दरारूपक, ४४ १५८, चौकस्वा विद्या भवन, काशी।

की भूमिका  
टक की कथा-  
वा समुख पात्र

इलोकों के  
त करते समय  
बाला बाध्या-  
था आमुख ये

के प्रारम्भिक  
वीथी, प्रद-  
व की सूचना  
वह मंच से

त करते हुए,  
ल में उत्पन्न  
ति का तथा  
है, उसाह  
क का नायक  
त होता है।  
ही नाटक की  
वृत्त में इस  
वृत्त नाटक के

नाटककार ऐसे इतिवृत्त में अपनी कल्पनानुसार उसकी मूलगत विशेषताओं  
को नहीं बिगाड़ सकता।

नाटक की समस्त कथावस्तु की कुछ मूल स्थितियाँ होती हैं। उमे :

- पाँच अर्थप्रकृतियाँ
- पाँच अवस्थाओं
- पाँच मंथियाँ में विभक्त किया जाता है।

### ✓ अर्थप्रकृतियाँ

अर्थप्रकृतियाँ कथानक अथवा इतिवृत्त के निमणि-तत्व हैं। इन्हों की  
विभिन्न स्थितियों से नाटक का कथात्मक मुग्धित रूप में निर्मित रहता है। ये  
कुल पाँच होती हैं : बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य।

बीज, वृक्ष के बीज की तरह वह तत्व है, जो घटना और कार्य-व्यापार  
द्वारा इतिवृत्त में सहसा अंकुरित होकर नायक के कर्म और फल की ओर बढ़ता  
है।

विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी में गिरे हुए तेल की बूंद की तरह  
फैलता है और इस दशा में इतिवृत्त का अंकुरित बीज फैलकर व्यक्त होने  
नगता है।

पताका के अन्तर्गत पताका नामक प्रासंगिक इतिवृत्त आता है। पताका अधिकारिक  
कथावस्तु के साथ नाटक में बराबर चलती रहती है, सानुबंध होती है,  
उमे पताका कहते हैं।

प्रकरी में दूसरी प्रासंगिक वस्तु होती है। यह मूल कथा अथवा आधिकारिक  
कथावस्तु के साथ कुछ ही दूर तक चलकर सहसा रुक जाती है।

कार्य जिस उद्देश्य, फल-प्राप्ति के लिये नायक के कर्म का प्रारम्भ हुआ  
था, उसकी प्राप्ति को कहते हैं।

### ✓ अवस्थायें

अवस्थायें नाटकीय इतिवृत्त की गति को व्यक्त करती हैं। मानव जीवन कभी  
एक सीधी गति अथवा दिशा में चलकर अपने अंत तक नहीं पहुँचता, वरन् विभिन्न

मंत्रणाँ तथा जीवन के आशोह और अवशोह के फलस्वरूप टेही-मेही गति से श्रध्णे उद्देश्य तक पहुँचता है। जीवन में अनेक मंधर्ष हैं, दुःख हैं पर भारतीय जीवन अथवा मन इस सत्य में पूर्ण विश्वास करके चलता है कि उसे जीवन के दुखों, विरोधाभासों और, विघ्नों, संघर्षों पर अनन्तत्वोगत्वा अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इस तरह भारतीय जीवन 'फलागम' में पूर्ण विश्वास करता है। इस जीवन के बारे फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्वर्ग की यही फलप्राप्ति 'अवस्थाओं' के अन्तर्गत अंतिम स्थिति में 'कलागम' की संज्ञा प्राप्त करती है। इस स्तर पर हम भारतीयों की आशाएँ पाश्वात्यों की तरह निराशावादी नहीं रही। इसी जीवनगत हृष्कोण के ही कारण यहाँ के 'नाटक' के नायक और उसकी जरूर-सीमा(वदि कहें) में जीवन कल की प्राप्ति आवश्यक है। यही कारण है कि पश्चिम के 'डामा', के विवारीत यहाँ के नाटक की पूरी प्रकृति और उसका एकान्त स्वर सदा मांगलिक और सुवान्न रहा है। किन्तु स्मरण रहे, नाटक के इस प्रकार 'मुखात्का' होने से इसे पश्चिम की 'कामेडीज़' के अर्थ में नहीं किया जा सकता। भारत के 'नाटक' और पश्चिम की 'कामेडीज़' इन दोनों में भी जमीन-आसमान का फर्क है। 'कामेडीज़' कोटि में संभवतः हमारे यहाँ के 'प्रह्लन' और भाग आयेंगे।

'अवस्थाये' पांच होती हैं : आशम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताभिन और कलागम। ये विभिन्न अवस्थाये मूलतः कार्य की अवस्थाये हैं।

आशम्भ अवस्था के अन्तर्गत नायक में किसी वस्तु अथवा सत्य की प्राप्ति की इच्छा होती है, और वह नाटकीय अवस्था से महसा नाटक में प्रकाशित हो जाता है।

प्रयत्न, कार्य की इस अवस्था में नायक उस वस्तु अथवा सत्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होता है।

प्राप्त्याशा में विज्ञादि विद्यों को विचारने के बाद नायक को तद्विग्रहक लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हो जाती है।

नियताभिन में उसे लक्ष्य-प्राप्ति का पूरा विश्वास हो जाता है।  
फलागम में उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है।

### संविधाँ

अर्थ प्रकृति तथा अवस्था के प्रतिरिक्षन नाटक की कथावस्तु में पांच संविधाँ

संस्कृत-रंगमंच : कृतित

भी होती हैं। इन्हें सभी अवस्थाओं के योग से अवश्य और निर्वहण। ये सभी स्वभावतः इनसे कमशः का अभिप्राय नाटक बीज और आशम्भ को विप्रतिमुख संविधि। गर्भसंविधि और नियताप्ति होती है।

नाटक में कथावस्तु या नाटक की आत्मा 'र' पर प्रस्तुत हो तो उसके और यहाँ तक कि अप्रत्यय निष्पत्तिमय मन को कहने पात्र सभी इतिहास-मुरारे रिक्त नाटक की रचना सूच्यभाग द्वारा (रस निष्ठा) इस सूच्यभाग को 'प्रथोप' है। ये पांच प्रकार के होते-

विष्कम्भक

प्रवेशक

चूलिका

अंकास्थ

अंकावतार।

नाटक में विष्कम्भक तथा प्राप्त्याशा देखा जाता है।

### पात्र अथवा नेता

नाटक का दूसरा तस्वीर शब्द नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्त का सारा परिकर आ जाता विनय, शक्ति तथा अन्य गुण

डी-मेडी गति में अपने पर भारतीय जीवन के उसे जीवन के दुखों, दृष्टि विजय प्राप्त होती है। इस जीवन के कलप्राप्ति 'ग्रवस्थाओं' होती है। इस स्तर पर बादी नहीं रही। इसी के और उसकी चरम-पट्टी कारण है कि तीव्र उसका गवान्त है, नाटक के इस प्रकार ही लिया जा सकता। में भी जमीन-आसमान के 'प्रह्लन' और भाग विधा, नियनालिन और ये हैं।

प्रथवा सत्य की प्राप्ति नाटक में प्रकाशित हो

वधवा सत्य की प्राप्ति के

नायक का तद्विषयक

जाता है।

पना अभीष्ट फल प्राप्त

वावस्तु में पाँच संधियाँ

भी होती हैं। इन्हें संधियाँ इसलिये कहते हैं कि ये पाँच अर्थप्रकृतियों तथा पाँच ग्रवस्थाओं के योग से बनती हैं। संधियों के नाम हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण। ये संधियाँ वस्तुतः कथावस्तु के स्थूल खंड कहे जा सकते हैं, स्वभावतः इनसे क्रमशः नाटक के भी स्थूल खंड हो जाते हैं। नाटक में संधियों का अभिप्राय नाटक की समस्त अर्थ-राशि को परस्पर सम्बद्ध बनाना है। बीज और आरम्भ को मिलाकर मुखसंधि होती है। विन्दु और प्रयत्न को मिलाकर प्रतिमुख संधि। गर्भसंधि में पताका और प्राप्त्याशा होती है। विमर्श में प्रकरी और नियताप्ति होती है। और निर्वहण में कार्य और फलागम संधि होती है।

नाटक में कथावस्तु के इन्हें शास्त्रीय और सूक्ष्म संगठन का एकमात्र उद्देश्य था नाटक की आत्मा 'रस' की निष्पत्ति और उसका बोध। नाटक जब रंगमंच पर प्रस्तुत हो तो उसके रसास्वादन में कहीं कथानक की जटिलता, अस्पष्टता और यहाँ तक कि अप्रत्याशित और जिज्ञासा-पूर्ण कथा की स्थिति दर्शक के रस-निष्पत्तिमय मन को कहीं धक्का न दे, इसी लिए नाटक की कथावस्तु, नायक, पात्र सभी इतिहास-भुराणादि के प्रख्यात कथा-खंडों से लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाटक की रचना में, उसकी सहजतम प्रकृति में दृश्य कथा-सूत्र के साथ सूच्यभाग द्वारा (रस निष्पत्ति और उसके सिद्धान्त के अनुरूप) व्यवहृत होते हैं। इस सूच्यभाग को 'अर्थोपक्षेपक' कहते हैं, क्योंकि ये सूच्य अर्थ को आक्षित करते हैं। ये पाँच प्रकार के होते हैं:

विष्कम्भक

प्रवेशक

चूलिका

अंकास्य

अंकावतार

नाटक में विष्कम्भक तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है और इन्हीं का प्रयोग उसमें प्रायः देखा जाता है।

### पात्र अर्थवा नेता

नाटक का दूसरा तत्त्व अर्थवा भेदक अंग 'नेता' है। पात्र के लिये 'नेता' शब्द नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के अधिक समीप है। नेता शब्द के साथ 'नायक' का सारा परिकर आ जाता है। नाटक का नायक वही बन सकता है, जिसमें विनय, शक्ति तथा अन्य गुण विद्यमान हों। नायक को नाट्य-शास्त्र में चार

प्रकार का माना गया है। यह प्रकार-भेद नायक की प्रकृति के आधार पर किया गया है। वैर्य गृण सब प्रकार के नायकों का मूलाधार तत्त्व है। 'धीरेत्व' के अतिरिक्त इनमें अपनी-अपनी प्रकृतिगत विशेषताएं पायी जाती हैं। ये नायक चार प्रकार के हैं :

धीर ललित  
धीर प्रशान्त  
धीरोदात  
धीरोद्धत् ।

नाटक का नायक मूलतः धीरोदात होगा, जो अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, अविकल्पन, स्थिर, निगृह ग्रहकारवाला तथा हङ्क्रत होता है।

नाटक में नायक की ही भाँति नायिका का भी उतना ही महत्त्व है।

नाटक में नायिका की स्थिति सर्वोच्च है : स्वकीया, मुख्या और स्वाधीन-पतिका कमज़ोः सम्बन्ध, अवस्था और दशा के स्तर से ये तीनों स्वरूप नाटक की नायिका के निये अपेक्षित हैं।

नायक-नायिका तथा नाटक के अन्य पात्र, जैसे उपनायक, विदूषक, पीठमद और प्रतिनायक आदि के विषय में जो इतना शास्त्रीय और सैद्धान्तिक आप्रह है, उसके पीछे उसी रस लक्ष्य की ही बात सर्वथा सिद्ध है।

### रस

'रस' नाटक की आत्मा और उसकी मंच-रचना का चरम उद्देश्य है। रस क्या है, उसकी 'रसनिष्पत्ति' पर कितने विविध मत और विभिन्न रस-सिद्धान्त संस्कृत रंगमंच में हैं—इससे संस्कृत का सारा काव्य-शास्त्र भरा पड़ा है।

भारतीय नाटक के सम्बन्ध में यहाँ केवल इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा कि नाटक के दर्शन तथा उसके काव्य-शब्दण से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 'रस' कहलाता है। उसकी निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से होती है। भरत मुनि ने 'रस' की अवरण के साधनों के विषय में नाट्य-शास्त्र में यही मत व्यक्त किया है—'विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगाद्रस-निष्पत्तिः'। नाटक में मुख्यतया वीर या शृंगार की अंगीरूप में तथा अन्य रसों की अंग के रूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिये। संस्कृत-नाट्य का चरम उद्देश्य 'रस' है। इसी को लक्ष्य में रखकर संस्कृत रंगमंच की सारी रूपरेखा और रंग-शिल्प निर्मित हुआ है। 'रस' की महत्ता और अर्थ-

संस्कृत-रंगमंच : कृतित्व

गौरव इतना है कि इसमें हर रस का स्थायी भाव और रस आधार से ही इन सबका निश्चय होता

रस

शृंगार

हास्य

रौद्र

वीर

करुण

भयानक

वीभत्स

अद्भुत

इनमें सम्बन्धित 'बृंदा' विवि सीधे सम्बन्धित हैं और भारती।

कौशिकी, सत्यवती रौद्र रन में आती हैं। स्थिति-निर्माण ये भी हैं नाटक और रंग में कठोर।

उदाहरण के लिए शृंगार की अहमत उसके भेद के प्रमाण ने किसी की वंच 'सत्यवती' है—गंभीर अवधारणा में आता है।

नाटक में रंग-वर्जित :

नाटक का प्राण रस को परिचालित करती है। बातों का प्रदर्शन वर्जित वर्ग की ओर से इन सत्त्व-

गौरव इतना है कि इसमें धर्म, विश्वास और पुराण तक को मिलाया गया है। हर रस का स्थायी भाव, उसके संचारी, उसके देवता, उसके रंग निश्चित हैं। और रस आधार से ही संस्कृत नाटक, उसकी वृत्ति तथा उसकी प्रदर्शन-पद्धति, इन सबका निश्चय होता है।

रस	स्थायीभाव	रंग (वर्ण)	देवता
शृंगार	रति	श्याम	विष्णु
हास्य	हास्य	उज्ज्वल	राम
रोद्र	क्रोध	लाल	सदा
वीर	उत्साह	लाल	इन्द्र (शक्र)
करुण	शोक	भूरा	ब्रह्मण
भयानक	भय	काला	यम
वीभत्त	जुगुप्सा	नीला	महाकाल
शृद्भुत	विस्मय	पीला	ब्रह्मा

इनमें सम्बन्धित 'वृत्ति' वह मुख्य तत्त्व है जिससे नाट्य-लेखन और प्रदर्शन-विधि सीधे सम्बन्धित हैं। ये वृत्तियाँ चार हैं—कौशिकी, सत्यवती, आरभटी और भारती।

कौशिकी, सत्यवती और आरभटी—ये तीनों वृत्तियाँ शृंगार, वीर और रोद्र रस में आती हैं। इन तीनों का सम्बन्ध नाटक और रंग में घटना और स्थिति-निर्माण से भी है। भारती वृत्ति शेष सब रसों में है, तथा इसका संबन्ध नाटक और रंग में कथोपकथन तथा भाषा-प्रयोग से है।

उदाहरण के लिए प्रेमिका द्वारा प्रेमी के बनाए हुए चित्र का प्रकट होना और महसा उसके भेद का छुलना, यह घटना और स्थिति 'कौशिकी' है। जानी प्रमाण में किसी को धोखा देना, किसीके प्रति विश्वासघात करना, यह 'सत्यवती' है—गंभीर और गहन स्थिति, भयानक युद्ध, दुर्बटना यह सब 'आरभटी' में आता है।

### नाटक में रंग-वर्जित सत्य

नाटक का ग्राण रस है और यही रस-निष्पत्ति उसके समस्त रंग-सिद्धान्तों को परिचालित करती है। इसके अनुसार नाटक के व्यावहारिक रूपीढ़ पर कुछ बातों का प्रदर्शन वर्जित माना जाता है। इनके पीछे भी यह भाव है कि दर्शक-वर्ग की ओर से इन सत्यों के कारण उसकी रसचरणा-शक्ति में स्वभावतः

किसी प्रकार की वाधा न पहुँचे। इसके लिए मूलतः निम्नलिखित सत्य मंच-अनुष्ठान में वर्जित हैं।

(अ) वर्जित दृश्यः दूर का मार्ग, वध, युद्ध, राज्य और देशविप्लव, वेरा डालना, भोजन, स्नान, सुरत, अनुलेपन, और वस्त्र प्रहरण आदि।

(ब) वर्जित कार्यः अधिकारी नायक का वध तो मंच पर किसी भी प्रकार नहीं दिखाना चाहिये।

संस्कृत-रंगमंच : क्रतिर

नृपतीनां

सुखदुःखोत्प

अथर्त् जिसका इदिव्याश्रय प्राप्त हो, जो उपयुक्त संस्था वाले अंक उनके क्रिया-कलाप, उन वह नाटक कहलाता है।

### नाटक का स्वरूप और प्रकृति

नाटक अपने शारीरिक विस्तार में पाँच अंक से दस अंक तक का हो सकता है। पाँच अंकों का नाटक प्रायः छोटा नाटक माना जाता है। कारण, नाटक के मूलरूप में जैसे कहीं महाकाव्यत्व का भाव बैठा हुआ है। नायक द्वारा चारों फलों की प्राप्ति, उसके चरित्र और कर्म-रेखाओं में इतना धैर्य, इतना आदर्श भाव, इतनी उदात्त चेतना और शौर्य—निश्चय ही इस सबके पीछे यह लक्ष्य था कि नाटक ऐसा हृश्यात्मक महाकाव्य है जिससे जाति और राष्ट्र को मर्यादा और आदर्श प्राप्त होते हैं। नाटक के विषय में, उसकी रचना और उपस्थापना में इतने निश्चित सिद्धान्त और नियम बने हैं—सम्भवतः उसके पीछे नाटक की यही अतुल मर्यादाएं कार्य कर रही थीं।

एक अंक में एक ही दिन, एक ही कार्य-प्रयोजन की बात प्रकट होती है। प्रत्येक अंक का नायक से किसी न किसी भाँति सम्बन्धित होना निश्चित है। नायक के अतिरिक्त एक अंक में दो-चार पात्र और भी हो सकते हैं। किन्तु इन पात्रों का अंक के अन्त में मंच से प्रस्थान होना आवश्यक है। 'दशरूपक' के अनुसार नाटक के रूप-विवाद के इन मूल लक्षणों के अतिरिक्त, प्रत्येक अंक में पताका-स्थानकों का समावेश हो तथा इसमें अवस्था और अर्थप्रकृति के मूलभूत सिद्धान्तों से सन्विनियम का पालन हो।

नाट्यशास्त्र में 'नाटक' की पूर्ण परिभाषा निष्कर्ष रूप में इस प्रकार है :

प्रत्यात्वस्तुविषये प्रत्यतोदात नायकं चैव ।  
राजषिवंशचरितं तर्यव दिव्याश्रयोपेतम् ॥१०॥  
नाना विभूतिसंयुक्तमृद्धिविलासादिभिर्गुणैचैव ।  
अंकप्रवेशकाद्यं भवति हि तत्त्वाटकं नाम ॥११॥

धर्मिताएं

संस्कृत अथवा हिन्दू धर्मी :

१. नाट्य-धर्म

२. लोक-धर्म

संस्कृत नाटक के प्रसंग में जितनी चर्चा हुई है, और सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ

भग्न का सारा नाट्य परन्तु निष्पक्ष वात नाट्य-विशाल ग्रन्थ के यत्र-नव को कभी नहीं भुलाया है फिर है, और उसकी वास्तविक है, अतएव नाट्य-प्रयोग के जनता के आचरण में ही लोक-नाटक का नियामक है।

नाट्यशास्त्र के इक्षुम के विषय में स्पष्ट कहा है :

लोकधर्मो भवेत्स्त

स्वभावो लोकधर्म

संक्षेप में, जो स्वाभाविक है और जो विभाव है (कला धर्म) को साधारणतः नृत्य

नृपतीनां यच्चरितं नानारसभावसंभूतं बहुधा ।

सुखदुःखोत्पत्तिकृतं भवति तन्नाटकं नाम ॥१२॥(अध्याय १८)

अथात् जिसका इतिवृत्त प्रस्थात और नायक राजवंश का पुरुष हो, जिसे दिव्याध्य प्राप्त हो, जो नाना विभूति एवं विलासादि गुणों से संयुक्त हो, जिसमें उपयुक्त संख्या वाले अंक और प्रवेशक हों, जिस काव्य में राजाओं के चरित्र, उनके क्रिया-कलाप, उनके सुख-दुःख से अनेक भावों और रसों का आविभाव हो, वह नाटक कहलाता है ।

### धर्मिताएँ

संस्कृत अथवा हिन्दू रंगमंच में दो प्रकार की निश्चित नाट्य-धर्मिताएँ थीं :

१. नाट्य-धर्मी

२. लोक-धर्मी

संस्कृत नाटक के प्रसंग में गत पृष्ठों में इतिवृत्त, नायक और रस के स्तर से जितनी चर्चा हुई है, और उसके अन्तर्गत नाट्य सम्बन्धी जितने नियमों और सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है, वे सब नाट्य-धर्मी के उदाहरण हैं ।

भरत का सारा नाट्य-शास्त्र नाट्यधर्मी रुद्धियों का ही विशाल ग्रन्थ है । परन्तु निष्पक्ष बात नाट्य-शास्त्र के लिये यह है कि उसके शास्त्रकार ने उस विशाल ग्रन्थ के यत्र-नत्र कृतिपय उल्लेखों और प्रसंगों के माध्यम से इस बात को कभी नहीं भुलाया है कि 'नाट्य' की वास्तविक प्रेरणा-भूमि लोक-जीवन है, और उसकी वास्तविक कसौटी भी लोकनिति है । लोक में असंख्य प्रकृतियाँ हैं, अतएव नाट्य-प्रयोग के लिये लोक ही प्रमाण है, क्योंकि इस प्रकार साधारण जनता के आचरण में ही नाटक की प्रतिष्ठा है । यह 'लोकधर्मप्रवृत्ति' ही लोक-नाटक का नियामक है ।

नाट्यशास्त्र के इन्हींसर्वे अध्याय में शास्त्रकार ने दोनों नाट्यधर्मिताओं के विषय में स्पष्ट कहा है :

लोकधर्मी भवेत्त्वन्या नाट्यधर्मी तथापरा ।

स्वभावो लोकधर्मी तु विभावो नाट्यमेव हि ॥२०३॥

मंक्षेप में, जो स्वाभाविक है, अथात् जो (मानव) स्वभाव है वह लोक-धर्मी है, और जो विभाव है (कला द्वारा जो कृतिम है) वह नाट्य-धर्मी है । नाट्य-धर्मी को साधारणतः नृत्य नाटक भी कहते हैं । प्राचीन भारत में यही वह

अंक तक का हो सकता है । कारण, नाटक के ।  
। नायक द्वारा चारों ।  
। धैर्य, इतना आदर्श ।  
। सबके पीछे यह लक्ष्य ।  
। और राष्ट्र को मर्यादा ।  
। उच्चना और उपस्थापना ।  
। उसके पीछे नाटक की ।

बात प्रकट होती है ।  
। त होना निश्चित है ।  
। सकते हैं । किन्तु इन ।  
। क है । 'दशरूपक' के ।  
। तरिक, प्रत्येक अंक में ।  
। अर्थप्रकृति के मूलभूत ।

रूप में इस प्रकार

विशेष नाट्य शैली थी, जिसने कालिदास और श्री हर्ष को उत्पन्न किया था। यही नाट्यधर्मी अथवा आदर्शात्मक एवं कलात्मक प्रविधि थी, जिसने संस्कृत नाटक को कविता, संगीत, तथा नृत्य-वर्मित सर्वतोमुखी कला बना दिया, जो भारतीय रंगमंच की एक विशेष उपलब्धि है। भरत ने इस प्रकार की मृष्टि को अपेक्षाकृत अधिक अधिक और कलात्मक मानकर इसे 'आभ्यन्तर' कहा और दूसरी सहज मृष्टि (लोकवर्मी) को ग्रल्पकलात्मक मानकर 'बाह्य' कहा है।

संस्कृत काल के, राजकीय संरक्षण में होनेवाली तथा उस युग के सामंत तथा आभिजात्य दर्शकवर्ग से पोपित नाट्य-वर्मिताएँ स्वभावतः नाट्यधर्मी थीं। 'नाट्य शास्त्र', 'दशरूपक' और 'अभिनयदर्पण' आदि में नाटक, अभिनय, दर्शक, ऐसे आदि के स्तर से जितने विलष्ट सिद्धान्त और शास्त्रीय मर्यादाएँ उनमें दी हुई हैं, उन सब शास्त्रीय गुणों का निवाह नाट्यधर्मी नाट्य में अनिवार्य था।

संस्कृत 'नाटक' नाट्यधर्मी परम्परा और शास्त्र का प्रतीक है। पर इस शास्त्रीय नाटक से अलग जो सहज जीवन, सहज उल्लास का नाटकीय माध्यम था, जिसकी समूची रचना-पद्धति अकृत्रिम थी, उस 'लोक-नाटक' का नया व्यावहारिक रूप और उदाहरण था, शास्त्रीय नाटक की भाँति उसे जानने में हम उतने सफल नहीं हैं।

**प्रथमतः** स्वयं नाट्य-शास्त्र में लोकधर्मी नाट्य-परम्परा के विषय में दो-एक श्लोकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा गया है। 'स्वभावो लोकधर्मी' में ही जैसे उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आगे मानो उसके विषय में कुछ कहना अपेक्षित ही नहीं था। वस्तुतः जो 'स्वभाव' है, उसके विषय में और विशेष कैसे कोई शास्त्रकार कुछ कह सकता है। हाँ, जो कलानिष्ठ है, कला और शास्त्र के तत्त्वों तथा आग्रहों की जो लेकर चलता है, निश्चय ही उसके विषय में शास्त्रीय सिद्धान्तों तथा नियमों को पारित करना होगा और उन शास्त्रीय गुणों का निवाह उसमें अपेक्षित होगा। तभी सारा नाट्य-शास्त्र के बल नाट्यधर्मी रूढियों तथा सिद्धान्तों का विशाल ग्रन्थ है।

तो 'लोकधर्मी' क्या है, उसकी परिभाषा तथा क्षेत्र क्या है, इसके विषय में केवल तेरहवें अध्याय के अन्तर्गत नाट्य-प्रवृत्ति-प्रसंग के अंत में अनेक श्लोक दिये गये हैं। इसके पीछे निश्चय ही लोकधर्मी नाट्य-परम्परा के प्रति शास्त्रकार का कोई, किसी प्रकार का अवज्ञाभाव नहीं था। क्योंकि नाट्य-शास्त्रकार ने, जैसा कि पहले कहा गया है, इस बात को कहीं नहीं भुलाया है कि वास्तविक नाट्य-

संस्कृत-रंगमंच : कृतिवा

क्षेत्र, और उसकी प्रेरणा-लोकचित ही है।

लोक-नाटक में जन स्वरभाविक थी, अतः लेवांधा जा सकता। जो सीधे पर लागू हो सकता है, वे परक हैं, जो इस स्वरभावपर्यन्त संग लेकर चलने हिसाब लगा सकता है, प्रकार की भाव-चेष्टाएँ सहज प्रवृत्ति में, उनकी ही होगा। अतएव लोक शास्त्र, 'अभिनय दर्पण' सकता।

### लोकधर्मिता

लोकधर्मी नाट्य-परम्परा हुआ, उजागर किया हुआ लोकधर्मी में भी दो इन दोनों का मूलाधार (चेष्टाएँ) दोनों हों। (१)

अभिनय पूर्णतः स्वयं के स्त्री-पुरुष पात्र हों... नाट्यशास्त्र कहता है। (२)

संस्कृत नाट्य-परम्परा

१. स्वभावमावोपतं शु  
लोकवार्ता क्रियोपतं

२. स्वभावमनयोपतं न  
यदीर्दां भवेन्नाट्य-

र्व को उत्पन्न किया था। विविध थी, जिसने संस्कृत पुस्तकों का कला बना दिया, जो ने इस प्रकार की मृष्टि से 'आभ्यन्तर' कहा और एक 'बाह्य' कहा है।

तथा उस युग के सामंत स्वभावतः नाट्यवर्मी थी। वे नाटक, अभिनय, दर्शक, स्त्रीय मर्यादाएँ उनमें दी नाट्य में अनिवार्य था। यह का प्रतीक है। पर इस नाटक का नाटकीय माध्यम क-नाटक' का न्या व्यावर्भावित उसे जानने में हम

परम्परा के विषय में दो-एक स्वभावों 'लोकवर्मी' में ही था है। इससे आगे मानो नुतः जो 'स्वभाव' है, उसके सकता है। हाँ, जो कला-लेकर चलता है, निश्चयों को पास्त करना होगा होगा। तभी सत्ता नाट्यशाल गन्थ है।

व क्या है, इसके विषय में अंत में अनेक श्लोक दिये परा के प्रति शास्त्रकार का नाट्य-शास्त्रकार ने, जैसा है कि वास्तविक नाट्य-

क्षेत्र, और उसकी प्रेरणा-भूमि लोक-जीवन है और उसकी वास्तविक कसीटी भी लोकवित्त ही है।

लोक-नाटक में जन-जीवन, उसकी उमरों और भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वभाविक थी, अतः लोक-नाटकों का कोई भी शास्त्र शास्त्रीय पद्धति से नहीं वर्णा जा सकता। जो सीमित है, जो कला के नियमों के अन्तर्गत है, शास्त्र उसी पर लागू हो सकता है, व्योंकि उसका क्षेत्र निश्चित है। पर जो असीम जीवन-परक है, जो इस स्वावर, जंगम, चराचर सृष्टि को परम स्वभाविक ढंग से अपने संग लेकर चलने वाला हो, उसका कोई भी शास्त्र कैसे और कहाँ तक हिसाब लगा सकता है, अथवा उसकी बातें बना सकता है। संसार में सेकड़ों प्रकार की भाव-चेष्टाएँ हैं, निश्चय ही जन-जीवन में, मनोरंजन की अबाव महज प्रवृत्ति में, उनकी सनातन परम्परा में उसका हिसाब-किताब अलिखित ही होगा। अतएव लोक-नाटकों का परीक्षण, आकलन तथा अवधारणा 'नाट्यशास्त्र', 'अभिनय पूर्णण' और 'दशरूपक' आदि के ग्रन्थारों से कभी नहीं हो सकता।

### लोकधर्मिता

लोकधर्मी नाट्य-परम्परा का प्रधान लक्षण है—स्वभाविक ढंग से प्रकट हुआ, उजागर किया हुआ।

लोकधर्मी में भी दो भेद हैं: शुद्ध स्वभाविक और विकृत स्वभाविक। पर इन दोनों का मूलाधार वही एक ही तत्त्व—लोकवार्ता तथा लौकिक क्रियाएँ (चेष्टाएँ) दोनों हों। (अभिनय पक्ष में) अंगलीला नहीं होनी चाहिये? १

अभिनय पूर्णतः स्वभाविक हो और उसमें (लोक-नाटक में) नाना प्रकार के स्त्री-पुरुष पात्र हों... इस प्रकार का जो नाट्य है, वह लोकवर्मी है—ऐसा नाट्यशास्त्र कहता है। २

संस्कृत नाट्य-परम्परा, लोक-नाटक और लोक-रंगमंच के फलस्वरूप यथार्थ-

१. स्वभावमोपगतं शुद्धं तु विकृतं तथा

लोकवार्ता क्रियोपेतमङ्गलीत्वाविवर्जितम् ॥७१॥

२. स्वभावमनयोपगतं नाना स्त्रीपुरुषाश्रयम् ।

यदीदृशं भवेन्नानाट्यं लोकवर्मीं तु सा स्मृता ॥७२॥

(नाट्यशास्त्र, तेरहवां अध्याय)

## रंगमंच और नाटक की भूमिका

बाद के तत्वों से शून्य नहीं है। लोक को ही भरत ने बारम्बार 'प्रमाण' कहा है। उसमें जीवनगत चरित्रों का अध्ययन है और यथोचित सहज और विविध भाषाओं तथा बोलियों का प्रयोग भी है।

नाट्यधर्मी रुद्धियों तथा उसके अन्यान्य शास्त्रों के प्रसंग में रूप-सज्जा, वेशभूषा, विभिन्न अभिनय-रीतियों एवं प्रकारों तथा केश-रचना-विधि और आभूषण आदि का विस्तृत अध्ययन नाट्यशास्त्र में मिलता है। किन्तु इसके बावजूद भरत ने अनुभव किया है कि मंच पर अभिनय की अपनी सीमाएँ हैं। इन्हीं शास्त्रगत सीमाओं को तोड़कर अभिनय और अनुष्ठान के क्षेत्र को सहज कर उसे जीवन की भाँति असीम कर लेना लोक-नाटक की सबसे बड़ी देन है।

संस्कृत रंगमंच में नाट्य-धर्मी और लोक-धर्मी इन दो विभिन्न नाट्य-रीतियों के फलस्वरूप इसका रंगमंच, कला और सहज जीवन इन दो विभिन्न मूल्यस्तरों तथा रंगक्षेत्रों से विराट रहा है।

**लोक-जीवन—**उत्सव और त्यौहार अथवा अन्य कोई भी सामान्य कारण हो, लोक-नाटक का सहज अनुष्ठान जैसे उमड़ पड़ता है। क्योंकि इसमें मंच तथा अन्य रंग-प्रसाधनों की कोई विशेष औपचारिक तैयारी नहीं करनी पड़ती।



### लोक-नाटक की परम्परा और नाट्य-रुद्धियाँ

लोक-नाटक का तंत्र और रचना-विधान शास्त्रीय नाटक के स्तर से कभी नहीं लिया जा सकता। इसमें शास्त्र के स्थान पर लोक-परम्परा और चिर-विकसित नाट्य-रुद्धियाँ मूल्यवान हैं। फिर भी तात्त्विक हृष्टि से इसमें निम्न-लिखित तत्त्व प्राप्त होते हैं—

गीत

नृत्य

पुराण (मिथ) तथा यथार्थ जीवन-प्रसंग  
और लोक-कथा।

लोक-नाटक के कथानक, इतिवृत्त तत्व में किसी प्रकार से भी शास्त्रीय नाटक के कथातत्व में अपेक्षित 'कार्य-अवस्थाओं', 'अर्थ प्रकृतियों' और 'संधियों' की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक के बाद दूसरी घटना गीत और नृत्य के ताल-मेल से छुलती-मिलती हुई आगे बढ़ती है, कभी व्यवस्थित ढंग से तो कभी नितांत अव्यवस्थित ढंग से—जैसे जीवन में कर्म-लेखों तथा घटनाओं की स्थिति है। तभी लोक-नाटक को जीवन और प्रकृति की सहज 'प्रतिच्छवि' की संज्ञा मिली है।

नाटक की भूमिका

बार 'प्रमाण' कहा  
सहज और विविध

संग में रूप-सज्जा,  
रचना-विधि और  
है। किन्तु इसके  
पथनी सीमाएँ हैं।  
के क्षेत्र को सहज  
बसे बड़ी देन है।  
विभिन्न नाट्य-  
इन दो विभिन्न

'सामान्य कारण'  
इसमें मंच तथा  
रनी पड़ती।

के स्तर से कभी  
प्परा और चिर  
से इसमें निम्न-

से भी शास्त्रीय  
'और 'संविधों'  
नृत्य के ताल-  
ओ कभी नितान  
स्थिति है। तभी  
ज्ञा मिली है।



लोक नाट्य

नाटक की भूमिका

बार 'प्रमाण' कहा  
सहज और विविध

संग में रूप-सज्जा,  
रचना-विधि और  
है। किन्तु इसके  
पापनी सीमाएँ हैं।  
के क्षेत्र को सहज  
बसे बड़ी देन है।  
विभिन्न नाट्य-  
इन दो विभिन्न

'सामान्य कारण  
इसमें मंच तथा  
रनी पड़ती।

के स्तर से कभी  
म्परा और चिर  
से इसमें निम्न-

से भी शास्त्रीय  
'और 'संघियों'  
नृत्य के ताल-  
ओ कभी नितान  
स्थिति है। तभी  
ज्ञा मिली है।



लोक नाट्य

शा

हुआ है

यह वस्तु

हमारी

इ

परिवि

खेत-ख

तले इ

की आप

खचित

दूसरे

मिलन

त्यों द

ठीक

अन्तत

सम्पूर

रंगमं

भाग

विवा

नाटक

स्थिरा

उसक

दर्शक

रंगमं

कही

भी

पूरी

ही

जाग

यथ

वह

के



लोक रंगमंच

शास्त्रीय नाटक कला, दर्शन और काव्य-तत्त्वों के समन्वय से विकसित हुआ है, पर लोक-नाटक जीवन और आनन्द तत्त्व को लेकर उजागर हुआ है। यह वस्तुतः हमारे जीवन के साथ ही उपजा है, हमारे मन और संस्कार के साथ, हमारी सहज जीवनशक्ति से ।

इसका मंच जीवन के बीच अपने आप रच उठता है। चारों ओर जन-परिवर्ति में विरकर, कहीं भी, किसी स्थान पर—नदी या जलाशय के तट पर, खेत-खलिहान में, किसीके द्वार पर, किसी उपवन के रम्य मार्ग में, किसी वृक्ष तले इसका मंच अपने आप उभर आता है। न इसमें पट्टनरिवर्तन के प्रसाधन तले इसका अपेक्षा है, न हश्य-परिवर्तन की आवश्यकता। वही चारों ओर से दर्शक-खिचित मंचपीठ राजमहल है, दीन की कुटी अथवा गृहस्थ का घर है। वही दूसरे की क्षण विदेश हो गया, राजसभा युद्धभूमि हो गई और विरह-भूमि और मिलन-मंदिर में परिणत हो गया। जैसे महादर्शण को ज्यों-ज्यों घुमाइये, त्यों-त्यों उसमें विराट जीवन की बढ़ुरंगी प्रतिच्छवि अपने-आप खिचती चलती है, ठीक उसी प्रकार लोक-रंगमंच की, उसके अनौपचारिक, आग्रहहीन मंचपीठ और अन्ततः उसके सहज रंगमंच की प्रकृति है। लोक-रंगमंच के हश्यपक्ष, उसके सम्पूर्ण वास्तुपक्ष के स्वप्नद्रष्टा जैसे दर्शक वर्ग हैं। लोक-नाट्य और उसके रंगमंच का दर्शक केवल दर्शक ही नहीं है, वह उस रंगमंच का सक्रिय अभिन्न भाग भी है—उसका संरक्षक और रसरंजक दोनों।

शास्त्रीय नाटक के मंचपीठ और दर्शक की रंगशाला के बीच जिस पर्दे का विवान है—जो अंक और हश्यान्तर से खुलता और बन्द होता रहता है, उससे नाटक के दर्शक और उसके मंच की तथा लोक-नाटक के दर्शक तथा मंच की स्थितियों में जमीन-आसमान का अन्तर हो जाता है। नाटक का दर्शक तथा उसकी मंच-स्थिति औपचारिक है—वह नाट्य-अनुष्ठान का महज दर्शक है—रसन्न दर्शक—किन्तु उसके और रंगपीठ के बीच में अन्तर है। यह अन्तर आधुनिक रंगमंच में इस प्रसंग से उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। लोक-रंगमंच में कुछ भी कहीं से भी कुछ औपचारिकता, दूरी नहीं है। यहाँ तक कि प्रवेश और प्रस्थान भी अनौपचारिक हैं। सब कुछ मान लिया हुआ, सबकी सजीव परिकल्पना पूरी की हुई। सब कुछ इतना यथार्थ, इतना यथार्थ कि सब यथार्थ का भ्रम ही उठ जाय और दर्शक उसका अविच्छिन्न अंश होकर उसमें जैसे रंगरत हो जाय। क्योंकि लोक-मंच पर वह जो कुछ देख रहा है, वह सब कुछ जैसे अपनी यथार्थ प्रतिच्छवि देख रहा है। और उसके जीवन की जो क्षति थी, आयद वह वहाँ पूर्ति पा रही हो।

जब समाज से घिरे हुए, अविभक्त मंच पर वह प्रत्यक्ष दिख रहा है, नाटक के सुख में प्रसन्न, गीत गाता हुआ, वही अभिनेता के सुर में सुर मिलाता हुआ,

और वहीं सीधे उसके दुख में, कहणा में सौ-सौ आँसुओं से रोता हुआ। उसने देखा घनी को कृपण-योषक, डाकू को उदार। उसने पाथा कि सत्य बोलनेवाला कितना कष्ट भोगता है—उसी सनातन सत्य में वह रो उठता है। पर वह किस प्रकार पुनः जी जाता है, अपने मन को तब वह ओजस्वी पाने लगता है; जैसे वह देखता है कि अमुक को तब स्वर्ग मिला, अमुक का अपने प्रेमी-जन से इस जीवन में न सही, उस जीवन में तो मिलन हुआ, सुख और आनन्द मिला। 'हे ईश्वर, जैसे उस राजा की; उस प्रेमी की, सती की, वीर पुरुष और सत्यव्रत-घारी की मनोकामना पूरी हुई, हे प्रभु, उसी भाँति सबकी इच्छा-मनोकामना पूरी हो।' यह दर्शन-मंत्र, उसके संसर्पित मन का आशीष लोक-रंगमंच की अपनी परम्परागत विशेषता और उसकी एकांत शक्ति है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।

### अनुष्ठानगत कुछ रंग-परम्पराएं

- मंच के लिये दर्शक-सचित उसी के बीच की धरती, अथवा दर्शक सहित कोई भी निरपेक्ष स्थान।
- रूप-सज्जा के लिये कुमकुम, खड़िया, गेहू, काजल और मुद्राशंख।
- प्रकाश के लिये मशाल।
- वस्त्र-सज्जा के लिये सामान्य कपड़े—पर गीतों की कड़ियों में लिपटकर वे पात्रानुकूल अनुभूत होने लगते हैं।
- कभी-कभी चैहरों पर मुक्कीटे, और अतिरिक्त रूप सज्जा।
- रंग प्रसाधन के लिये सही वस्तु की नकल—जैसे धोड़े के लिये काठ का धोड़ा और उसपर बैठा हुआ जैसे यथार्थ सवार।
- गति और कार्य से हश्य, स्थान, काल तथा उसके परिवर्तन का सहज बोध।

### लोकनाट्य झड़ियाँ

लोक-नाटक अथवा रंगमंच में शास्त्रीय नियम उस प्रकार नहीं हैं। पर इस प्रकार की 'नाट्यहीनता' रंगशास्त्र-विहीनता और मंचगत, दृश्यगत औपचारिक तत्वों के अभाव से यह भलव नहीं कि लोक-नाटक में कोई झड़ियाँ

संस्कृत-रंगमंच : वृ

ही नहीं। झड़ियाँ हैं, बल्कि झड़ियाँ संच के प्रसंग में इ

○ हश्ये

○ नाटक

भीत

क्षेत्र

चतुर

○ हश्य

कुछ

○ उन्मु

सीधा

○ संगी

लोक-नाटक।

अध्ययन से जो वा इस दिशा में अवा परिप्रेक्ष के साथ हैं। इसका फल वहाँ की मनोरजन शैलियाँ देश में वि रंगमंच की अनुल

### नाटक के प्रमाण

नाटक और एकांत सफलता के

○ लोक

○ वेद,

○ अध्य

जो भी शास्त्र, धर्म

१. यानि शास्त्र, धर्म लोकधर्मप्रवृ

तो हुआ। उसने सत्य बोलनेवाला था है। पर वह बी पाने लगता है, अपने प्रेमी-जन से र अनिन्द मिला। रूप और सत्यवत्-इच्छा-मनोकामना लोक-रंगमंच की अन्यत्र दुर्लभ है।

ती, अथवा दर्शक और मुद्रादात्। की कड़ियों में सज्जा। घोड़े के लिये वं सवार। के परिवर्तन का

ही नहीं। रुद्धियाँ हर प्रकार की नाट्य-कला तथा रंग-प्रकार के लिये आवश्यक हैं, बल्कि रुद्धियाँ स्वभावतः उनमें धर्मनिष्ठ रहती हैं। हाँ, लोक-नाटक—रंगमंच के प्रसंग में इसकी रुद्धियाँ अलिखित ही रहती हैं।

- दृश्यों और श्रंकों के स्थान पर नाटकीय व्यापार के पूर्ण ग्रंथ।
- नाटक की रचना-विधि में एक प्रकार की शिथिलता, जिसके भीतर स्वाँग, नकल, आशुसंवाद तथा हास्य-व्यंग के लिये क्षेत्र प्राप्त होना होता है—जिससे लोक-नाटक में सामाजिक चेतना और उसका तीव्र स्वर उभर जाता है।
- हृश्य समायोजन का अतिविश्वासी रूप—दर्शकों के बीच में ही कुछ भी आपचारिक नहीं।
- उन्मुक्त मंच के कारण नाट्य-व्यापार की अनुकृति में सहज सीधापन।
- संगीत और नृत्य के सहज तत्त्व।

लोक-नाटक तथा इसके रंगमंच की रुद्धियों तथा इसकी परम्पराओं के अध्ययन से जो वात सबसे अधिक आकर्षक और जीवन्त लगती है, वह है इसकी इस दिशा में अवाव गतिशीलता। परिवर्तित होते हुए सामाजिक प्रसंग और परिप्रेक्ष्य के साथ उसकी रुद्धियाँ भी सदा परिवर्तित और विकसित होती रहती हैं। इसका फल यह भी हुआ है कि अंतिमिक तथा क्षेत्रीय जन-प्रकृति तथा वहाँ की मनोरंजन पद्धति के अनुसार एक ही लोक-नाटक के विविध रूप और शैलियाँ देश में विकसित हो जाती हैं। और उनके सामूहिक अध्ययन से लोक-रंगमंच की अनुज शक्ति का आभास मिलता है।

### नाटक के प्रमाण

नाटक और उसके शास्त्रीय रंगमंच में शास्त्रकार ने उसकी सम्पूर्ण और एकांत सफलता के लिये निम्नलिखित तीन सत्यों को प्रमाण माना है—

- लोक धर्म
- वेद, और
- अध्यात्म।

जो भी शास्त्र, धर्म, शिल्प और आचार या लोक-धर्म-प्रवृत्त है, वह नाट्य है।<sup>१</sup>

१. यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रियाः।  
लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्यं प्रकीर्तिम्॥

पिछले पृष्ठों में लोक-नाटक तथा उसके विशेष रंगमंच के विषय में जो चर्चा हुई है, वह उसकी अपनी विभिन्न धर्मिता और रूढ़ियों के प्रसंग में है।

वहाँ नाटक से सम्बन्धित जिस रंगमंच के प्रमाण की बात उठ रही है, वह 'लोक-धर्म' का सत्य है, 'लोक-तत्त्व' का नहीं। लोक-धर्म से यहाँ तात्पर्य है मानव-धर्म से, जो दर्शक के रूप में रंगमंच का अंग सिद्ध होता है। क्योंकि नाटक की सफलता का प्रमाण लोकरंजन में है। इसी आधार पर शास्त्रकार ने नाट्य-अनुष्ठान की सफलता दो स्तरों से मानी है—

- मानुषी
- दैवी।

मानुषी सफलता का मूलाधार लोकधर्म का पालन और उसका सफल निर्वाह है। यह मानुषी सफलता विशेषतया अभिनय की कुशलता से प्राप्त होती है। अर्थात् नाट्य-अनुष्ठान के समय अभिनेता से पात्र का अनुभावन, फिर उससे उसके पात्रगत दुख-सुख से दर्शक का प्रत्यक्ष सत्याभास और उसके समस्त आवेगों के साथ प्रतिभावन। जब दर्शक हास्य-स्थिति में हँस पड़े, लटन-क्षणों में रो पड़े और नाटक की भावानुभूति के समय रोमांचित तथा गदगद हो, वह 'अहो-अहो साधु...साधु...हा कष्टम्' कह उठे।

दैवी सफलता का प्रमाण है किसी प्रकार का दैवगत विघ्न न पड़ने का, जैसे कहीं नाट्य-अनुष्ठान के समय भूकंप न आ जाए, भयानक वर्षा न आ जाए, कोई घायल, आहत अथवा बीमार न हो जाए।

'वेद' से तात्पर्य नाट्यवेद अथवा नाट्य-शास्त्र के नियमों तथा सिद्धान्तों से है। इनका यथासंभव पालन उसकी सफलता के लिए परम आवश्यक है। 'अध्यात्म' से मतलब रंगमंच क्रिया-कलाप में अंतर्निहित उस तत्त्ववाद से है, जो अभिनेता, नाटककार और रंगशिल्पी को सदैव इस सत्य के प्रति सचेत-सजग रखता है कि वह जो कुछ रंग-कर्म रहा है, वह कुछ अन्य नहीं, बल्कि पूजा है, देवाधिदेव शंकर की साधना है।

संस्कृत अथवा हिन्दू (भारतीय) रंगमंच की पूर्ण सफलता के प्रमाण में इस प्रकार जहाँ एक और लोक-धर्म का सत्य है, वहाँ दूसरी ओर रंग-कलाकार और नाट्य-कर्मी की हिट उसके अध्यात्म तत्त्व पर भी है। एक और मानव-धर्म, दूसरी ओर ईश्वर-धर्म, ताकि कहीं से कुछ एकांगी और एकपक्षीय न रह जाय।

संस्कृत-

नाट्यांग

भा

नाट

प्रकृति क  
प्राप्त है,  
फलदायक  
वस्तुतः उ  
हारिक अ

नाटक वे

नाट  
रूप होत  
होता चल

भार

भाव-जग  
पास देवत  
करने गये  
तीनों लो  
हैं। इस  
की प्रधान  
पर आधिकनाटक की  
जाता है

## नाट्यांग

भारतीय रंगमंच में नाटक के चार अंग हैं:—

१. पाठ्य
२. गीत
३. अभिनय, और
४. रस।

नाटक के इन चार अंगों की अन्विति में पूर्णरूप से संस्कृत रंगमंच की प्रकृति का संकेत है। जिस रंगमंच का प्राण रस है, उद्देश्य आनन्द और फल प्राण है, स्वभावतः उसके नाटक के अंगों में ऐसे ही तत्त्व होंगे, जो उस सिद्धि के फलदायक हों। नाट्यांग में 'गीत' और 'रस' इन दो मूलभूत अंगों का होना वस्तुतः उसमें अन्तर्भूत रंगमंच की महिमा है। काव्यांश रंगनिष्पत्ति का व्यावहारिक अंग है, फलतः नाट्यांग में पाठ्य का स्थान सर्वप्रथम है।

## नाटक के विषय

नाटक का विषय सदैव नाटक की प्रकृति और उसकी आत्मा के अनुरूप होता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों नाटक की अन्तर्भूत आत्मा में विकास होता चलता है, स्वभावतः उसकी विषय-वस्तु में भी परिवर्तन होता रहता है।

भारतीय नाटक की आत्मा रस है—जिसका मूलाधार भावजगत् है। यही भाव-जगत् रस का आधार है। नाट्य-शास्त्र में भरत ने ब्रह्मा के मुख से, जिनके पास देवतागण पीड़ा और क्लेश से ग्रस्त संसार के लिये आनन्द की याचना करने गये थे, कहलाया है: 'त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यभावानकीर्तनम्'; यह 'नाट्य' तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। इसमें व्यापक मानवता के भाव रहते हैं। इसमें मानवता से संबंधित विषय प्रसंग के साथ-ही-साथ तद्विषयक भाव की प्रधानता भी रहती है। और यह भाव की प्रधानता लोकबृत्त के अनुकरण पर आधित रहती है:

नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम् ।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यभेतन्मया कृतम् ॥

नाटक की प्रकृति और इसके उद्देश्य से इसके विषय-क्षेत्र का स्पष्ट संकेत मिल जाता है। "अर्थात् नाटक वह दृश्य-काव्य है जो प्रत्यक्ष, कल्पना तथा

अध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं असत्य से समन्वित विलक्षण रूप धारणा करके सर्वसाधारण को आनन्दोपलब्धि कराता है।"

शास्त्रकार (नाट्य-शास्त्रकार) ने नाटक के विषय-प्रसंग में कहा है :

देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोकमहात्मनाम् ।  
पूर्ववृत्तानुचरितं नाटकं नाम तदभवेत् ॥

अर्थात् देवता, मनुष्य, राजा एवं महात्मा के पूर्ववृत्त को नाटक के विषय-क्षेत्र में लेना है। राजा, मनुष्य और कृषि का वृत्त स्वभावतः उदात्त भाव-विषयों का क्षेत्र है, जिसमें दया, क्षमा, त्यग के आदर्श तत्त्व प्राप्त हैं। इसके साथ ही उनमें मानवीय गुण-दौष्य, श्रद्धा-मोह, काम-धर्म, विद्या-अविद्या, चैतन्य आदि तत्त्व भी यथासंभव समाहित होते हैं। पर सदैव इस शर्त पर, कि कहीं से भी नाटक के नायक के चरित्र का उदात्त पक्ष आहत न हो। इसके लिये 'कृषि शाप', 'दैव संयोग' आदि की अवतारणा करनी पड़ती है। शास्त्रकार ने जहाँ नाटक के लक्षणों में पांच संघियों, चार वृत्तियों, चौसठ अंगों, छत्तीस लक्षणों—अनेक नाटकालंकारों की चर्चा की है, वहाँ उसने नाटक के विषय में यह संकेत किया है कि वह अत्यन्त सरस, उत्तम भावों से समन्वित, चमत्कारपूर्ण रचना (प्रसंग) से पूर्ण, महापुरुषों के सत्कार से युक्त, आदर्श आचरणमय, संघियों से युक्त, प्रयोगों में रमणीय, मुख का आश्रय, मृदुल शब्दों से समन्वित (रचना) हो।

इसी लिये नाटक के लिये पौराणिक और ऐतिहासिक कथा तथा उदात्त चरित्र का विषय अनिवार्य माना गया है—क्योंकि नाटक के द्वारा समाज और राष्ट्र को आदर्या का पाठ पढ़ाना था। नाटक में प्रत्यक्षतः असत् वाक्यों, कुसल्यों की प्रधानता का मतलब, नाटक के समूचे हृषि और मर्यादा और उद्देश्य की ही सर्वथा क्षति थी। जीवन के इस यथार्थ पक्ष की अभिव्यक्ति के लिये एक दूसरी ही नाट्य-गणरामरा—लोकधर्मी थी। और रूपक के भेदों में ‘नाटक’ से इतर अन्य प्रकार थे जैसे प्रकरण, भाग्य आदि।

पर शास्त्रीय नाटक के विषय सदैव उदात्त मूल्यों, जीवन-आदर्शों तथा महिम कथा और प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न, धीरोदात, प्रतापी, गुरावान, राज्ञि, दिव्यादिव्य पुरुष-चरित्रों के ही बीच से ग्रहण किये जा सकते थे। ताकि इसमें

६. एंच सन्विचतुर्हृत्तचतुः षष्ठ्यंगसंयुतम् ।  
 षट्क्रिशल्लक्षणोपितमलंकारोपशोभितम् ॥  
 महारसमादीमोगमुदात्त रचनान्वितम् ।  
 महापुरुष सत्कार साध्वाचारं जननियमः ॥  
 सुरिलधनं सविथोमें च सुप्रयोगं सुखाश्रयम् ।  
 मृदुशासदामिथानं च कविः कुर्यात् नाटकम् ॥

संस्कृत-रंगमंच : कृ  
विलास, आनन्द, स  
हो सके, विशेषकर  
नाटक से आनन्दि  
गुणों तथा राष्ट्रीय  
नाटक अपने विक  
की अभिव्यक्ति को  
जो रूपक-प्रका  
चला, उसे 'प्रकरण'

नाट्यगत मान्यता

हिन्दू रंगमंच आंतरिक  
ताओं के पीछे वसुता  
इसके साथ-ही-साथ यह  
में कार्यरत है। ये इन  
भारतीय नाटक ग्रथ  
एकांत मौलिक जीवन  
है। इसके साहित्य में  
स्तर से असन्तोष या  
के फलस्वरूप यह सम्भव  
और सामंजस्यपूर्ण है  
क्योंकि मनुष्य इस जगत्  
असन्तोष के अभाव ने  
के अनुकूल बना दिया  
केवल थके हुए दिमाग  
नाच, गान, नाटक के  
विधिवत् करने से गृहण  
है और सुलिलित फलोंमें

कला-सतीषी तथा

विषय-क्षेत्र  
गाव-विपरीतों  
के साथ ही  
नव्य आदि  
कहीं से भी  
नये 'कृषि'  
पार ने जहाँ  
लक्षणों—  
यह संकेत  
पूर्ण रचना  
है, संधियों  
है (रचना)

यथा उदात्त  
समाज और  
प्रयोगों, कुम्हयों  
दृश्य की ही  
एक दूसरी  
इतर अन्य

वदशों तथा  
न, राजपि,  
ताकि इसमें

विलास, आनन्द, समृद्धि आदि गुणों और तत्त्वों तथा अनेक रसों का समावेश हो सके, विशेषकर शुंगार अथवा बीर प्रधान रस के रूप में—ताकि समाज को नाटक से आनन्द मिल सके—उसमें ऐसे आदर्शों की स्थापना हो, जो जातीय गुणों तथा गाट्टीय मर्यादाओं के उज्ज्वलतम उदाहरण हों।

नाटक अपने विषय-क्षेत्र में आदर्श मानव मूल्य तथा मानवता के उदात्त रूप की अभिव्यक्ति को लक्ष्य मानकर चला—जैसे 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'।

जो रूपक-प्रकार समाज की अपेक्षाकृत वास्तविक रूप-रचना के आधार से चला, उसे 'प्रकरण' की संज्ञा भिली है—जैसे शूद्रक-रचित 'मृच्छकटिकम्'।

### नाट्यगत मान्यताएं और भारतीय जीवन-दर्शन

हिन्दू रंगमंच और उसकी इतनी उदात्त नाट्यगत विशेषताओं तथा मान्यताओं के पीछे वस्तुतः भारतीय जीवन-दर्शन की अन्तःप्रेरणा कार्य कर रही है।

✓ इसके साथ-ही-साथ यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी चेतना में कार्यरूप है। ये वक्तियाँ इतनी विशाल, तथा जीवन-निष्ठ हैं कि इनसे भारतीय नाटक अथवा रंगमंच ही नहीं, अपितु इसकी समस्त कलाओं में जो एकांत मौलिक जीवन-स्तर उठता है, वह मुख्यतः पश्चिम के लिये आश्चर्यजनक है। इसके साहित्य में, नाटक अथवा रंगमंच में, कलाओं में कहीं भी, किसी भी स्तर से असन्तोष या मृत्यु का भाव नहीं है। पुनर्जन्म और कर्मफल में आस्था के फलस्वरूप यह समूचा जीवन और जगत् अपनी वास्तविकता सहित उचित और सामंजस्यपूर्ण है। यदि दुःख है तो इसमें असन्तुष्ट होने का कोई हेतु नहीं, वर्षोंकि मनुष्य इस जगत् में अपने किये का फल भोगने की आया है। इस तरह असन्तोष के अभाव ने सामाजिक बातावरण को आनन्द, उल्लास और उत्सव के अनुकूल बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय चित इन उत्सवों को केवल अके हुए दिमाग का विश्वास नहीं समझता, यह इसे मांगल्य मानता है। नाच, गान, नाटक केवल मनोविनोद नहीं हैं, परम मांगल्य के जनक हैं, इनको विधिवत् करने से गृहस्थ के अनेक दुःख और विघ्न नष्ट होते हैं। पाप अथ होता है और सुलिलित फलोंवाला कल्याण होता है:

मांगल्यं ललितञ्चैव द्रह्मणो वदनोद्भवम् ।

मुपुष्यं च पवित्रं च जुर्भं पापविनाशनम् ॥

(नाटशास्त्र) ✓

कला-मनीषी तथा रचनाकार सदा यह मानकर चले हैं कि कला वही श्रेष्ठ

है जो मनुष्य को अपने-आप में ही सीमित न रखकर परम तत्त्व की ओर उन्मुख करे। कला का लक्ष्य कला यहाँ के संस्कृत काल में कभी नहीं रहा है। वह कला यहाँ की हृषि में बंधन है, पर जिसका संकेत, स्वरूप के साक्षात्कार या परम तत्त्व की ओर है, वही कला कला है।

जो साक्षात् जीवन है, उसकी यथार्थ स्थितियाँ और दुःख-सुख हैं, उनके बीच से प्राचीन भारत की कला और काव्य की रचना नहीं होती थी। वस्तुतः यह यथार्थ जीवन स्तर और क्षेत्र, कला-रूपी रक्त कमल की जड़ के लिये था—जहाँ से उस सनातन कमल को प्राणशक्ति मिलती थी, पर उस कला और काव्य का रचना-स्तर उससे सर्वथा भिन्न होता था। जो जीवन में भोग्य है, वह जीवन का ही क्षेत्र है, और जहाँ वह समाप्त होता है, उम सीमा से आगे, उस यथार्थ जीवन के घरातल से बहुत ऊपर उठकर कला और काव्य का सृजन-क्षेत्र प्रारम्भ होता है। तभी भारतीय नाटक और साहित्य का स्वर इतना मांगलिक, आदर्शपूर्ण और मिलनमय है, वरना इसका भी स्वर, जीवन की यथार्थ गति और प्रकृति की भाँति करुणापरक, दुःखमय, विष्णोहृषीण और निराशाजनक होता। जैसा कि पश्चिम के नाटक और साहित्य में हुआ है।

नाटक और रंगमंच ही क्या, प्राचीन भारत के प्रायः समस्त कलात्मक आमोदों की पृष्ठभूमि में सदैव ये तीन पक्ष कार्यरत रहे हैं :

- उनके पीछे एक निश्चित तत्त्ववाद
- उनका कल्पनात्मक विस्तार, और
- उनकी ऐतिहासिक परम्परा।

तभी यहाँ के कला-मनीषियों और काव्याचार्यों ने कहीं कला को 'महामाया का चिन्मय विलास' कहा है, और कभी इसे 'महामाया की सम्मूर्तन शक्ति' कहा है।

प्राचीन नाटक, रंगमंच, साहित्य और शिल्प, भारत की आनन्द-विधायिनी जीवन-पद्धति का जैसे चेतन प्रतीक है। भारतीय रंगमंच को महाकवि कालिदास ने, 'चाक्षुष्य यज्ञ' कहा है। 'मालविकाग्निमित्र' में नाटककार ने लिखा है कि नाट्य को जो हम अपने जीवन में इतना महत्व और गौरव देते हैं उसमें सत्य है, उसके पीछे जीवन की साधना है। आस्था और अपना आनन्दमय जीवन-दर्शन है।

### संस्कृत नाटक में संघर्ष की स्थिति

पश्चिम का रंग-समीक्षक और अपने यहाँ आज का रंग-पाठक प्राचीन

नाटक को पश्चिम तब वह नाटक संघर्ष नहीं तो न रचना की। इसकी कुछ स्पष्ट नाटकों की भाँति है, यहाँ यह साधा (रस) को उद्दीप्ति में शकुन्तला के :

संघर्ष के मूल प्रयुक्त हुए हैं, प्रभाव नाटक में सभाव नाटक के मूल

कथावस्तु के 'अवस्थाओं' के अंत में 'मुख', 'प्रतिमुख' को ही व्यक्त करते सीधी सरल रेखा जीवन की गति से पहुँचता है। यह तक नाटकों में हत्या पश्चिम का जीवन कारणिक अंत, क्यों स्थिति और यथार्थ संघर्ष के अर्थ हैं, संत अप्रसर होना। संतो वह केवल क्षणिक के पीछे निश्चय ही रहता है। इसके पीछे जीवन के संघर्षों, विनाशों के अपने लक्ष्य में

यहाँ के जीवन-वीद-दर्शन, जो दुख में विश्वास करता है

क की भूमिका

की ओर उन्मुख  
रहा है। वह  
साक्षात्कार या

न-मुख हैं, उनके  
ती थी। वस्तुतः  
के लिये था—  
उस कला और  
वन में भोग्य है,  
सीमा से आगे,  
आ और काव्य  
साहित्य का स्वर  
भी स्वर, जीवन  
विद्वाहपूर्ण और  
में हुआ है।  
समस्त कलात्मक

ला को 'महाभाया  
सम्पूर्ण शक्ति'

आनन्द-विधायिनी  
हाकवि कालिदास  
ने लिखा है कि  
देते हैं उसमें सत्य  
आनन्दमय जीवन-

रंग-पाठक प्राचीन

नाटक को पश्चिम के 'संघर्ष' तत्व के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता है। स्वभावतः तब वह नाटक के स्तर पर सोचता है कि विना संघर्ष के कैसा नाटक? जब संघर्ष नहीं तो नाटक की स्थिति क्या?

रचना की हाइट से संघर्ष तत्व इन नाटकों में भी है। किन्तु इस प्रसंग में इसकी कुछ स्पष्ट मान्यताएँ हैं। यहाँ भी संघर्ष है, पर यह संघर्ष पश्चिम के नाटकों की भाँति मूलाधार नहीं है। संघर्ष यहाँ महज साधन के रूप में प्रयुक्त है, यहाँ यह साध्य अथवा मूल नहीं है। स्पष्ट शब्दों में संघर्ष यहाँ मूलाधार (रस) को उद्दीप्त करने आता है। 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' जैसे सरस मृदु नाटक में शकुन्तला के चरित्र स्तर पर निश्चय ही एक उत्कट संघर्ष है।

संघर्ष के मूल तत्व—धूरणा, प्रतिशोध और भय आदि यहाँ के नाटकों में भी प्रयुक्त हुए हैं, पर इनके प्रयोग का अपना विशेष भारतीय ढंग है। अर्थात् ये भाव नाटक में सदा 'संचारी भाव' के रूप में आये हैं और अंत में ये संचारी भाव नाटक के मूल-रस में अपना योग देकर उसी में समाहित हो गये हैं।

कथावस्तु के आधार पर नाटक जीवन-गति स्थितियों में बंदा रहता है। 'अवस्थाओं' के अन्तर्गत 'आरम्भ', 'प्रयत्न', 'प्रपत्याशा' और 'संधियों' के अन्तर्गत, 'मुख', 'प्रतिमुख' और 'गर्भ', ये सब स्थितियाँ अपने स्तर से संघर्ष और नाट्यगति को ही व्यक्त करती हैं। मसार में हम देखते हैं कि मनुष्य मात्र का जीवन एक सीधी सरल रेखा की तरह निपिक्य ढंग से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता। जीवन की गति सदैव वक्त है। वह टेढ़ा-मेढ़ा चलकर ही अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचता है। यह गति ही संघर्ष है, यह पश्चिमी हाइटिकोण, जो आदि से अंत तक नाटकों में हत्या, प्रतिशोध और संघर्ष अनुभूत करता है, वस्तुतः उसके पीछे पश्चिम का जीवन-दर्शन जिमेदार है। पश्चिम में संघर्ष का मतलब विनाश, कारणिक अंत, क्योंकि वहाँ भाय और दैवी शक्तियाँ मनुष्य को उसकी यथार्थ स्थिति और यथार्थ चरित्रबोध के धरातल पर चलकर देखती हैं। किन्तु यहाँ संघर्ष के अर्थ है, संघर्ष पर विजय प्राप्त करना, आशा और उल्लास से सदैव अग्रसर होना। संघर्ष-गति में यदि उसे निराशा मिली, अथवा दुख प्राप्त हुआ, तो वह केवल क्षणिक है। यहाँ संघर्षहीन दुख और निराशा के काले बादलों के पीछे निश्चय ही सुख, आशा, उल्लास और दिव्य आनन्द का प्रकाश छिपा रहता है। इसके पीछे भारतीय जीवन-दर्शन बोल रहा है कि मनुष्य को यहाँ जीवन के संघर्षों, विघ्न-ज्ञाधारों पर अन्तः विजय प्राप्त होगी। भारतीय नाटक तभी अपने लक्ष्य में 'फलागम' की हाइट लेकर चलता है।

यहाँ के जीवन-दर्शन को कर्म में विश्वास है, भाय में नहीं। यहाँ तक कि दीद-दर्शन, जो दुख को चरम सत्य मानकर चलता है, वह भी दूसरे ही चरण में विश्वास करता है कि इस दुख का निवारण हो सकता है। वह कहता है

कि दुख का निरोध होता है, तभी मनुष्य इस जीवन में मोक्ष पाता है। इसके पीछे विशिष्ट रूप से भारतीय आशावादी हृष्टिकोण है, जो मनुष्य के शुभ, मंगल में ही केवल विश्वास नहीं करता, बरन् जो इसमें भी अपनी आस्था रखकर चलता है कि मनुष्य में शुभ और मांगलिक विकास भी होता है। यह अद्भुत आशावाद की हृष्टि, पश्चिम से सर्वथा, भिन्न, सर्वथा दूसरे ही जीवन-दूल्ह की द्योतक है।

जीवनगत इस हृष्टिकोण का व्यवहार भारतीय नाटक में किस प्रकार हुआ है?

इस व्यवहार का मूलकेन्द्र है भारतीय नायक—जिसके चरित्र का मूलाधार है 'धीर' तत्त्व। उसका सारा चरित्र इतना संयमी, आदर्शवादी और उदात्त है कि उसमें पश्चिम-जैसे 'संघर्ष' की संभावना ही नहीं है। यह भारतीय नायक न भाग्य का पुतला है, न रहस्यमयी निर्बलताओं का उदाहरण। यहाँ नाटक का नायक संघर्षों तथा विघ्नों को कुचलता, पददलित करता निरंतर आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को अन्ततः प्राप्त करता है। फलतः यहाँ के नाटकों का अन्त फलप्राप्ति में ही होता है, पश्चिम की भाँति निराशा और असफलता में नहीं। इसका मूल कारण है कि यहाँ नाटक का घरातल निश्चय ही यथार्थ से ऊँचे उठकर कहीं आदर्श स्तर पर है। ठीक इसके विपरीत पश्चिम के 'ड्रामा' का घरातल यथार्थ स्तर पर है। स्वभावतः ड्रामा के चरित्रों की स्थितियाँ हमारे यहाँ के चरित्र की स्थिति से भिन्न हैं। ग्रीक और शेक्सपियरियन द्रुखान्तकी के नायक स्वभावतः अपने जीवन की विरोधी शक्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और अन्ततः उनका जीवन कारणिक पतन को प्राप्त होता है। उसके लिये पश्चिम का नाटककार जीवन की अनुकरणात्मक वृत्ति से प्रेरित होकर अथवा अपने यथार्थवाद के आग्रह से नायकों के चरित्र में कुछ ऐसी मूल कमी चिन्तित करते थे कि स्वभावतः वे पतन तथा असफलता के शिकार हो जाते हैं।

सत्य यह है कि भारतीय नाटक में चरित्र-निर्माण 'ड्रामा' के चरित्र-निर्माण के स्तर पर कभी होता ही नहीं। यद्यपि यह सच है कि पश्चिम के जीवन-दर्शन और कला-सिद्धान्त के फलस्वरूप उनके वहाँ का चरित्र प्रभाव की हृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुआ है, ठीक जैसे भारतीय साहित्य में वेदव्यास प्रणीत महाभारत के चरित्र। पर भारतीय नाटक का चरित्र-सृजन सबसे अनूठे स्तर पर हुआ है, विशुद्ध रस-सृष्टि के स्तर पर। और स्वभावतः इसका सारा ध्वनि आनन्द का है। यही कारण है कि भारतीय नाटक अपने-आप में प्रकाश, हरियाली, उद्यान, आकाश, नदी, पर्वत, पुष्प-वाटिका, राजपथ, सौन्दर्य और उल्लास के परिवेश से भरे पड़े हैं। बादल यहाँ भी हैं (अर्थात् संघर्ष यहाँ

संस्कृत-रंगमंच :  
भी है) पर ये यह नाटक में ऊँची-नीजिसके काशण उम हो गया। वेतरहू आगे निकल जाता जमीन भयतल हो को होता है। एवं राजन्, यह आथम से वारा उत्तार ले कोई भी प्राप्ति न तपस्वी हाथ उठाकर पाओ...!"

टक की भूमिका  
ता है। इसके  
मनुष्य के शुभ,  
नी आस्था रख-  
होता है। यह  
दूसरे ही जीवन-

में किस प्रकार  
रंत्र का मूलाधार  
थी और उदात्त है  
भारतीय नायक  
ए। यहाँ नाटक  
रंतर आगे बढ़ता  
है के नाटकों का  
पैर असफलता में  
बथ ही यथार्थ से  
श्चम के 'डूमा'  
त्रों की स्थितियाँ  
शेक्षणप्रियरियन  
क्तियों पर विजय  
पतन को प्राप्त  
युकरणात्मक वृत्ति  
के चरित्र में कुछ  
असफलता के

के चरित्र-निर्माण  
श्चम के जीवन-  
प्रभाव की हास्ति  
प्रहित्य में वेदव्यास  
रित्र-मृजन सबसे  
स्वभावतः इसका  
टक अपने-आप में  
, राजपथ, सौन्दर्य  
(ग्रथात् संघर्ष यहाँ

भी है) पर ये यहाँ प्रकाश को और दीप्त करते हैं। उसे बुझाते नहीं। यहाँ के नाटक में ऊँची-नीची जमीनें हैं, जिसमें दुश्यन्त के रथ का वेग कम हो गया था, जिसके कारण उसे निराश होना पड़ा कि आखेट का वह मृग सामने से ग्रोफल हो गया। बैतरह धूल उड़ती है। किन्तु दूसरे ही धरण दुश्यन्त का रथ उससे आगे निकल जाता है। यहाँ तक कि रथ के घोड़ों पर धूल तक नहीं लगती। जमीन गमतल हो जाती है। मृग भी सामने है। राजा उस पर बाण छोड़ने को होता है। एकान्त बाधा फिर आती है। नेपथ्य से कोई पुकारता है, “हे राजन्, यह आथम का मृग है। इसे मत मारो... मत मारो”। राजा बनुप पर ने बाण उतार लेता है। अजत्र स्थिति ! यह तपस्त्री कौन है ? इस गति में कोई भी प्राप्ति नहीं है क्या ? चारों ओर से रोक-थाम ही है क्या ? तभी तपस्त्री हाथ उठाकर कहता है—“तुम अपने ही गुणों से युक्त एक चक्रवर्ती पुत्र  
पाओ...!”

तरु



प्रेम—  
अमरतंत्र





विद्युक

संस्कृत-रंगमंच  
प्रस्तुतिकरण पक्ष

## संस्कृत नाट्य-प्रदर्शन (प्रस्तुतिकरण) की परम्परा और पद्धतियाँ

संस्कृत नाटक के आधार में जहाँ एक निश्चित जीवन-दर्शन है, जहाँ उसमें काव्यात्मक विशेषतायें हैं, वहीं उसमें नाट्य-गिल्प और नाट्य-प्रदर्शन की कुछ निश्चित पद्धतियाँ और परम्परायें भी हैं। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के इतिहास में संस्कृत नाटकों के प्रस्तुतिकरण के पीछे सदैव एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जहाँ कलावंत आचार्यों तथा रसज्ञ सामाजिकों के अनुसार रसानुभूति नाटक का मुख्य उद्देश्य है, वहाँ उन्होंने यह भी कहा कि कला का धर्म भनुष्य को शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वह अपने समक्ष देखे गये प्रस्तुत नाटकों के नायकों के चरित्र का अनुकरण करे—तभी संस्कृत रंगमंच में सर्वथा आदर्श नायकों की रचना होती थी। लेकिन समाज का ध्वेत्र और स्तर अत्यन्त विस्तृत और गहन है। इसके प्रतिनिधित्व के लिये तथा इसे प्रकाश देने के लिये संस्कृत रंगमंच में मनोरंजन, सौन्दर्यवोध तथा सोइश्यता के धरातल के नाटक के अतिरिक्त (हृदय के) अन्यान्य विभेद हैं।

'प्रकरण' में सच्चे प्रेम की विजय, चरित्र तथा पवित्रता का चित्रण किया जाता था। यह प्रायः कवि-कल्पित प्रेम-कथाओं के आधार पर भी निर्मित होता था।

धूतों और दुष्टों का हास्योत्तेजक उपस्थापन-मूलक रचना को 'भाण' कहते हैं। रंग-रचना की इटिट से उसके लक्षण निम्नलिखित हैं :

○ भाण में ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनमें अपने अथवा दूसरे के साहसिक कार्यों का पता चलता हो।

○ इसमें केवल एक अंक होता है और दो संघियाँ।

○ भाण का नायक बिट होता है।

○ इसमें संदेत होते हैं—अथवा किये जाते हैं।

○ भाण, आकाश-भाष्टि प्रश्नोत्तरों से आगे बढ़ता है।

○ इसमें हास्य का तो प्रयोग होता है, पर इसमें शृंगार-द्वातक कौशिकी वृत्ति नहीं आती।

संस्कृत प्रहसनों और भाणों में चौट करने, हँसी उड़ाने तथा तत्कालीन समाज की कामुक और ढोंगी वृत्तियों के प्रदर्शन का अच्छा सुयोग मिलता है।

पर 'चतुर्भारी'<sup>१</sup> के अतिरिक्त जो भी प्रहसन और भाषण बच गये हैं, उनमें रुद्धिगत वर्णन, कामुकता, गाली-गलौज और अश्लीलता के ऊपर कोई नई बात कम मिलती है।

'भाषण' के आगे 'व्यायोग' आता है—स्त्रीहीन, वीररस प्रधान एकांकी-जैसा। फिर 'समवकार'—तीन श्रक्तों का। भयानक इश्यों को दिखानेवाला; भूत-प्रेत, विशाचों का उपस्थापक 'डिम'; स्वर्गीय प्रेमिका के लिये जूझ पड़नेवाले, प्रेमियों में प्रतिद्वंद्विता फैलानेवाला 'ईहामृग'; स्त्री-शोक की कहण-कथा दिखानेवाला एकांकी 'अंक'। एक ही पात्र द्वारा अभिनीयमान विनोद और प्रगार-प्रधान 'बीथी'—हँसानेवाला 'प्रहसन' आदि। इनके अतिरिक्त उपरूपक होते हैं—जिनमें 'नाटिका' का महत्व सबसे अविक है। और इसका कार्यक्षेत्र माध्यारणतः राजकीय मन्त्रःपुर तक ही सीमित था। 'प्रकरणिका', 'सट्टक' और 'ब्रोटक' इसी श्रेणी के हैं। 'गोष्ठी' में दस पुरुष और पाँच-छः स्त्रियाँ अभिनय करती थीं। 'हल्लीश' में एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ अभिनय करता था। इस तरह अठारह प्रकार के उपरूपकों का अभिनय और प्रस्तुतिकरण संस्कृत मंच पर होता था।

इस प्रकार संस्कृत रंगमंच अपने प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में कितना व्यापक और गहन है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, इतने प्रकार के नाट्य-रूपकों की व्यावहारिक स्थिति !

### प्रस्तुतिकरण की मूल दृष्टि

/ संस्कृत रंगमंच में प्रस्तुतिकरण की मूल दृष्टि रस-निष्पत्ति का सत्य था। इसी प्रक्रिया से नाटककार नाटक की रचना करता था, स्वभावतः इसके प्रस्तुतिकरण में वही रचना-तत्त्व आवश्यक थे। 'रस' के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का नाटककार नाटक लिखते समय घटना और कार्य-व्यापार में उसके भावात्मक पक्ष को अधिक ध्यान में रखता था, उसके बौद्धिक पक्ष को कम। इसके पीछे भावात्मक सहानुभूति का सिद्धान्त कार्यरत था। उदाहरण के लिये प्रेमी का भावात्मक-काव्यात्मक स्वरूप रचा जाता था, वास्तविक प्रेम-रचना दृश्यरूप में नहीं रखी जाती थी—ताकि दर्शक उस भाव को केवल आत्मानुभूति करे।

१. चतुर्भारी (गुप्तकालीन शृंगार हाट) सम्पादक अनुवादक श्री मोतीचन्द्र, श्री वासुदेव शरण अग्रवाल—भूमिका, पृष्ठ २  
प्रकाशक—हिन्दी अन्य रत्नाकर कार्यालय, दम्भई।

इस 'कार्य' लिये यदि पात्र प हैं, अथवा बाग-उ देश-सत्य का पूर्ण रखा जाता है, वर सत्य का कथन क उसके साथ ताटक में जगह करे। कल्पना-शक्ति से भूत करे। इस प्र वादी हश्यबंध के प्रतिक्रियाओं के स उसकी अनुभूति क

इस प्रकार ३ अपनी मुद्राओं, ग कि दुश्यन्त मालिन आनन्दित हो रहा घर में चोरी के द है—बारी से कह विक कार्य नहीं कर कार्य होते, घटना

शार्विलक चापर वस्तुयें आधुनिक दर्शकों में कलाना बीणा रखी है, यह मैं एक नर्तक के ध स्थिति मंच पर निय अभिनेता के हृदय पूर्ण कथन और क की भाँति वस्तुसत्य आवश्यकता ही न उदय देना होता था।

इससे यह स्पष्ट बंध की आवश्यकता

हैं, उनमें ई नई बात एकांकी-खानेवाला; जूफ़ पड़ने-करण-कथा नोद और क उपरूपक ग कार्यक्षेत्र सटक' और याँ अभिनय करता था। रण संस्कृत यापक और व्यावहारिक सत्य था। के प्रस्तुति-का नाटक-क क पक्ष को छोड़े भावा-भावात्मक- नहीं रखी शानेवाला; जूफ़ पड़ने-करण-कथा नोद और क उपरूपक ग कार्यक्षेत्र सटक' और याँ अभिनय करता था।

इस 'कार्य' सत्य की भाँति ही स्थान-सत्य की भी बात थी। उदाहरण के लिये यदि पात्र पर्वत पर है, किसी पहाड़ी प्रदेश पर उसके रंग-व्यापार हो रहे हैं, अथवा बाग-उपवन में वह स्थित है, तो मंच पर यह आवश्यक नहीं कि उस देश-सत्य का पूर्ण हश्य-चित्र प्रस्तुत हो—जैसा कि आज यथार्थवादी रंगमंच पर रखा जाता है, वरन् पात्र, और उसकी पात्रता निबाहने वाला अभिनेता उस हश्य-सत्य का कथन करे तथा उसी के अनुरूप वह अपनी किया-प्रक्रिया दे, जिससे कि उसके माथ नाटक देखनेवाला दर्शक उसी किया-प्रतिक्रिया में अपने भाव-जगत में जागलक रहे और दर्शक अपने मानसिक-जगत में अभिनेता के सहारे अपनी कल्पना-शक्ति से अपने-आपको पर्वत, उपत्यका, उद्यान और बाग-उपवन में अनुभूत करे। इस प्रकार संस्कृत नाटकों के प्रस्तुतिकरण में विना किसी यथार्थ-वादी हश्यबंध के अभिनेता के सहज बएंनों, कथनों और तत्स्वरूप मुद्राओं, प्रतिक्रियाओं के सहारे दर्शक नाट्य-सत्य को हृदयंगमकर अपने भावनालोक में उसकी अनुभूति करता रहे।

इस प्रकार 'शाकुन्तलम्' का अभिनेता जो दुश्यन्त की भूमिका कर रहा है, अपनी मुद्राओं, गतियों तथा व्यवहारों से दर्शकों में इस सत्य की अनुभूति करायेगा कि दुश्यन्त मालिनी नदी के तट पर आ गया है और उसकी शीतल वायु से वह आनन्दित हो रहा है। 'मृच्छकटिकम्' में इसी भाँति जब शाविलक चारुदत्त के घर में चोरी के लिये सेव मारता है, तो वह महज इस सत्य का अभिनय करता है—वार्षी से कहकर और उस कार्य का केवल अभिनय प्रस्तुत कर। वह वास्तविक कार्य होते, घटना घटते देखेगा, तो यह उसकी सह-कल्पना कैसे करेगा?

शाविलक चारुदत्त के कक्ष में जब चोरी के लिये प्रवेश करता है तो मंच पर वस्तुये आधुनिक मंच की भाँति वस्तुतः रखी नहीं रहती, अभिनेता केवल दर्शकों में कलना जगाने के लिये उसी उदात्तता से कहता है : 'ओह, यहाँ बीणा रखी है, यहाँ वाँसुरी है, यहाँ मूदंग है। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एक नर्तक के घर में घुस आया।' अतएव संस्कृत रंगमंच में नाटक की सारी स्थिति मंच पर निध्राणा ढंग से नहीं रची जाती, वरन् वह सारी नाट्य-स्थिति अभिनेता के हृदय में संजोयी रहती है। तभी संस्कृत नाटक में इतने कवित्व-पूर्ण कथन और कथनोपकथन की स्थिति रहती है। यदि वह आधुनिक रंगमंच की भाँति वस्तुसत्य स्तर पर होती तो उस तरह के काव्यात्मक कथनों की कोई आवश्यकता ही न थी। मूल उद्देश्य वर्णोंकि दर्शक में उस नाट्य-स्थिति का उदय देना होता था—उसका महज परिचय और ज्ञान नहीं।

इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की हृषि से हश्य-बंध की आवश्यकता नहीं थी। सारी अनुष्ठान-प्रतीकात्मक और आदर्श-

मूलक थी। संगीत का योग नाट्य-अनुष्ठान में आदि से अंत तक होता था। इसमें भी वाद्य-संगीत की प्रधानता थी।

विशेषकर नाटक के आरम्भ में वाद्य-संगीत की बहुत वड़ी प्रथा थी—जिसे पूर्वरंग अथवा नाटक आरम्भ होने के पहले की क्रिया कहते थे। 'पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना दी जाती थी, फिर गायक और वादक लोग रंगभूमि में आकर यथास्थान बैठ जाते थे। 'कोरस' आरम्भ होता था। मृदंग, बेरु, बीणा आदि वाद्य नर्तकों के तूफुर-भंकार के साथ बज उठते थे, और इन कार्यों के बाद नाटक का उत्थापन होता था।'<sup>१</sup>

अभिनय पक्ष में अभिनय और नृत्य दोनों को अलग-अलग देखना कठिन है। इस अभिनय और नृत्य के मंदर्भ में प्रस्तुतिकरण के स्तर से 'नृत्य', 'नृत्त' और 'अभिनय' के कलात्मक प्रयोगार्थ को जान लेना आवश्यक है। 'नृत्य' और 'नृत्त' दोनों में विभिन्नता है। 'नृत्य' में भावों का अनुकरण प्रधान रहता है। इसमें आणिक अभिनय पर बल दिया जाता है और साथ ही इसमें पदार्थ का अभिनय रहता है।

और 'नृत्त' में केवल अंग-विक्षेप होता है। यह अंग-विक्षेप ताल और लय पर आश्रित होता है। 'अभिनय' 'अभिनयति हृदगतभावान् प्रकाशयति' मन के भाव को प्रकट करने वाली आणिक चेष्टाओं द्वारा किसी विषय अथवा व्यक्ति का अनुकरण करके प्रदर्शित करने को कहते हैं। किन्तु इसमें वाद्य कार्य-व्यापार प्रदर्शित करना उतना अभिप्रेत नहीं होता जितना कि मन के भाव को व्यक्त करना इसका प्रधान घर्म है। इसी लिये संस्कृत प्रदर्शन में 'आणिक', 'वाचिक', 'आहार्य' और 'सात्त्विक' अभिनय के इतने अधिक प्रकार और पक्ष हैं। इस प्रकार संस्कृत रंगमंच का 'अभिनय', 'नृत्य' तथा 'नृत्त' को अनन्त में समाहित किये हुये हैं। क्योंकि जहाँ 'नृत्य' में भावों की अभिव्यक्ति है और जहाँ 'नृत्त' में केवल अंग-विक्षेपण होता है, वहाँ अभिनय 'अवस्था' की अभिव्यक्ति के स्तर से रसाधित होने के कारण यह सबसे अधिक सार्वभौमिक और सर्व-ग्राही होता है। संस्कृत रंगमंच में अभिनय की इतनी उदात्त मर्यादा इसी लिये है कि इसी के माध्यम से (वाणी, वस्त्र और भावाभिनय) अभिनेता एक और मूल कथा के व्यक्तियों का आरोपण निभाता है, और इसी ओर अभिनय द्वारा विविध प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति देता हुआ, दर्शकों में उन भावों को जगाता हुआ, सारे नाट्य अनुष्ठान को 'रसनिष्पत्ति' मय करता है।

अभिनय की इस गरिमा के पीछे एक कारण यह भी था कि संस्कृत मंच

१. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदः श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १०२, हिन्दी अनु रूपाकर कायालय, बम्बई।

पर यथार्थवादी हैं यथार्थ का तत्त्व केवल शेष नाट्य-तत्त्व जैसे एकांत प्रभाव संस्कृत 'अभिनय' पर आ, महाबाला होता था, महानहीं। इस तरह संभिन्न तत्त्व और में मंच के अभिनेता

नाट्य-प्रदर्शन संस्कृत नाटक में व दूसरी ओर उसमें 'शाकुन्तलम्' तथा 'आदि से अंत तक है। 'शाकुन्तलम्'

उदाहरण के हृथ्यात्मक दर्शन, हैं, जैसे पाठ के अथवा किसी नृत्य-प्रदर्शन लिये राजा दुष्यन्त उन्हीं में से काव्य जा रही हैं। जर्मी रखी है। प्रतापवंश है। राम दीली दीड़ रहे हैं कि इनके समान लगी हुए घोड़ों ने कान खा बाण चढ़ाता है, का मुग है, इसे

लगता है, विच्ची हुई हुए मुग की छाँ राजा जैसे ही साथ तप्तवी आ

प्रत तक होता था।

डी प्रथा थी—जिसे  
थे। 'हले नगड़ा  
गायक और वादक  
आरम्भ होता था।  
साथ वज उठते थे,

प्रलग देखना कठिन  
तर से 'नृत्य', 'नृत'  
कहे। 'नृत्य' और  
उस प्रधान रहता है।  
ही इसमें पश्चार्य का

वक्षेप ताल और लय  
'प्रकाशयति' मत के  
विषय अथवा व्यक्ति  
इसमें वाह्य कार्य-  
ना कि मन के भाव  
प्रदर्शन में 'आगिक',  
एक प्रकार और पक्ष  
में 'नृत्य' को आगे भी  
व्यक्ति है और जहाँ  
'स्था' की अभिव्यक्ति  
भौमिक और सर्व-  
न मयदा इसी लिये  
अभिनेता एक और  
'ओर अभिनय द्वारा  
में में उन भावों को  
रखता है।

था कि संस्कृत मंच

पुष्ट (११), हिन्दी

पर यथार्थवादी ढंग की न तो साज-सज्जा थी, न कोई विशेष मंच-सामग्री ;  
यथार्थ का तत्त्व केवल वस्त्र-विद्यास और वचन (वाणी) तक ही सीमित था,  
जेष नाट्य-तत्त्व जैसे 'काल' और 'परिस्थिति' के यथार्थवाद से परे थे। इन सबका  
एकांत प्रभाव संस्कृत प्रस्तुतिकरण पर यह था कि रंग-अनुष्ठान का सारा वल  
'अभिनय' पर था, मंच के बाह्य तत्त्व पर नहीं। सारा अनुष्ठान कल्पना जगाने-  
वाला होता था, महज यथार्थ हश्य दिखाकर वहीं का वहीं शान्त कर देने वाला  
नहीं। इस तरह संस्कृत प्रस्तुतिकरण में सामाजिक अथवा दर्शक उसका एक  
अभिन्न तत्त्व और अंग था। दर्शक यहाँ सुक अभिनेता थे, जो अपने हृदय-जगत  
में मंच के अभिनेता से कहीं अधिक भाव और रस के उपभोक्ता थे।

नाट्य-प्रदर्शन के प्रसंग में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, कि  
संस्कृत नाटक में कथन लम्बे, काव्यात्मक, हश्यात्मक, वर्णनात्मक हैं—और  
दूसरी और उसमें 'कार्य', 'गति' और 'मुद्रायें' भी सन्निहित हैं। 'अभिज्ञान  
शाकुन्तलम्' तथा 'मृच्छकटिकम्' इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में  
आदि से अन तक इनके कथन —पाठ्य में वहीं नाट्य-गमित स्थितियाँ विद्यमान  
हैं। 'शाकुन्तलम्' तो इस दिशा में अद्वितीय है।

उदाहरण के लिये 'शाकुन्तलम्' का पहला हश्य जहाँ कार्य, गति और  
हश्यात्मक वर्णन, तीनों तत्त्व परस्पर सम्मिलित हैं। यहाँ के कथनोपकथन ऐसे  
हैं, जैसे पाठ के अतिरिक्त ये रंग निर्देशन भी हैं। इनके शिल्प से लगता है, जैसे  
ये किसी नृत्य-प्रदर्शन के खचित भाव-चित्र हैं। रथ पर सवार हाथ में घनुष  
लिये राजा दुष्यल और सारथि से बातें (कथनोपकथन) हो रही हैं। और  
उन्हीं में से काव्य के अतिरिक्त हश्यात्मक वर्णन, गति, कार्य और मुद्रायें खिचती  
जा रही हैं। जमीन ऊँची-नीची है, इसलिये सारथि ने घोड़ों की बागडोर खींच  
रखी है। अतएव रथ का बेग कम हो गया है। इसी लिये मृग दूर निकल गया  
है। राम ढीली करता है सारथि। रथ तेज हो जाता है। घोड़े इतने बेग से  
दौड़ रहे हैं कि अपने ही पैरों से उड़ती हुई धूल से भी बे आगे रहते हैं। चमर  
के समान लगी हुई उनके मस्तक की कलगी तनिक भी नहीं हिलती-हुलती और  
घोड़ों ने कान खड़े कर लिये हैं। मृग विलकुल नजदीक आ गया है। राजा  
बाण चढ़ाता है, उसी समय नेपथ्य से आवाज आती है—'हे राजन्, यह आश्रम  
का मृग है, इसे मत मारो, इसे मत मारो।'

लगता है, यह सब कथनोपकथन नहीं, साक्षात् प्रदर्शन का पूरा का पूरा चित्र  
है। जिची हुई रतनारी आँखों में (अभिनेता के) दौड़ते हुये तथा पास खिचते  
हुए मृग की ओर उभर आयी है। राम जिची हुई है। रथ हिल रहा है।  
राजा जैसे ही बाण चलाना चाहता है, कि आश्रम के भीतर से एक शिष्य के  
साथ तपस्वी आकर बीच में खड़ा हो जाता है। और इस तरह इस छोटी-सी

कथा, कार्य को चरमसीमा प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी संगीत के अलाप को सम भिल जाय, जैसे कोई वृत्त्य, करण और अंगहार से पूर्ण होकर एक विन्दु पर सम्पूर्ण हो जाय।

यहाँ शब्द और गति-प्रचार दोनों एकान्वित हो गये हैं।

पुरे प्रथम अंक के कथनों में कार्य और गति का मानो चल-चित्र पूर्ण होता है—मंच-दृश्य और अभिनय दोनों आयामों से। प्रदर्शन-पद्धति में कथन, कार्य और गति इन तीनों की परस्पर अन्वित संस्कृत-नाटक की पहली विशेषता है।

‘शाकुन्तलम्’ के चतुर्थ अंक में प्रदर्शन-पद्धति का एक दूसरा मुख्य तत्त्व उल्लेखनीय है। यहाँ दृश्य है, स्थिति में, पूजा के बे क्षण, जब शकुन्तला दुल्हन के हृष में आधम से विदा ले रही है। एक नये कार्य का शुभारम्भ है यहाँ। वह आश्रम-कन्या से अब पत्नीत्व को ओर जा रही है। वह जड़-वेतन, पञ्च-पक्षी और मानव सब को विदा दे रही है। मंच पर परिकल्पित सामग्री, रंग-वस्तु को अभिनय द्वारा शकुन्तला सम्प्रेषित कर रही है।



संस्कृत मंच पर निश्चय ही धरातल होते थे। इन धरातलों के अतिरिक्त मत्तवारिणी के सामने अलग-अलग दृश्यों की भी योजना होती थी। इस मंचीय विशेषता से आगे प्रदर्शन का अन्य तत्व आता है—कार्य और दृश्य का क्रमिक रूप, और दूसरे दृश्यों और अनुक्रम की ऐसी स्वतन्त्र व्यवस्था जो एक-दूसरे से अलग और पूर्ण हों तथा अन्ततोगत्वा उसी एक कार्य अथवा अंक के अंगी हों।

‘मृच्छकटिकम्’ में इस पद्धति का एक मुन्द्ररत्म उदाहरण है। पहले अंक में हम देखते हैं कि चारूदत्त अपने घर में विदूषक के संग बातें कर रहा है। महसा कार्य का क्षेत्र, अथवा दृश्य बदलता है सड़क पर जहाँ संस्थानक बसंत-सेना का पीछा कर रहा है। यह कार्य-दृश्य पूरे विस्तार में चलता है। और जब यह अनुक्रम समाप्त होता है, तब कार्य या दृश्य फिर वहाँ पीछे लौटता है, यहाँ चारूदत्त अपने विदूषक के संग बातें कर रहा है। यह बात वहाँ से फिर युरु होती है, जहाँ से थम गयी थी। ‘मृच्छकटिकम्’ में यह रंग-पद्धति पूरे नाटक में बार-बार व्यवहृत हुई है। इस पद्धति की चरम सीमा है, ‘न्याय’ और ‘वध’ दृश्य में, अर्थात् पूरे नौवें और दसवें अंकों में—समान रूप से। मंच पर अनेक धरातलोंवाली प्रदर्शन-पद्धति इसी रंग-प्रकृति का एकमात्र फल है।

अनेक, विविध धरातली मंच की एक अन्य बात भी यहाँ उल्लेखनीय है। यह धरातली मंच काल की अपेक्षा ‘स्थान’ से अधिक सम्बद्ध है। जैसे ‘मृच्छकटिकम्’ के चौथे अंक में, जहाँ एक ओर (धरातल पर) बसंतसेना खिड़की से



की भूमिका

अलाप को  
किन्तु पर

पूर्ण होता  
कथन, कार्य  
वशेषता है।

मुख्य तत्व  
तला दुल्हन  
म है यहाँ।  
चेतन, पशु-

मग्नी, रंग-

अतिरिक्त  
इस मंचीय  
का क्रिक  
क-दूसरे से  
श्रंगी हों।

पहले अंक  
रहा है।

नक बसंत-  
है। और  
लौटा है,  
ही से फिर

पूरे नाटक  
और 'व्व'  
पर अनेक

वनीय है।  
से 'मृच्छ-  
खिड़की से




गंगाकृत राधमच प्रस्तुति करण पश्च, पुर्व राग; सुदधार  
दन्दछ ज हाथ में लिये रहा है। नीचे नट-नटी पूजा  
करते हुए। पीछे मंगल-घट के साथ हसरा नट।



मुकुट के माथ

देखती हुई शा  
स्वभावतः बीतत  
उनकी बातों पर  
विराम नहीं आ  
अंक में आया है  
की बातों में 'क  
मंच का, इ  
नाटक को प्रदर्शि  
के 'स्थाय' दृश्य  
घर। ठीक इस  
वह कुछ ही क्षण  
अंक की परिकलि  
साथ इमशान-भू



नोकवर्मी परम्परा के पात्र सुगीव की वेश-भूपा। मुखोटे के  
साथ अतिरिजित रूप-मञ्जा का सत्य प्रकट है।

अदृश्य और न

संस्कृत ना  
देखता और सुन  
सुनना होता है  
भी महत्वपूर्ण  
दर्शक नाटक के  
प्रसंग प्राप्त कर

मंच हर अ  
संस्कृत-नाट्य में  
कितना होता है  
यही नेपथ्य तर  
और असीम में

इसी असीम  
पूर्व ही दर्शक क  
रूप से प्रकट है  
उसका प्राण उ



भास के मध्यम ध्यायोग  
के दो पात्र

### संस्कृत-रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

देखती हुई शार्वलिक और मदनिका की गुप्त बात सुनती रहती है। समय स्वभावतः बीतता जा रहा है, और वह स्वगत कथन—बल्कि 'जननितक' में उनकी बातों पर अपनी टिप्पणी भी दे देती है—इस तरह इस दृश्य में कोई विराम नहीं आता, कोई अस्वाभाविक ठहराव नहीं आता—जैसे कि इसके पहले अंक में आया है। जबकि समय बीच में बीत गया है, पर चालूदत्त और विदूषक की वार्ता में 'काल' का कोई व्यवधान नहीं दिखता।

मंच का, अभिनय-क्षेत्र (रंगपीठ) का अलग-अलग स्वतंत्र भागों में बाँटकर नाटक को प्रदर्शित करना भी इस प्रसंग में एक और तत्त्व है। जैसे 'मृच्छकटिकम्' के 'न्याय' दृश्य में मंच का एक भाग न्यायालय है, और इसरा भाग चालूदत्त का घर। ठीक इसी तरह वसंतसेना की चालूदत्त की कौसी की सूचना मिलते ही वह कुछ ही क्षणों में शमशान-भूमि पर (दृश्य में) रहूँच जाती है। और (पहले अंक की परिकल्पित) खिड़की से इस दसवें अंक में—जबकि चालूदत्त भीड़ के साथ शमशान-भूमि में ले जाया जा रहा है, स्थावरक उसी बीच झूट पड़ता है।

### अदृश्य और नेपथ्य

संस्कृत नाट्य-प्रदर्शन में और इसकी रचना-पद्धति में दर्शक जितना प्रत्यक्ष देखता और सुनता है, उससे कहीं अधिक उसे अदृश्य में देखना और नेपथ्य से सुनना होता है। इसी संदर्भ में 'कान में कहना', 'ग्रस्कृट स्वर में कथन' यह भी महत्वपूर्ण है, जिसे दर्शक-वर्ग सुन नहीं पाता, पर समझता खूब है। क्योंकि दर्शक नाटक के विषय में, चरित्र के बारे में सारी अपेक्षित सूचनायें और अर्थ-प्रसंग प्राप्त कर चुका होता है।

मंच हर अदृश्य तत्त्व में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। संभवतः इसी लिये संस्कृत-नाट्य में बहुत कुछ नेपथ्य में घटता है और पूर्ण होता है। पर्दे के पीछे कितना होता है, यह जीवन-दर्शन की भी बात है, पर प्रदर्शन-संदर्भ में 'रंग' को यही नेपथ्य तत्त्व असीम क्षेत्र और बोध देता है। मन कल्पना करने लगता है और असीम में उसकी अवधारणा प्रकट होने लगती है।

इसी असीम और विस्तार के हेतु, इसी अवाधता के लिये चरित्र, प्रवेश के पूर्व ही दर्शक को सुनायी देने लगता है। अर्थात् संस्कृत नाटक का चरित्र भौतिक रूप से प्रकट होने के पूर्व मानसिक रूप से दिखाई पड़ता है। उसकी आत्मा—उसका प्राण उसके शरीर से आगे बढ़ जाता है।

### संस्कृत-रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

देखती हुई शावंलिक और मदनिका की गुप्त बात सुनती रहती है। समय स्वभावतः बीतता जा रहा है, और वह स्वगत कथन—बल्कि 'जनान्तिक' में उनकी बातों पर अपनी टिप्पणी भी दे देती है—इस तरह इस दृश्य में कोई विराम नहीं आता, कोई अस्वाभाविक ठहराव नहीं आता—जैसे कि इसके पहले अंक में आया है। जबकि समय बीच में बीत गया है, पर चारूदत्त और विदृष्टक की वार्ता में 'काल' का कोई व्यवधान नहीं दिखता।

मंच का, अभिनय-क्षेत्र (रंगपीठ) का अलग-अलग स्वतन्त्र भागों में बाँटकर नाटक को प्रदर्शित करना भी इस प्रसंग में एक और तत्त्व है। जैसे 'मृच्छकटिकम्' के 'न्याय' दृश्य में मंच का एक भाग न्यायालय है, और इससे भाग चारूदत्त का घर। ठीक इसी तरह वसंतसेना को चारूदत्त की काँसी की सूचना मिलते ही वह कुछ ही क्षणों में ईमानान-भूमि पर (दृश्य में) रहें जाती है। और (पहले अंक की परिकल्पना) खिड़की से इस दसवें अंक में—जबकि चारूदत्त भीड़ के साथ ईमानान-भूमि में ले जाया जा रहा है, स्थावरक उसी बीच कूद पड़ता है।

### अदृश्य और नेपथ्य

संस्कृत नाट्य-प्रदर्शन में और इसकी रचना-पद्धति में दर्शक जितना प्रत्यक्ष देखता और सुनता है, उससे कहीं अधिक उसे अदृश्य में देखना और नेपथ्य से सुनना होता है। इसी संदर्भ में 'कान में कहना', 'ग्रस्कृट स्वर में कथन' यह भी महत्वपूर्ण है, जिसे दर्शक-वर्ग सुन नहीं पाता, पर समझता खूब है। क्योंकि दर्शक नाटक के विषय में, चरित्र के बारे में सारी अपेक्षित सूचनायें और अर्थ-प्रसंग प्राप्त कर चुका होता है।

मंच हर अदृश्य तत्व में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। संभवतः इसी लिये संस्कृत-नाट्य में बहुत कुछ नेपथ्य में घटता है और पूर्ण होता है। पर्दे के पीछे कितना होता है, यह जीवन-दर्शन की भी बात है, पर प्रदर्शन-संदर्भ में 'रंग' को यही नेपथ्य तत्व असीम क्षेत्र और बोब देता है। मन कल्पना करने लगता है और असीम में उसकी अवधारणा प्रकट होने लगती है।

इसी असीम और विस्तार के हेतु, इसी अवाधता के लिये चरित्र, प्रवेश के पूर्व ही दर्शक को सुनायी देने लगता है। अर्थात् संस्कृत नाटक का चरित्र भौतिक रूप से प्रकट होने के पूर्व मानसिक रूप से दिखाई पड़ता है। उसकी आत्मा—उसका प्राण उसके शरीर से आगे बढ़ जाता है।

## मूर्छा

संस्कृत नाटक में, विशेषकर इसके प्रदर्शन-तत्वों में जहाँ भाव सम्प्रेषणीयता के स्तर पर कठोर संयम की अपेक्षा पड़ती है वहाँ गहन भावुकता के क्षणों में परम निर्वलता भी प्रकट होती है। संयम और भावुकता इन दोनों का अजब कलात्मक संयम है यहाँ। 'मूर्छा' इसी का एक उदाहरण है। प्रदर्शन के तत्वों में जहाँ नृत्य, भुजा, करण और अभिनन्दन प्रमुख हैं, वहाँ भावुकता के क्षण का अभिनय विशेष गहन है।

मूर्छा जीवन की अपेक्षा संस्कृत-नाट्य में अधिक पाई जाती है। मूर्छा प्रायः सभी थेट नाटकों में विद्यमान है। 'भास', 'शूद्रक', 'कालिदास' और 'भवभूति' में विशेषकर। 'मृच्छकटिकम्' में चारुदत्त के आभूषणों की चोरी हो जाती है, इसकी सूचना से वह मूर्छित होता है। यही सूचना जब वसंतसेना को मिलती है, तो वह भी मूर्छित हो उठती है—साथ ही उसकी दासी मदनिका भी।

'उत्तररामचरितम्' में मूर्छा-दृश्य, उपकरणों की चरम सीमा के रूप में वहुत ही कलात्मक ढंग से व्यवहृत हुआ है। इस तरह से सीलहृ स्थल हैं मूर्छा के 'उत्तररामचरितम्' में—सीता सात बार, राम चार बार, उनके सेवक दो बार, कौशल्या एक बार, सीता की माँ पृथ्वी एक बार और एक बार पूरी सेना की मूर्छा।

वस्तुतः मूर्छा आँखों के ही लिये नहीं, बरन् यह मन-प्राण के लिये भी एक दृश्य है। मूर्छा की स्थिति स्वभावतः वही आती है, जहाँ शब्द और कार्य अपनी सीमा में अधूरे रह जाते हैं, और उनकी जगह को जहाँ अभिनन्दन और नृत्य-रचना के ये तत्त्व पूरे करते हैं।

संस्कृत रंगमंच जहाँ एक और गहन काव्य-तत्वों से परिपूर्ण था, वहाँ यह नृत्य-रचना के कला-तत्त्वों से रचित था। ध्वण और नयन इन दोनों शक्तियों, और वृत्तियों को आनन्द देनेवाला।

नाट्य-प्रदर्शन का आदि और अंत पूजा के क्षण हैं—प्रार्थना के स्वर से पूरित सम्पूर्ण 'नाट्य' को एक आध्यात्मिक स्तर—रूप देनेवाला। मंच के अभिनेता, निर्देशक, सूत्रधार, रंग-शिल्पी, दर्शक-बादक, गायक, नर्तक और दृश्य-अदृश्य सभी शक्तियाँ अंत में एकाकार हो प्रार्थना करती हैं—सबके शुभ के लिये, सब की शान्ति, कल्याण और आनन्द के लिये।

## नाटक तथा अभिनन्दन

संस्कृत 'नाट्य' शब्द में नृत्य और नाटक दोनों ही भाव समाविष्ट हैं।

और नाटक की प्रस्तुतिकरण कला में संगीत, नृत्य, कार्य-व्यापार और कविता इन सबका समन्वित अवतरण नाटक की उपस्थापन-कला है।

भाव सम्प्रेषणीयता भावुकता के क्षणों में इन दोनों का अजब देखा जाता है। प्रदर्शन के तत्वों भावुकता के क्षण का अधिकारी है। मूर्छा प्रायः 'स' और 'भवभूति' चोरी हो जाती है, संतरेसना को घिलती पदनिका भी।

'मा' के रूप में बहुत देखा जाता है, मूर्छा के 'उत्तर-क' दो वार, कौशल्या दो सेना की मूर्छा। एक के लिये भी एक द और कार्य अपनी अनन्दन और नृत्य-

रंगपूर्ण था, वहाँ यह इन दोनों शक्तियों, ग्राथना के स्वर से देनेवाला। मंच के नंतक और दृश्य-हैं—सबके बुझ के बाव समाविष्ट हैं।

प्राचीन अभिनय का मूलधार रूप 'नट' शब्द में व्यंजित है। 'नट' शब्द का अर्थ उस काल में व्यायाम है और वैदिक साहित्य में हमें इससे अन्त्येष्टि-किया के नृत्य तथा नाटक से सम्बद्ध होने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर राघवन का इस सम्बन्ध में यह विचार है कि 'दाह-किया विविधों की समाप्ति पर हमारे पूर्वज नृत्य अथवा शारीरिक व्यायाम तथा नृत्य और हास द्वारा मनोरंजन करते थे। इसकी साध्य में उन्होंने वाली देश के नाटकों के अभिनय काल को प्रस्तुत किया है।' वाली में नाटकों का अभिनय उस क्रतु में किया जाता है, जब पूर्वजों की आत्माओं का उनके पूर्व शहों में आने का अनुमान होता है। ऐसे अवसरों पर शारीरिक व्यायाम, कुछ तथा असि-चालन आदि के प्रदर्शन हुआ करते थे।

इसी संदर्भ में अभिनय के स्तर पर भरत ने अनुकरण के अनेक संस्थानों, गतियों एवं कार्य-प्रणालियों में एक सी आठ गिनाये हैं, जिनमें से अनेक नट-विषयक प्रकृति के हैं और उनका मंच पर अनुष्ठान अति कठिन है। कुछ वे हैं जिन्हें वृत्तियाँ, न्याय अथवा प्रतिकार कहते हैं, और कुछ शस्त्र-ग्रहण तथा संचालन की विविधों एवं गतियों तथा पूर्वाभिनय के स्थानों का संकेत करते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि 'नट' (इसी प्रकार 'रंग' शब्द भी) क्रीड़ा-क्षेत्र तथा नाटकीय रंगमंच दोनों के लिये है।

प्राचीन नाटक के चार तत्व हैं—जिन्हें 'नाट्याग' भी कहते हैं :

- पाठ्य
- रीति
- अभिनय
- रस

(मंच) नाटक में इन्हें उपस्थापित करने के लिये चार व्यापार होते हैं, जिन्हें वृत्तियाँ कहते हैं। ये व्यापार निश्चय ही अभिनय अथवा अभिनेताओं के व्यापार हैं।

- भारती
- सात्वती
- आरभटी
- कौशिकी।

इन चारों वृत्तियों में भारती वृत्ति सर्वप्रमुख है। भारती मुख्यतः अभिव्यजना की मौखिक प्रणाली का नाम है। नाटक में वे सभी स्थल, जहाँ कथोपकथन प्रमुख होता है और नाटक के वे समस्त निर्दर्शन जो एक मात्र मौखिक माध्यम

से विकसित होते हैं, इसी भारती वृत्ति के उद्भावक होते हैं। भरत द्वारा वर्णित इस प्रकार के रूपकों में से तीन का सम्बन्ध इस मौखिक समूह से ही है—

स्वगत भाषण जिसे 'भाग' कहते हैं 'प्रहसन' और 'वीथी' जिनमें दो व्यक्तियों का 'शाब्दिक वाच्मन्य' रहता है। इस प्रकार 'भारती' वाराणी के व्यापार को—अर्थात् वाराणी का अभिनय कहते हैं।

'सात्वती' मानसिक व्यापार के अभिनय को कहते हैं। नाट्य-धर्मी परम्परा के नाटकों तथा उनके उपस्थापन में इस वृत्ति का महत्व अत्यधिक है।

'कौशिकी' नर्तन को कहते हैं—विशुद्ध नृत्य-व्यापार।

प्राचीन नाटक के अभिनय में इस 'कौशिकी वृत्ति' को भरत ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। कथा है, कि जब ब्रह्मा ने इस पंचम वेद (नाट्य-शास्त्र) को अपने सौ भरत-पुत्रों को 'नाट्य' करने के लिये उपदेश दिया, तब वह किर भी सफल नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने चौबीस आसराओं को जन्म दिया, किर वह 'नाट्य' कौशिकी वृत्ति की पूर्णता से सफल हुआ।

विशुद्ध उपस्थापन की हार्ट से संस्कृत नाटक में हस्यात्मक विद्यान इतना नहीं हुआ करता था—जितना आज आधुनिक रंगमंच पर है। रंगमंचीय तत्वों का योग निश्चय ही कम से कम था। इसकी पूर्ति संस्कृत-रंगमंच में आंतरिक कार्य-स्रोतों के स्तर से होती थी, जो स्वयं उस रंगमंच को कला की श्रेष्ठता प्रदान करते थे।

नाट्य परिस्थिति को भाषण, कथोपकथन तथा गीतों द्वारा सम्प्रेषित किया जाता था। कथावस्तु के विकास-क्रम के लिये, जिनका आधार छोटे-छोटे रंग-कार्य और मंच-व्यापार होते थे, (इनकी स्थापना नाटकार के संक्षिप्त मंच-निर्देशों के आधार से जिन्हें 'परिक्रमा' कहते हैं) इनकी प्रतिष्ठा उत्कृष्ट अभिनय से होती थी। संस्कृत-रंगमंच में यह निर्देश 'कक्ष्या विभाग' नामक रंग-रूढ़ि से सम्बद्ध है। इसके अनुसार मंच के कुछ भाग पर्वत, नदी, उद्यान, राज-पथ आदि के प्रतिनिधि हश्य-रूप समझे जाते थे। अभिनेता नाटक विकास-पथ पर इन परिकल्पित कक्ष्याओं में परिक्रमा करके सहज ही यह मनभावन करा देता था कि पात्र अपने उद्देश्य के लिये क्षण-भर में कहाँ से कहाँ चला गया। इसके साथ निश्चय ही संगीत-काव्यमय कथोपकथन का योग रहता था।

इसी प्रकार मंच पर अर्च, हिरन, रथ आदि नहीं लाये जाते थे, किन्तु उसके लिये आंगिक अभिनय तथा चित्राभिनय द्वारा उपयुक्त कलात्मक रंग-क्रियायें की जाती थीं जो आश्चर्यजनक सफल प्रभाव उत्पन्न करती थीं। इस तरह की

रंग-क्रिया  
तथा उ  
रंगमंच  
आंगिक  
कर सक  
था, नौ  
कृतियों  
हुआ है  
नट-मुद्रा  
सीचना  
'रसनिष्ठ  
संकेतों  
और प्रेश  
'रंगरेज  
के लिए  
'मुच्छक  
क्योंकि  
में यस्कृ  
लोकधर्म  
धर्मी रू  
शास्त्र व  
आध्यात्म  
उपस्थाप  
इतिवृत्त  
पुण्य है,  
सारी उ  
स्थितियें  
अभिनय  
परम्परा  
और  
सामाजिक  
चरित्रों  
पुण्याश्रय

रंग-क्रियाओं तथा अभिनय-शैली के पीछे दर्शक के मन में कल्पना-वृत्ति के उदय तथा उसके आधार से रस-भावना का दर्शन छिपा हुआ था। तभी संस्कृत रंगमंच के दर्शक को 'रंगरंजक' और 'रसरंजक' कहा गया है। स्वाभावतः आंगिक अभिनय द्वारा अभिनेता अश्व अथवा रथ पर चढ़कर उनका संचालन कर सकता था। मंच के उद्यान में पुष्प और पौधों को जल से सीच सकता था, नौका-विहार कर सकता था। 'शकुन्तला' आदि संस्कृत की श्रेष्ठ नाट्य-कृतियों में विभिन्न कार्य-व्यापार के लिए तभी, 'नाट्येन अवतारयति' रंग-निर्देश हुआ है। दुष्प्रत के रथ, बोडे और उसका वेग प्रस्तुत करने के लिए विशुद्ध नट-मुद्रा से 'रथवेण सूचयित्वा' करता है। इसी प्रकार शकुन्तला द्वारा वृक्ष का सीचना वास्तविक सिन्धन न होकर 'वृक्ष सीचनं नाटयति' है। इसका रहस्य है 'रसनिष्ठ' का उद्देश्य। मुद्राओं, नृत्यवत् गतियों, संगीतमय वातावरण, कलात्मक मंकेतों से दर्शकों में घनी कल्पना जागती है। उनमें स्वयं ऐसी सज्जनशक्ति और प्रेक्षणीयता उद्दित होती है कि वे नाटक के माथ परिस्थित होकर सचमुच 'रंगरंजक' हो जाने हैं।

किन्तु अभिनय और उपस्थापन की यह शैली विशेषकर नाट्यधर्मी 'नाटक' के लिए है। इससे विभिन्न, 'प्रकरण' के लिए जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 'मृच्छकाटिकम्' है, अभिनय और उपस्थापन की शैली यहाँ दूसरी कोटि की है। क्योंकि नाटक और प्रकरण की नाट्य-व्यमिताओं में कुछ अन्तर है। इस प्रसंग में संस्कृत रंगमंच की बही दी प्रतिनिधि नाट्य-व्यमितायें, नाट्यधर्मी और लोकवर्मी अति उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः संस्कृत के समस्त प्रतिनिधि नाटक नाट्य-व्यमी रुद्धियों के ही उदाहरण हैं, और उनमें 'शाकुन्तलम्' सर्वश्रेष्ठ है। नाट्य-वास्त्र का अभिनय-विधियों का अध्याय (३६ वाँ) इन्हीं नाट्य-व्यमी रुद्धियों का अध्याय है। निश्चय ही जिस नाट्य-व्यमिता की नाट्य-कृति होगी, स्वभावतः उपस्थापक को उसी शैली में नाटक का सारा अनुष्ठान करना होगा। अर्थात् यदि इतिवृत्त लोक-विस्थात है, विषय उदात्त प्रेम है, पात्र देवता अथवा प्रसिद्ध राज-पुरुष है, रस शृंगार है, तो मंच-सज्जा रंगशिल्प से लेकर अभिनय-शैली तक सारी उपस्थापना संगीत, नृत्यवत् गतियों, कलामय भंगिमाओं, और काव्यमय स्थितियों के निर्माण के ही भीतर की जाती है। उपस्थापन की यह शैली और अभिनय का आंगिक रूप, कलागत संचार, नृत्यवत् गतियाँ, संक्षेप में नाट्यव्यमी परम्परा के अनुकूल हैं।

और यदि नाट्य-कृति प्रकरण है—अर्थात् यदि उसकी कथा, वर्ण-विषय, सामाजिक है, चरित्र, यथार्थ समाज से लिये यवे हैं, उसमें विभिन्न सामाजिक चरित्रों के अनुकूल विभिन्न भाषायें, बोलियाँ—'स्वभावाभिनयोपतं नानास्त्री-पुरुषाश्रयम्, यदीहशं भवेनाट्यं लोकवर्मीं तु सा स्मृता' हैं : घटनायें-कार्य-

व्यापार अधिक है तो यह सब अपने प्रस्तुतिकरण के लिये अनुकरणवादी शैली की अपेक्षा करती है—और यही संक्षेप में 'लोकधर्मी' परम्परा के अन्तर्गत है। अर्थात् इस प्रकारण के उपस्थापन में नकल, अभिनन्दन अधिक होगा, मुद्राओं, वृत्त्यवत् गतियों और कलात्मक संकेतों का अपेक्षाकृत अभाव होगा। जो सत्य, नाट्य-स्थिति में इस प्रकार 'नाट्यधर्मी' में अभिनय, मुद्रा और कलागत प्रतीक और संकेत से व्यक्त किया जायेगा, वही 'लोकधर्मी' में यथार्थ वस्तु अथवा उसकी नकल से प्रस्तुत होगा। उदाहरण के लिये 'मृच्छकटिकम्' में वास्तविक गाड़ी की नकल की अपेक्षा है, जबकि 'शाकुन्तलम्' में दुष्यन्त के रथ, उसके वेग के लिये मात्र-अभिनय की शेष मुद्रायें और गतियाँ आवश्यक हैं।

इस प्रकार 'शाकुन्तलम्' का अभिनेता वाचिक और आंगिक अभिनय तथा कक्ष्याविभाग से संयुक्त मंच पर अपने देश-काल और परिस्थिति तथा उसके मंच-रूप का पूर्ण बोध प्रेक्षक को करता है। ठीक मूल 'शेषपियर' मंचरूप की भाँति दर्शक की कलाना-शक्ति जगानेवाला।

अभिनय के इस विशुद्ध कलात्मक रूप के अतिरिक्त रंगपीठ पर पर्दों अथवा रुद्धियों द्वारा विभिन्न कथयों अथवा 'कोष्ठकों' का जो निर्माण होता था, उसमें इसी नाट्यधर्मी अभिनय शैली से उन विभिन्न कोष्ठकों—अर्थात् देश-स्थान का बोध काव्यात्मक गति-प्रचार से, उसके अनुरूप 'रूपायति' करके होता है। जैसे 'शाकुन्तलम्' के प्रथम अंक में एक ही रंगपीठ पर, वही एक और रथ पर चढ़े हुए दुष्यन्त का मृग का पीछा करना, और वहीं गति-प्रचार से कण्व कृष्ण के आश्रम में पहुँच जाना, फिर वहीं से आगे शकुन्तला को उपवन के पौधों को सीचते पा जाना। इसी प्रकार 'मृच्छकटिकम्' के दशम अंक के नाट्य-व्यापार और रंग-स्थान की उपस्थापना के लिये यही अभिनय अपेक्षित है। समूचे संस्कृत नाट्य-साहित्य में 'मृच्छकटिकम्' में नाट्य-धर्मी और लोक-धर्मी दोनों परम्पराओं का समन्वय है। फिर 'मृच्छकटिकम्' के चौथे अंक में चेटी और विदूषक के अनुक्रम में, जहाँ वसंतसेना के विशाल-भवन में चेटी विदूषक को क्रमशः प्रथम कोष्ठक (कक्ष्याविभाग) से त्राठ कोष्ठकों तथा उसे एक ही रंगपीठ पर प्रवेश करती हुई, उसे भवन की सारी शोभा दिखाती हुई ले आती है।

### रंगमंच का अभिनय पक्ष

संस्कृत रंगमंच का सारा बल उसके अभिनय-पक्ष पर है। अभिनय के

संस्कृत-राम  
माध्यम ये  
दर्शकों को  
रूपितकर  
मंच अभिनय  
था दर्शकों का  
आधुनि

पर संस्कृत र  
अनुल और  
पश्चिम  
करणामूलक  
सिद्धान्त के  
का अभिनय  
होते हैं। ठी  
अभिनेता में  
बयोंकि वे अ  
इसी के आध  
करना। हम  
इसका रूप-वि  
और प्रकृति

नाट्य-श  
आठवें अध्या  
इसी से संस्कृ  
आठवें अध्या  
शास्त्र दिया  
वर्णन दिया है  
अध्याय में हस  
कटि) के द्वारा  
का नाम 'मंड

नुकरणावादी शैली  
के अन्तर्गत है।  
क होगा, मुद्राओं,  
होगा। जो सत्य,  
कलागत प्रतीक  
स्तु अथवा उसकी  
सत्त्विक गाड़ी की  
सके देग के लिये

क अभिनय तथा  
थति तथा उसके  
पियर' मंचरूप

पर पर्दे अथवा  
होता था, उसमें  
देश-स्थान का  
होता है। जैसे  
और रथ पर चढ़े  
से कष्ण ऋषि  
न के पौधों को  
नाट्य-शापार

। समूचे संस्कृत  
दोनों परम्प-  
और विद्युपक  
क्रमशः प्रथम  
पारी पर प्रवेश

। अभिनय के

माध्यम से मंचबोध, देय-काल परिस्थिति का अभिज्ञान तथा उन्हीं के सहारे दर्शकों को नाटक के पात्रों तथा भावों से साधारणीकरण का कार्य, उन्हें परिरूपितकर कल्पना-लोक में ले जाने का धर्म—इतनी मर्यादा है संस्कृत रंग-मंच अभिनय की। कारण यह कि संस्कृत नाटक और रंगमंच का चरम उद्देश्य वा दर्शकों को लोकोत्तर आनन्द देने, अर्थात् रसानुभूति कराने का धर्म।

आधुनिक रंगमंच की अभिनय-कला के केवल तीन माध्यम हैं :

- वार्गी, वाक्यक्ति
- गति-प्रचार
- मुद्रा

पर संस्कृत रंगमंच में अभिनय की मर्यादा, व्यापकता और गहराई की इटि से अनुल और अनुपम है।

पठितम से प्राप्त आधुनिक रंगमंच में 'अनुकरण' के आधार पर केवल अनुकरणमूलक अभिनय-स्तर को लोग प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु भारत में रस-मिठान्त के स्तर से भरत ने कहा है : 'आत्माभिनयनं भावो' (२६-३६) आत्मा का अभिनय भाव है। 'भाव' ही आत्म-चैतन्य में विश्वान्ति पा जाने पर 'रस' होते हैं। ठीक इसके विपरीत 'प्लेटो' ने अभिनय को अनुकरणमूलक मानते हुए अभिनेता में स्वभावतः चरित्र-हीनता आदि सीमाओं को स्वीकार किया है—क्योंकि वे धर्म-धरण में अनुकरणशील होते हैं। सत्य को नहीं ग्रहण कर पाते। इसी के आधार पर आधुनिक रंगमंच में 'एक्टिंग' है—पात्रों के अनुरूप कार्य करना। हमारे यहाँ अभिनय है—मन के भावों में अनुभूत करानेवाला। तभी इसका हृष-विस्तार बाहर से अधिक भीतर उतारने वाला है, और मानव-मन और प्रकृति की समस्त वृत्तियों और रीतियों को समेटकर लाने वाला है।

नाट्य-शास्त्र में अभिनय-शास्त्र की मर्यादा और नियमों के प्रतिपादन में आठवें अध्याय से लेकर उन्नीसवें अध्याय तक कुल बाहु अध्याय हैं। वस्तुतः इसी से संस्कृत रंगमंच में अभिनय की विराटता का अनुमान लग जाता है। आठवें अध्याय में आणिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक अभिनयों का पूरा शास्त्र दिया गया है। इसमें हृष्टि-अभिनय के ऊपर भरत ने जितना मार्मिक वर्णन दिया है, वह अद्वितीय है। हृष्टि को अभिनय की आत्मा माना है। नवें अध्याय में हस्ताभिनय (उपांगाभिनय) का वर्णन, चरणों (पाद, जंघा, उरु और कटि) के द्वारा जो अभिनय संभव है, उन्हें 'चारी' कहा जाता है। ग्यारहवें अध्याय का नाम 'मंडल-विवान' है। चारियों के संयोग से विविध मंडलों की उत्पत्ति

होती है। बारहवें अध्याय में गति-प्रचार का शास्त्र है। किस रस के नाटक में किस प्रकार की गति होनी चाहिये, किस प्रकार की प्रकृति के अनुहा कैसी गति हो—इस प्रकार विभिन्न गति-भेदों-प्रकारों का यहाँ उल्लेख है। किर स्त्री-पुरुष के दैठने-उठने की भी अभिनय-विधि बतायी जाती है। चौदह में लेकर उन्नीसवें अध्याय तक वाचिक अभिनय का वर्णन है। निश्चय ही यह भारतीय नाट्य अभिनय-कला का अद्भुत विनाट् भंडार है।

पर इस विराट अभिनय-शास्त्र का व्यवहार उस काल के रंगमंच में क्या था—यह आज मूल प्रृथक है। बस्तुतः इसका व्यवहार-चित्र अथवा इस अभिनय-शास्त्र का मूर्ति-चित्र संस्कृतनाट्य वृत्तियों में स्पष्टतः उपलब्ध है। रंगमंच के विद्यार्थी के लिये संस्कृत रंगमंच की अभिनय-कला, नाट्य-वृत्तियों में जैसे सजीव चित्रों की तरह वाँछकर रखी गयी है। इस संदर्भ में संस्कृत नाटक को उसके रंगमंच की हापिट से पढ़कर ऐसा लगता है कि नाट्य-कृति रूपी समृद्ध में उसका व्यावहारिक रंगमंच, उसमें परिव्याप्त अतलस्त्रीय विशाल पर्वत की भौति है, जिसके केवल यिक्षण पानी के ऊपर दीख पड़ते हैं, येप उसके अन्तस्तान में रस-मन रहते हैं। और इस मूर्ति अभिनय-क्षेत्र में कानिदाम की गरम लेजनी सर्वाधिक बलवती है।

‘मालविकामित्र’ में दो रंग-आचार्यों के बीच आनी-प्रानी कला-चारुरी के सम्बन्ध में तनावती होती है। किर यह निरार होता है कि दोनों जी अभिनेत्रियाँ अपनी अभिनय-कला की फ़िसावें। तो मूर्दग वज उठता है। प्रेक्षाशृङ्ख में दर्शकगण बैठ चुके हैं। यह पहले निश्चिन हो गया कि चलित अभिनय ही होगा जिसमें अभिनेता पात्र की भूमिका में उत्तरकर मनोभाव—व्यक्तिकरण का अभिनय करे। इसके लिये पहले मालविका ने गान प्रारम्भ किया। हृत्य-पर्म यह था कि दुर्लभ जन के प्रति प्रेमप्रवेशा प्रेमिका का चित्त एक बार पीड़ा से भर उठता है, वहुत दिनों के बाद किर उसी प्रियतम को देखकर उसी की ओर वह आँख बिछाये हैं। भाव मालविका के सीधे हृत्य से निकले थे, कण्ठ उसका कसरण था। उसके अनुलनीय सौन्दर्य, अभिनय-व्यंजित ग्रंग-सोफ्टव, वृत्य की अभिराम भंगिमा और कंठ के मधुर संगीत से राजा और प्रेक्षकगण सब मन्त्र-मुग्ध हो गये। इस अभिनय के बाद ही जब मालविका पर्दे की ओर जाने लगी, तो विद्युपक ने किसी बहाने उसे रोका—वह डिठककर खड़ी हो गयी (अब उसकी अभिनय-मुद्रा, गति प्रचार और सम्पूर्ण अभिनय का सजीव चित्र देखिये)। ‘उसका बाँया हाथ कटिदेश पर विन्यस्त था, उसका कंकण कलाई पर सरक आया था, दाहिना हाथ यिथिन इयामलता के समान सीधा मूल पड़ा था। भुक्ति हुई हापिट पाद पर पड़ी हुई थी, जहाँ पैर के अँगूठे फर्श पर विल्ले हुए पुष्टों को धीरे-धीरे सरका रहे थे और कमनीय देह-लता शृत्य-भंगी से ईपदुन्नीत थी’—मालविका

संस्कृत-रंगमंच :

ठीक उसी प्रकार  
को रंगभूमि में खा-वा  
कृ  
पा  
नृत्ययह है उम युग के  
कला का सारा शा-  
रंगकर्म के शिना ह-  
में ही ला पाते हैं  
है। यहाँ निम रंग-  
यता स्टॉल है, भा-

अभिनय पद्धति

संस्कृत रंगमं-  
दुश्शा है। अभिनय  
को प्रेक्षक के हृदय  
की बताई गई है :आंगिक, वाचिक  
आंगिक अभिनय क-  
अर्थ व्यक्त करना।  
नेष्टाकृत—प्रथात्  
किया जानेवाला अ-  
चरण इन छः अंगों  
जंचा इन छः प्रत्यंग-  
करोल और ठोड़ी इ-इस तरह से अ-  
अंकुर कहते हैं। इ-  
अंकुर कहते हैं, औ-  
कहते हैं।

भरत ने गरीब

रस के नाटक में  
के यनुहा कैसी  
उल्लेख है। फिर  
। चौदह से लेकर  
न ही यह भासीय

रंगमंच में क्या  
बा इस अभिनय-  
है। रंगमंच के  
यों में जैसे सजीव  
नाटक को उगके  
समृद्ध में उपका-  
त की भाँति है,  
अन्तस्तल में रग-  
ो सग मेंदनी

नी कला-चाहुरी  
दोनों नी अभि-  
नय है। प्रेक्षागृह में  
अभिनय हो जाए  
व्यतिकरण का  
क्या। हृष्य-सम-  
एक बार पीड़ा से  
उसी की ओर  
थे, कण्ठ उसका  
सौँठव, चूर्य की  
कगण सब मन्त्र-  
ओर जाने लगी,  
गयी (अब उसकी  
देखिये)। उसका  
सरक आया था,  
भुकी हुई हृष्टि  
वों को धीरे-धीरे  
‘यी’—मालविका

ठीक उसी प्रकार खड़ी हुई जिस सौँठव के साथ देह-विन्यास, करके अभिनेत्री  
को रंगभूमि में खड़ा होना उचित था :

वामं सन्धिस्तिभितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे,  
कृत्वा श्यामविटपि सदृशं स्वस्तमुवतं द्वितीयम् ।  
पादांगुच्छालुलित कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं,  
नृत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्ज्वायताक्षम् ॥

यह है उस युग के अभिनय का भजीव आदर्श चित्र। निश्चय ही इस अभिनय-  
कला का सारा शास्त्र-मंकेत नाट्यशास्त्र में दिया हुआ है, और जो प्रयोग तथा  
रंगकर्म के बिना हृदयंगम नहीं हो पाता, न जिसे हम आज अनन्त-अपने व्यवहार  
में ही ला पाते हैं। यहाँ बिना बोले अभिनय का रूपकात्र भाव स्पष्ट प्रकाशित  
है। यहाँ जिस रूप का, चरित्र का अभिनय हुआ है, वह पूर्ण सफल है। तन्म-  
यना स्पष्ट है, भाव-चेष्टा भजीव और विनाकर्यक है।

### अभिनय पद्धति के मूल तत्त्व

संस्कृत रंगमंच में अभिनय का अर्थव्वोध वड़े ही स्पष्ट और निश्चित रूप में  
हुआ है। अभिनय का स्पष्ट अर्थ है यहाँ, नाट्य-प्रयोग द्वारा नाटक में मुख्य अर्थ  
को प्रेक्षक के हृदय तक सम्प्रेप्ति करना। यह अभिनय-क्रिया मूलतः चार प्रकार  
की बताई गई है :

आंशिक, वाचिक, आहार्य, सात्त्विक।  
आंशिक अभिनय का क्षेत्र है, शरीर, मुख और चेष्टाओं से नाट्य-स्थितियों का  
अंत्र व्यक्त करना। इन तीनों में चेष्टाकृत अभिनय वहुत ही महत्वपूर्ण है।  
चेष्टाकृत—अर्थात् पूरे शरीर की किसी विशेष चेष्टा से, भाव से, अनुभूति से  
किया जानेवाला अभिनय। इसके अन्तर्गत शिर, कंठ, हाथ, वक्ष, पार्श्व और  
चरण इन छः अंगों के अभिनय आते हैं। तथा कंवा, वांह, पीठ, उदर, उरु,  
जंचा इन छः प्रत्यंगों के अभिनय का योग है। और आंश, भौंह, नाक, अवर,  
कणोल और ठोड़ी इन छः उंगों से अभिनय-क्रियाएँ होती हैं।

इस तरह से अभिनय की तीन प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें शाखानुत्त और  
अंकुर कहते हैं। इनमें से आंशिक अभिनय तो शाखा कहलाता है। सूचना को  
अंकुर कहते हैं, और अंगहार से युक्त करण पर आश्रित अभिनय को नृत्त  
कहते हैं।

भरत ने शरीर-आंशिक अभिनय में सिर के तेरह, हृष्टि के छत्तीस, आंशों

ये मंडल व

और चारी के

रीति अर्थात् ग

गति प्रचा

सारी गति', वि

करण, अंगहा

विभिन्न व

और ग्रनेक कर

स्थानक (म

है। अर्थात् हा

दै। किसी भी

या चार करणों

निश्चित स्थिति

होता रहता है

नाटक-शास

बत्तीस।

के तारों के नौ, भौंहों के सात, नाक के छः, कपोल के छः, अधर के छः और ठोड़ी के आठ अभिनय दराएँ हैं। आंगिक अभिनय में तेरह प्रकार का दोनों हाथों का अभिनय, चौबीस प्रकार का एक हाथ का अभिनय, चौंसठ प्रकार का चुत्त-हस्त का अभिनय और चार प्रकार का हाथ के करण का अभिनय है। इसके अतिरिक्त नाट्य-चात्र में भरत ने सोलह भूमिचारियों और सोलह आकाश-चारियों का वर्णन किया है। इसके बाद दस आकाश-मंडल और दस भौम-मंडल के अभिनयों का परिचय देकर गति के अभिनय का विस्तार से उल्लेख किया है, कि कौन-सी भूमिका प्रहरण करनेवाले को किस प्रकार से गंतव्य पर चलना चाहिये। किस रस में अभिनेता की कैसी गति होनी चाहिये। किस जाति, आश्रय, वर्ण और व्यवसाय वाले को कैसे मंत्र पर चलना चाहिये तथा रथ, विमान पर आरोहण या अवरोहण तथा आकाशगमन आदि का अभिनय किस गति से करना चाहिये।

जैसे परिचय के देशों में आज, विशेषकर लयवादियों (क्युविस्ट्स) ने अभिनय-कोशल के लिये विशेष व्यायाम का विश्वास किया है, उससे कहीं अधिक भरत ने अभिनय के लिये व्यायाम, गुत्य और आहार के नियम बताये हैं।

वाचिक अभिनय का धोत्र वचन और वार्षी है—अभिनेता नाट्य प्रयोग में मुख से जो कुछ कहता है, वह सब वाचिक अभिनय में आता है। सात्विक अभिनय उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय कहलाता है, जिन्हें रस-सिद्धान्तवादी सात्विक भाव कहते हैं।

आहारी अभिनय वास्तव में वस्त्र सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत है। वेश-भूपा भूमिका को प्रकट करने में जितनी महायक होती है, उससे भी अधिक इसमें अभिनय में सम्पूर्णता आती है, तथा परलूपण के लिये यही मूलाधार निष्ठ होता है।

### मंडल और गति

परिचय के 'युग्मिग' के सम्पूर्ण अर्थ में मंडल नहीं आता। मंडल का अधिक अर्थ है यहाँ शरीर की मुद्रा। इसे और भी स्पष्ट रूप में जानने के लिये 'चारी', 'करण' को पहले जानना चाहिये। अर्थात् पैर, जंघा और कटि इनकी समान रूप से चेष्टा को चारी कहते हैं। इसी चारी को व्यायाम भी कहते हैं। एक पैर के प्रचार को चारी, दोनों पैरों के प्रचार को 'करण' तथा तीन करणों के एक साथ प्रयोग को 'खंड' और तीन-चार खंडों को मिलाकर एक मंडल का प्रयोग होता है।

छ; अधर के छ; और  
तेरह प्रकार का दोनों  
नय, चौसठ प्रकार का  
रण का अभिनय है।

शीर सोनह आकाश-  
डिल और दस भौम-  
विस्तार से उल्लेख  
प्रकार से मन्च पर  
चाहिये। किस जाति,  
हिये तथा रथ, विमान  
अभिनय किस गति से

क्युविस्टस) ने अभि-  
उससे कही अधिक  
यम बताये हैं।

भनेता नाट्य प्रयोग  
गता है।

क अभिनय कहनाता

अन्तर्गत है। वेण-  
, उससे भी अधिक  
लिये यही मूलाधार

ये मंडल दो प्रकार के होते हैं : भूमिगत और आकाशगत। भरत ने मंडल  
और चारी के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पात्रों के प्रवेश तथा उनके चलने की  
रीति अर्थात् गति को भी बहुत विस्तार से बताया है।

गति प्रचार को कई रूपों में बाँटकर देखा गया है, जैसे 'लयगति', 'रसानु-  
सारी गति', विदूपक और स्त्री की गति आदि।

### करण, अंगहार और रेचक

विभिन्न अंगों और प्रत्यंगों की अभिनय-मुद्राओं के मेल से 'करण' बनते हैं  
और अनेक करणों के मेल से अंगहार बनते हैं।

स्थानक (बड़े होने की स्थिति), चारी तथा नृत्तहस्त के मेल से करण बनता  
है। अर्थात् हाथ और पैर की विभिन्न गतियों के मेल से नृत्य में करण बनता  
है। किसी भी एक अभिनय-किया में मुख्यतः दो करण होते हैं, और ऐसे तीन  
या चार करणों से अंगहार बनते हैं। करण में अभिनेता का शरीर एक ही  
निश्चित स्थिति में रहता है, किन्तु अंगहार में निरन्तर स्थानक का परिवर्तन  
होता रहता है।

नाटक-शास्त्र में, ऐसे करण एक सौ आठ गिनाये गये हैं तथा अंगहार  
वर्तीय।

। मंडल का अधिक  
रूप के लिये 'चारी',  
कटि इनकी समान  
भी कहते हैं। एक  
या तीन करणों के  
कर एक मंडल ना

दर्शक

**नाट्य-मिदियों** के प्रसंग में भरत ने नाट्य-शास्त्र के सत्ताइसके अध्याय में दर्शकों अर्थात् प्रेक्षकों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया है। उससे पहले प्रेक्षकों के गुणों की मूची दी है। यद्यपि भरत ने प्रारम्भ में ही यह बताया है कि यह नाटक (नाट्यवेद) सबके लिये है। सब वर्गों के लिये यह दर्शनीय है। किन्तु फिर भी प्रेक्षक के कुछ मूलगुण होने चाहिये। प्रदर्शन-आनन्द के लिये वे गुण सर्वथा अनिवार्य हैं।

१—जो व्यक्ति ठीक इन्द्रियोंवाला हो, प्रत्येक वात, भाव और विचार को उचित रूप में, प्रहृण करनेवाला हो, दीपरहित हो, अनुग्रामी हो, वही प्रेक्षक हो सकता है।

२—संतोष के अवसर पर संतुष्ट हो, शोक से शोकान्तित, कोष में कृद्र और भय में भयभीत, वही श्रेष्ठ प्रेक्षक है।

इन मूल गुणों के अतिरिक्त, दर्शक के विषय में विशेषकर उसकी भावगत विशेषताओं के बारे में भरत ने बड़े विस्तार से लिया है। तथा दर्शक की सहदयता पर वहन आग्रह किया है। इसका मूल कारण यह है कि दर्शक ही तो रंगमंच के सम्पूर्ण व्यापार में भावमन्त होनेवाला या भावानुभूति करनेवाला है। अभिनेता मंच पर नाटक को प्रस्तुतकर उसके पूनभाव को रचना करता है, तथा दर्शक उसे साथात् प्रहृण करता है। इसी लिये संस्कृत रंगमंच में दर्शक को 'रसरंजक' कहा गया है।

यह रस-रंजक दर्शक नाटक के प्रस्तुतिकरण से तभी उस आनन्द को पा सकता है, जब रस-निष्पत्ति की पूरी सामग्री विद्यमान हो, और वह अपनी पूर्ण अन्विति को प्राप्त कर सके। इस प्रसंग में प्रेक्षक की 'रुचि' और उसका सौन्दर्य-बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वह सत्य है, जहाँ से दर्शक अपने युग के रंगमंच तथा नाट्य-लेखन को प्रभावित करता है। संस्कृत रंगमंच में, काव्य-सत्य के पीछे उस युग-काल के दर्शक की मनोवृत्ति और उसका सौन्दर्य-बोध बोलता है। श्रेष्ठ नाटकार प्रेक्षक की रुचि और उसके सौन्दर्य-बोध को विकसित भी करता है। किन्तु वह तभी संभव है जब नाटककार, मंच-प्रयोग और दर्शक ये तीनों आयाम परस्पर समन्वित हों, तथा एक दूसरे से विश्वस्त हों। इन तीनों आयामों में से यदि दर्शक रंगमंच से दूर रहा तो रंगमंच का हास निश्चित है।

कोई तत्व न पिर  
फट या हूट न जाय—  
हो जाय।

संस्कृत रंगमंच  
दोनों प्रकार के होते  
रम-शास्त्र के नियम  
में 'अभिरूप भूमिका'

दर्शक में रंगमंच की परम्परा और उसकी सुदियाँ विद्यमान रहती हैं। नाटककार अथवा रंगमंच-शिल्पी उसी परम्परा और नाट्यरूपियों के आधार पर दर्शक को अपनी और आकपित करता है। या यों कहें कि दर्शक-समाज नाटककार अथवा रंगमंच-शिल्पी को अपनी और खीचता है। यही परम्परा का आकर्षण और खिचाव जब दूट जाता है, तब भी रंगमंच की मूल परम्परायें और रूपियाँ, उसके प्रति समाज का सौन्दर्य-वोध दर्शक के अन्तर्मन में सदा विद्यमान रहते हैं। वे कभी नहीं हृष्टते। बल्कि जीवन, समाज, राजनीति अर्थ, सभ्यता और संस्कृति इन सब के अनुरूप उनमें भीतर ही भीतर विकास होता रहता है। भविष्य का नाटककार, रंगमंच-शिल्पी सहसा एक दिन समाज के भीतर से उसी सत्य को पकड़ लेता है और एक नये रंगमंच का सूत्राभास करता है। और नाट्य-लेखन तथा रंगमंच के एक नये युग की शुरूआत हो जाती है। यह नया युग उसी परम्परा से ही उद्भूत होता है, और इसका सेतु होता है वही प्रेक्षक-समाज। उसके भीतर अवाव गति से वहती हुई रंग सलिल-वारा, जिसमें निमज्जित होकर नया रंगमंच सहसा एक दिन प्रकट हो जाता है।

दर्शक, रंगमंच का अवाव सनातन मान्यम है, कभी प्रकट रूप से कभी अप्रकट में, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष स्तर से। तभी यह सत्य है कि रंगमंच की परम्परा अवाव है, सनातन है। और इस सत्य का मूलाभार है वही दर्शक-समाज : उसका भावबोध, उसकी रसरंजकता।

दर्शक अथवा प्रेक्षक के ही परिप्रेक्ष्य में भरत ने 'नाट्य सिद्धियों' की चर्चा की है। नाट्य-शास्त्र में बताया गया है कि नाट्य प्रस्तुतिकरण की सिद्धि और उपलब्धि का निर्णय वारह सिद्धियों पर अवलम्बित है। इनमें दस तो मानुषी सिद्धियाँ हैं और दो दैवी। मानुषी सिद्धियों में दो शारीरिक हैं और शेष आठ वाङ्मयी।

मानुषी सिद्धियाँ ये हैं, जब दर्शक-समाज अभिनेता के मुन्दर अभिनय तथा उसकी श्रेष्ठ कलात्मकता में अभिभूत होकर शारीरिक चेष्टाओं द्वारा सराहना व्यक्त करे।

जब दर्शकगण नाट्य-प्रदर्शन को देखकर मुख से, वारी से उसकी प्रशंसा करें, तो वह वाङ्मयी सिद्धि कहलानी है। ये सिद्धियाँ आठ प्रकार की होती हैं :

१-मन, अर्द्धहास, अतिहास, साधुकार, अहोकार, कष्टकार, प्रबुद्धनाद, अवकृष्ट।

दैवी सिद्धि पात्र की भूमिका के अनुरूप वेषभूषा और भावभंगी बना लेने की ऐसी सफलता है, जिससे कि दर्शक-समाज मुख्य हो जाय। यह पहली दैवी सिद्धि है कि नाटक प्रारम्भ होने से अंत तक अभिनेता की भूमिका में, पर-रूपण में कहीं से कोई वाधा न उपस्थित हो जाय—जैसे वीच में ही रूप-विन्यास का

की भूमिका

रहती है।

के आधार

दर्शक-समाज

परम्परा का

ल परम्परायें

में में सदा

व, राजनीति

तोतर विकास

दिन समाज

उत्पात करता

हो जाती है।

सेतु होता है

सलिल-वारा,

ता है।

रूप से कभी

है कि रंगमंच

है वही दर्शक-

यों' की चर्चा

ती सिद्धि और

स तो मानुषी

और शेष आठ

अभिनय तथा

द्वारा सराहना

उसकी प्रशंसा

कार की होती

नाट, अवकृष्ट।

भंगी बना लेने

यह पहली दैवी

ज में, पर-रूपण

प-विन्यास का

कोई तत्व न पिर जाय, वस्त्र-विन्यास में, मुखौटे में, मंत्र सामग्री में से कुछ फट या ढूट न जाय— नहीं तो दर्शक की कल्पना और विश्वास में बाधा उपस्थित हो जाय।

संस्कृत रंगमंच के अन्तर्गत प्रेक्षागृह अथवा रंगशाला स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते थे। नाट्य-प्रदर्शन देखने वाले दर्शकों में अदिकांश समाज रस-शास्त्र के नियमों से पूर्णतः परिचित था। कालिदास और हर्ष के नाटकों में 'अभिस्पृष्ट भूषिता' और 'मुण्डाहिमी परिपद' इन दोनों का उल्लेख है।

## रंगभवन—प्रेक्षागृह

भरत ने नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में तीन प्रकार ने प्रेक्षागृहों का विधान बताया है—‘विकृष्ट’ (लम्बा आयताकार), चतुरस्र, (वर्गाकार) और ‘अ्यस्त’ (तिकोना)।

ये तीनों प्रकार के प्रेक्षागृह तीन-तीन परिमाण के होते थे—‘ज्येष्ठ’, ‘मध्यम’ और ‘अवर’ (कनिष्ठ)। इस प्रकार कुल तीन प्रकार और परिमाण के प्रेक्षागृह के विधान हुए—जो हाथ की नाप के अनुसार निम्नलिखित हैं :

१—विकृष्ट ज्येष्ठ प्रेक्षागृह	$105 \times 54$ हाथ
” मध्यम ”	$64 \times 32$ ”
” कनिष्ठ ”	$32 \times 16$ ”
२—चतुरस्र ज्येष्ठ प्रेक्षागृह	$105 \times 105$ हाथ
” मध्यम ”	$64 \times 64$ ”
” कनिष्ठ ”	$32 \times 32$ ”
३—अ्यस्त ज्येष्ठ प्रेक्षागृह	$105$ हाथ लम्बा
” मध्यम ”	$64$ ”
” कनिष्ठ ”	$32$ ”

इस नाप के अनुसार चौंसठ हाथ ( $66$  कुट) लम्बा और बत्तीस हाथ ( $48$  कुट) चौड़ा विकृष्ट मध्यम प्रेक्षागृह ही मर्त्य लोगों के लिये बनाना चाहिये। इससे बड़े प्रेक्षागृह में नाट्य का ‘रस’ नहीं मिलता।

प्रथम प्रेक्षागृह देवताश्रों के लिये है। दूसरा विकृष्ट मध्यम मनुष्य के लिये उत्तम और आदर्श माना गया है। सब कुछ ध्यान में रखकर, सब प्रकार के प्रेक्षागृहों में मध्यम ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पाठ्य और अभिनव अधिक पूर्ण-रूप में मुनाफ़ी और दिखाई पड़ता है।

बस्तुतः इसी दूसरे प्रकार के नाट्यगृह का ही वर्णन, नाट्य-शास्त्र में आदर्श मानकर अविक विस्तार के साथ किया गया है। इसमें समग्र भूमि को दो भागों में बाँट दिया जाता था, एक भाग रंगभूमि (स्टेज) और दूसरा भाग प्रेक्षक भूमि-दर्शकों के बैठने के लिये, (आज के ‘ग्राहीटोरियम’ के अर्थ में)। यहाँ पर

१. चौंसठ अंगुल का एक हाथ। अर्थात् एक हाथ आज के डेव कुट के बराबर।

उठाए हुए सूंड के आकार का चौंसठ विवरण इस प्रकार दिया हुआ है।

श्वेत स्तंभ के पास ब्राह्मण बैठने थे। यह श्वेत स्तंभ मंच के ठीक सामने होता था। इसके थोड़ी दूरी पर अश्रियों के बैठने का स्थान होता था, जिसके लिये रक्तवर्ण का स्तंभ होता था। उत्तर-पश्चिम दिशा में पीतवर्ण का स्तंभ वैद्यों के लिये होता था और उत्तर-पूर्व में शूद्रों के लिये नील वर्ण का स्तंभ।

सामने दूसरा भाग (दर्शकों के समक्ष) 'रंगपीठ' का होता था। 'रंगपीठ' के पीछे का भाग 'रंगशीर्ष' होता था। इसके पीछे पर्दा पड़ा रहता था जिसके कई नाम—पटी, अपटी और तिरस्करणी आदि मिलते हैं। इस पर्दे के पीछे का भाग 'नेपथ्य' होता था। पृष्ठभूमि-अभिनय, शोर, दूर-संगीत, कोलाहल आदि का कार्य यहीं से लिया जाता था। देवताओं की वाणी अथवा आकाशवाणी भी यहीं से अभिनीत होती थी। नेपथ्य में दो द्वार होने थे जिनमें एक से सीधे 'रंगशीर्ष' में प्रवेश किया जाता था। दायीं-बायीं और वादक बैठते थे। यह सत्य स्थायी रंगशालाओं के त्रिपथ में है। राजभवन के भीतर निश्चित हृष से ऐसी रंगशालाये हुआ करती थीं। संस्कृत नाटिकाओं में अन्तःपुर के भीतर अन्तःपुरिकाओं के विनोद के लिये वृत्य, गान, नाट्य अभिनय का उल्लेख पाया जाता है।

पर साधारण नागरिक यथा अवसर अस्थायी रंगशालाये बनवा लेते थे। पर इनके बनवाने में पूरी सावधानी बरती जाती थी और इनका निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता था।

राजाओं की विजय-यात्राओं के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशालाये बनवा ली जाती थीं। गुफाओं और मंदिरों में भी रंगशालाये मिलती थीं। उदाहरण के लिये प्रभाव की दृष्टि से दक्षिण के चिदंबरम् आदि मंदिरों पर नाट्य-शास्त्र के बताये हुए विविध अंगहार चित्रित होते हैं। कोणार्क के मंदिर में भी नाना प्रकार के शास्त्रीय आसन उत्कीर्ण हैं। इन चित्रों से बहुत-सी लुप्त अभिनय-भंगिमाओं और मुद्राओं के समझने में सहायता मिलती है।

### मत्तवारिणी

रंगपीठ पर 'मत्तवारिणी' का विधान सर्वत्र आया है। इसे जानना आवश्यक है। मत्त—मतवाला, और वारण—हाथी। आशय है मतवाले हाथी के उठाए हुए सूंड के आकार की बनी हुई अम्बारी। 'समरांगण सूत्रघार' में इसका विवरण इस प्रकार दिया हुआ है।

### रंगमंच और नाटक की भूमिका

**मुखभद्रं भवेद् युक्तं वेदिका मत्तवारणः ।  
क्षेत्रं भागोदयार्थं भूराभूमिकलान्तरम् ॥**

—राजगृह अध्याय ३०/६

(ऐसी मत्तवारी या अभारी से वेदिका का सामना सुहाना हो जाता है, जो भूमि के एक छोर से उठकर भूमि के पूरे छोर तक के भाग को ढंग रहे।)

भारतीय नाट्यप्रसाली में मत्तवारिणी अत्यन्त आवश्यक होती थी। संस्कृत-मंच पर एक ही अंक, हश्य में कई स्थलों, भूमियों पर अभिनय करना पड़ता था। मंच-कार्य में जब पात्र कहता था, मुझे अमुक स्थान जाना है, या मुझे अमुक जगह ले चलो, तब पात्र मंच की गतिक्रमा करके, मनवारिणी में सजे, हुए, तेंदुर हश्य में पहुँच जाते थे।

अभिन्नान शाकुन्तलम् का छठा अंक इन प्रसंग में उल्लेखनीय है। राजा द्वार पर पहुँचने के लिये धूमते हैं (यत्रे परिकामन्ति) फिर सब जाते हैं। इसके तल आवश्यक हैं। फिर दो दासियाँ आती हैं, कंचुकी आता है। राजा और पितृपक का प्रवेश होता है। ये मात्रवी मंडप में जाने के लिये धूमते हैं (उभौ-परिकामतः)। यह मात्रवी मंडा निश्चय ही एक मनवारिणी में बना रहता है। वहाँ बैठकर शान्ति से चित्र बनाया जाता है। राजकार्य भी पत्र द्वारा देखा जाता था। विद्वपक चला जाता है। इतने में विद्वपक का श्रावनाद सुनकर राजा मात्रवी मंडप से उठ जाता है और सामने की दूसरी ओर की मत्तवारिणी में बने हुए प्रासाद-हश्य में जाता है। तभी संस्कृत मंच के रंगशीर्ष पर दोनों ओर मनवारिणी का होना आवश्यक बनाया जाता है।

भारतीय रंगमंच-  
और उसकी परम्परा ज  
से ही रंगमंच-बोध ले  
उसकी अवधारणा यह  
विकल्प नहीं। संस्कृत  
शून्यक पारिभाषिक शा  
शैली और रंगमंच-प्रक  
रंग-निर्देशों में अनेक इ  
संस्कृत रंगमंच का विद्व

### संस्कृत रंगमंच का ।

संस्कृत रंगमंच के  
मिलते हैं :

(क) शुद्ध भारतीय अर्थात् आदिकाल में देवताओं का आग्रह था और कान दोनों को सुख के लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद, और संगीत तथा रस ग्रन्थों में तांडव और लास्त्र दी। और भरतमुनि उसका

(ख) दूसरा विचार इसका आधार है 'सूत्रधा-

य ३०/६

हो जाता है,  
को ढेके रहे।)  
थी। संस्कृत-  
करना पड़ता  
है, या मुझे  
रिएगी में मजे,

है। राजा  
है। सब राज-  
ने हैं। इसके  
के दो वरा-  
राजा श्रीम-  
ने हैं (उभय-  
वना गहता  
द्वारा देखा  
गाद सुनकर  
मत्तवारिएगी  
पर दोनों

## भारतीय रंगमंच : इतिहास और परम्परा

भारतीय रंगमंच—अर्थात् संस्कृत और मध्ययुगीन रंगमंच का इतिहास और उसकी परम्परा जानने के लिये हमें मूलतः इसके नाट्य-साहित्य के अध्ययन से ही रंगमंच-बोध लेना पड़ेगा। अर्थात् रूपक और नाटक के ही माध्यम से उसकी अवधारणा ग्रहण करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण विकल्प नहीं। संस्कृत नाट्य-शब्दावली में अभिनय, रूपक और प्रेक्षक आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों के घातवर्थ और रुद्र अर्थ, संस्कृत नाटक की प्रदर्शन-शैली और रंगमंच-प्रकार की ओर निश्चित संकेत करते हैं। इन नाटकों के रंग-निर्देशों में अनेक अभिनय-रूपों, तत्त्वों, कार्यों के जो संकेत मिलते हैं, उनसे संस्कृत रंगमंच का विवान काफी स्पष्ट हो जाता है।

### संस्कृत रंगमंच का प्रारम्भ

संस्कृत रंगमंच के प्रारम्भ के विषय में निम्नलिखित धारणायें और विचार मिलते हैं :

(क) शुद्ध भारतीय परम्परावादी मत, दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता है। अर्थात् आदिकाल में देवताओं के आप्रह पर ब्रह्मा ने नाट्यवेद की रचना की। देवताओं का आप्रह था कि किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार किया जाय, जो आंख और कान दोनों को सुख दे सके। इसी आप्रह पर ब्रह्मदेव ने मनुष्य के कल्याण के लिये क्रृष्णवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः मंत्र, भावमुद्रा, गान और संगीत तथा रस ग्रहण करके नाट्य की नींव डाली। शिव और पार्वती ने उसमें तांडव और लास्य मिलाया, और विष्णु ने उसमें नाटकीय शैली की देन दी। और भरतमुनि उसको लेकर धरती पर आये।

(ख) दूसरा विचार है कि कठपुतली से संस्कृत रंगमंच की उत्पत्ति हुई। इसका आधार है 'सूत्रधार' शब्द।

(ग) धार्मिक उत्सव—इन्द्रध्वज आदि उत्सवों के समय होनेवाले अभिनयों में ही संस्कृत रंगमंच का उदय।

(घ) ऋग्वेद के संवाद-सूक्तों से।

(ङ) वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांड या पौरोहित्य कर्म से।

अर्थात् प्रायः सभी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान् संस्कृत नाटक और रंगमंच का धार्मिक भूमि से उद्भव मानते हैं। अकेले प्रोफेसर जागीरदार हैं जिन्होंने इन सारे धार्मिक विचारों का खंडनकर, यह बताया कि आर्य जाति की एक शाखा 'भरत' या 'भूत' से यह कला उदित हुई। आर्य पुरोहितों ने 'भरत' को शूद्र कहा और नाट्य-शास्त्र के अनुसार भरत के सौ पुत्रों को ब्राह्मणों ने थाप भी दिया।

वस्तुतः यह सब-कुछ पुराण है। 'मिथ' है, तथा इसका सम्बन्ध दुनियाँ के सभी देशों के रंगमंचों के उदय से जुड़ा है। किन्तु जहाँ तक वैज्ञानिक वृष्टि का सवाल है, किसी भी समाज में रंगमंच उसी भूमि से पनपता है, जो उस युग-काल की सबसे ज्यादा कोमल, कठोर और भाव-प्रवण धरती होती है। निश्चय ही संस्कृत रंगमंच का आदि-काल हमारी सभ्यता का वैदिक काल रहा होगा। उस वैदिक भूमि में उसकी चेतना और सामाजिकता में जो धरती सबसे ज्यादा कोमल, कठोर और भाव-प्रवण रही, वह भूमि है 'यज्ञ'। इसी यज्ञ के मूल उत्स से आर्यों की जहाँ सारी सभ्यता और संस्कृति पनपी है, स्वभावतः इसी उत्स से नाटक और रंगमंच भी पैदा हुआ। इसी से उसका गायन, वादन और नर्तन उपजा।

'सोम कृयण'<sup>१</sup> में नाट्य-तत्त्व, तथा 'महाब्रत' में होनेवाली नृत्य आदि क्रियायें उसी यज्ञ-भूमि के ही चारों ओर उपजे हुए रंग और नाट्य-तत्त्व हैं। यज्ञ के साथ ही कालान्तर में कर्मकांड पैदा हुआ और कर्मकांड के भीतर छिपे हुए संदेश, दर्शन और कथा-वस्तु को अभिनय और नृत्य द्वारा समाज को सम्प्रे-पित करने के लिये निश्चय ही रंगमंच आया होगा—चाहे वह इन्द्र महोत्सव के उल्लासमय क्षणों पर, चाहे किसी महाशत्रु के विजयपर्व पर, चाहे किसी सामू-हिक कृषि की फलभोगी माधवी रात्रि में—बीच में यज्ञ की अग्नि और उसके चारों ओर अभिनटन करते हुए लोग और उस परिवर्ति को धेरकर बैठा हुआ आगार जन-समूह। मातृ-सत्ता का यहीं सौन्दर्य-बोध, राग-बोध हमारा आदि रंगमंच रहा है। उसके बाद आया वह युग जब मातृ-सत्ता की जगह आयी पितृ-सत्ता। यहीं से शुरू हुआ 'नायक'।

इसके बाद आया राजा। राजन्य संस्कृति, उसका सौन्दर्य-बोध। यहीं से

१. ऋग्वेद, १-२४ से १०३० तक

भारतीय रंगमंच

शुरू हुआ नाटक

अस्त्रपुर में अ

'नाट्यधर्मी'

कालिशास और

यज्ञ की म

न्तर से लोक-

'लोकधर्मी' की

संस्कृत रं

तायें वर्णी।

इतिहास और

भारतीय

सम्बन्ध रहा है,

में मातृसत्ता का

'देवासुर-संग्राम

क्योंकि नायक

प्रतिच्छाया नाय

श्रसुर और दान

और इस नाट्य

करना आरम्भ

उससे सारे विघ्न

नाम दिया, देवत

नाट्य-प्रदर्शन

शुरू हुआ।<sup>२</sup>

बोढ़काल

और रंगमंच को

अनेक प्रसारण मि

देखना निषिद्ध थ

की सम्बन्ध-कथा

२. ब्रह्मण ग्रंथ

का वज्र क

शुरू हुआ नाटक का लिखा जाना और उसका राजमंडप में, राज-भवन में, अन्तःपुर में अभिनीत होना। और यहीं से विकसित हुई संस्कृत-नाट्य की 'नाट्यधर्मी' परम्परा—जिसके कालान्तर में नाटककार हुए भास, अश्वघोष, कालिशस और भवभूति।

यज्ञ की मातृ-सत्ता की संस्कृति में पनपा हुआ वह 'नाट्य' स्वभावतः कालान्तर से लोक-जीवन में, प्रजा में फैला, और उसी को 'नाट्यधर्मी' के समानान्तर 'लोकधर्मी' की संज्ञा प्राप्त हुई।

संस्कृत रंगमंच में ये दोनों नाट्य-परम्पराएँ 'नाट्य-शास्त्र' की मूल धर्मितायें बनीं।

### इतिहास और परम्परा

भारतीय रंगमंच के उदय और उससे वैदिक संस्कृति (यज्ञ) का अभिन्न सम्बन्ध रहा है, इसका प्रमाण हमें स्वयं नाट्य-शास्त्र में मिलता है। पितृसत्ता-युग में मातृसत्ता का यह 'यज्ञ' स्वभावतः अपने प्रतीक अर्थ में बदल गया। अब वह 'देवासुर-संग्राम,' 'इन्द्रविजय' और 'महेन्द्र विजयोत्सव' का अर्थधारी हो गया। क्योंकि नाटक (इन्द्र) की कल्पना तब अवश्यं भावी बनी और इसी सत्य की प्रतिच्छाया नाट्य-शास्त्र में है। नाट्य-प्रदर्शन का प्रारम्भ देवासुर-संग्राम में असुर और दानवों की पराजय के पश्चात् महेन्द्र विजयोत्सव के समय हुआ, और इस नाट्य-प्रदर्शन से असुर लोग अप्रसन्न हुए, और उन लोगों ने विघ्न करना आरम्भ कर दिया। परन्तु इन्द्र ने वहीं गड़े हुए अपने ध्वज को उठाकर उससे सारे विघ्नकारी असुरों को नष्ट कर दिया। इसी लिये उस ध्वज को 'जर्जर' नाम दिया, देवताओं ने (उससे असुरों के शरीर जर्जर हुए थे)। तभी से संस्कृत नाट्य-प्रदर्शन में 'जर्जर' नामक इन्द्रध्वज रंगशाला में स्थापित किया जाना शुरू हुआ।<sup>१</sup>

बौद्धकाल में यज्ञ आदि धार्मिक विधाओं तथा अन्य कर्मकांडों से नाटक और रंगमंच को निश्चित ही स्वतंत्र रूप मिला। बौद्ध-साहित्य में इस सत्य के अनेक प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध-ग्रन्थों में भिक्षुओं के लिये नाटक का प्रदर्शन देखना निषिद्ध था। बुद्ध के शिष्य मौद्गल्यायन और कुवलया नामक अभिनेत्री की सम्बन्ध-कथा प्रसिद्ध ही है।

१. ब्राह्मण ध्रुव में 'यूपः' (ध्वज, स्तंभ जो यह की समाप्ति का निह हो) को प्राप्तः इन्द्र का वज्र कहा गया है---वश्वेवूपः---शत० ३-६-४-१६

संस्कृत नाटक की सर्वप्रथम रचनाये अश्वघोष की मानी जाती है। इनमें एक नाटक 'शारिपुत्र प्रकरण' है, तथा दो रूपक भी हैं। और 'गणिका' प्रकरण में विदूषक का प्रयोग भी है।

अश्वघोष से कालिदास तक आने के पूर्व 'भास' का नाम उल्लेखनीय है। भास के तेरह नाटकों को तीन वर्गों में वाँटा जा सकता है :

१—रामायण नाटक—'प्रतिमा' तथा 'अभिषेक'

२—महाभारत नाटक—'पंचरात्र', 'मध्यम व्यायोग', 'दूत वाक्य', 'दूत घटोत्कथ', 'कर्णभार', 'उरुभंग' तथा 'बालचरित'।

३—अन्य नाटक —'स्वप्नवासवदत्तम्' 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' 'अविमारक' 'दरिद्र चारुदत्त'।

भास के नाटक मंचीय प्रदर्शन के लिये रचित थे, और इनमें सहज-सरल रंगमंच के सभी तत्त्व प्राप्त होते हैं। संस्कृत 'रंग' की मूल रूढ़ियाँ इनमें मिलती हैं। निश्चय ही कालिदास के लिये भास के नाटकों ने वह महत्त्वपूर्ण पीठिका तैयार की, जिसके ऊपर सहज ही कालिदास की नाट्यकला समाप्त हो सकी। भास के ये नाटक अपने 'नाट्य' और रंगशिल्प में ठीक उसी तरह थे, जैसे शेखसपियर से पूर्व पश्चिम में 'मोरेलिटी' और 'मिरेकिल' नाटक ये—कलात्मक बोध से रहित, नाटकीय शिल्प-विधान से अप्रौढ़ तथा काव्य की उदात्त महिमा से हीन।

कालिदास ने इन अभावों की सफल पूर्ति अपने नाटकों द्वारा की। संस्कृत रंगमंच का सम्पूर्ण भावबोध, अर्थबोध इनके नाटकों में मिला। काव्य, अभिनय, रंग इन तीनों तत्त्वों का अद्भुत समन्वय और उत्कर्ष उनके 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक में मिला। कथा, नायक और रस संस्कृत नाटक के ये तीनों मूल तत्त्व—यहाँ अपने पूर्ण योग में प्रकट हुए। 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' के अतिरिक्त दो अन्य नाटक कालिदास के और हैं—'मालविकाग्निमित्र' और 'विक्रमोर्जशीय'।

कालिदास के बाद 'शूद्रक'—जिनका प्रसिद्ध प्रकरण है 'मृच्छकटिकम्', पूरे संस्कृत नाट्य-साहित्य और रंगमंच में यह एक ऐसी रचना है जिसमें संस्कृत रंगमंच की दोनों नाट्य-धर्मितायें, नाट्यधर्मी और 'लोकधर्मी' अद्भुत सफलता के साथ एकाकार हैं। यही नहीं, इसमें संस्कृत के कई नाटकूपों का सफल योग है। जैसे :

१—प्रणायकथात्मक—प्रकरण

२—धूर्त संकुल—भास

३—हास्य मिश्रित—प्रहसन

रंग दृष्टि से 'मृच्छकटिकम्' बहुत ही उच्चकोटि की रचना है। इसमें व्याप्त

भारतीय रंगमंच  
कथातत्त्व, घटक  
को पूर्णरूप से  
कालिदास और  
संस्कृत रंगमंच  
शूद्रक ने संस्कृत  
नायक-नायिका

किन्तु शूद्रक  
कालिदास की  
सिद्धान्त पक्ष  
यह हुआ कि  
से रंगमंच लुप्त

नाटक का  
और 'नागानं  
प्रधान हैं, नाटक

हर्ष के उ  
शताब्दी है।  
प्रसिद्ध रचना  
है—जो मूल  
समय की संकेत  
इसने समाज  
संघर्ष-तत्त्व को

विशाखद  
उल्लेनीय नाटक  
'उत्तरशामचरि  
नाटक के भीतर  
को रस-बोध

○  
○  
○

इन तीनों  
नाट्यशिल्प व  
से शक्तिशाली  
की महत्त्व द्या  
से सर्वथा अल

कथातत्त्व, घटनाचक्र, कार्य और उसकी गति और नाट्य-व्यापार, इस सत्य को पूर्णरूप से बताते हैं कि संस्कृत रंगमंच की प्रकृति और परम्परा क्या थी। कालिदास और शूद्रक, संस्कृत के ये दो नाटकार ऐसे हुए हैं, जिनकी कला में संस्कृत रंगमंच की समस्त पद्धतियाँ और धर्मितायें प्रतिष्ठित हुई हैं। विशेषकर शूद्रक ने संस्कृत नाट्य-परम्परा में क्रान्ति भी की। उसने प्रचलित राजन्यवर्ग, नायक-नायिका को छोड़कर मध्यवर्ग और यथार्थबोध के चरित्र लिये।

किन्तु शूद्रक की इस नाट्यपरम्परा का आगे विकास न हुआ। आगे कालिदास की ही नाट्यधारा का अनुसरण हुआ। वह भी कालिदास के नाट्य-सिद्धान्त पक्ष पर कृतिकारों ने ज्यादा आग्रह दिया। जिसका उत्तरोत्तर फल यह हुआ कि नाटक अपने संद्वानितक पक्ष में पूर्णतः दोषहीन हुए, किन्तु उनमें से रंगमंच लुप्त होता गया।

नाटकार हर्ष के नाम से तीन रूपक प्राप्त हैं—‘प्रियदर्शिका,’ ‘रत्नावली’ और ‘नागानन्द’। हर्ष की नाट्यकृतियों से प्रकट है कि इनमें काव्यतत्त्व अधिक प्रधान हैं, नाट्य-तत्त्व कम।

हर्ष के उपरान्त भट्टनारायण का ‘वेणीसंहार’ नाटक है। यह समय सातवीं शताब्दी है। इसी शताब्दी का महत्वपूर्ण नाटकार, विशाखदत्त है—जिसकी प्रसिद्ध रचना है ‘मुद्राराक्षस’। इस शताब्दी का यह पहला महत्वपूर्ण नाटक है—जो मूलतः नाट्य-प्रदर्शन के लिये लिखा गया था। यही नहीं, इसने अपने समय की संकीर्ण नाट्य-परम्परा और सिद्धान्त के प्रति भी विद्रोह किया। इसने समाज की अपेक्षा राजनीति को अपना विषय बनाया तथा नाटक में संघर्ष-तत्त्व को मान्यता दी।

विशाखदत्त के बाद हम संस्कृत नाट्य-साहित्य के एक और शक्तिशाली उल्लेनीय नाटकार—भवभूति को पाते हैं, जिसने संस्कृत नाट्य-धारा में ‘उत्तररामचरित’ के भाव्यम से सर्वथा एक नयी इटिट की अवतारणा की। नाटक के भीतर नाटक—और उसके माध्यम से मनुष्य-जीवन की गहन कहणा को रस-बोध देना। भवभूति के तीन नाटक हमें उपलब्ध हैं :

- मालतीमाधव
- महावीरचरित
- उत्तररामचरित

इन तीनों कृतियों में ‘उत्तररामचरित’ एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका नाट्यशिल्प बहुत ही भौलिक और महत्वपूर्ण है। चरित्र-संगठन तो अपूर्व ढंग से शक्तिशाली है। इस नाटक के ‘व्यापार’ और ‘कार्यपक्ष’ पर संस्कृत काव्य की महत्ती द्याया है। फलतः इसका स्वरूप ‘कथा’, ‘कार्य’ की परम्परागत शिल्प से सर्वथा अलग है।

की भूमिका  
ती है। इनमें  
र ‘गणिका’  
लेखनीय है।

वाक्य’, ‘दूत  
‘अविभारक’

सहज-सरल  
इनमें मिलती  
व्यपूर्ण पीढ़िका  
त हो सकी।  
तरह थे, जैसे  
ये—कलात्मक  
उदात्त महिमा

की। संस्कृत  
त्वय, अभिनय,  
भिज्ञान थांकु-  
क के ये तीनों  
‘आकृत्तलम्’ के  
निमित्त’ और

मृच्छकटिकम्’,  
जिसमें संस्कृत  
व्यभूत सफलता  
यों का सफल

इसमें व्याप्त

भवभूति के साथ ही संस्कृत नाटक का स्वर्णयुग समाप्त हो जाता है। वैसे भवभूति के बाद संस्कृत में सैकड़ों रूपक लिखे गये, किन्तु सभी सिर्फ नाम मात्र के लिये दृश्यकाव्य सिद्ध हो सके। अकेले रामचन्द्र (जैन साधु) ने लगभग सौ रूपकों की रचना की।

**वस्तुतः** इस अन्तिम चरण के लेखक रूढ़िवद्ध होकर मूलतः कवि सिद्ध हो सके। जीवित रंगमंच क्रिया-कलाप के अभाव के कारण नाटक की धारा समाप्त-सी हो गयी।

इसके अन्तिम चरण के नाटककार थे—राजशेखर (६५० ई०), जयदेव (१२५० ई०), इनकी क्रमशः कृतियाँ हैं 'वालरामायण' और 'प्रसन्नराघव'।

इस तरह मध्ययुग के पूर्वकाल में आते-आते संस्कृत नाटक की परम्परा समाप्त हो गयी। रंगमंचीय क्रिया-कलाप इससे भी पूर्व खत्म हो चुके थे।

**वस्तुतः** संस्कृत रंगमंच की अपनी अनेक सीमायें थीं। रंगमंच-बोध के स्तर से संस्कृत नाटकों की चेतना सामंत वर्ग और शास्त्रीयता के बीच से बही। इसका जीवन्त सम्बन्ध समाज और लोक से उतना नहीं रह सका। समाज और लोक से कट जाने का एक कारण संस्कृत और प्राकृत इन दोनों भाषाओं की दुरुहता भी थी।

शूद्रक और विशाखदत्त को छोड़कर कालिदासोत्तर काल के नाटककार नाटक में श्रव्य काव्य के तत्त्व भरने लगे थे।

इस उत्तर काल में नाटक का रंगमंच केवल रचयिता की बुद्धि तथा पाठक की कल्पना-शक्ति में ही सीमित हो गया।

बौद्धों और जैनों ने रंगमंच की बड़ी अपेक्षा और निन्दा की।

**और अन्ततः** मध्यकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी चिन्त्य हुई तथा इस्लामी शक्ति ने इसके हास में काफी योग दिया।

हास की वास्तविक स्थिति स्वयं संस्कृत नाटक और रंगमंच की विशेष प्रकृति और परम्परा में भी छिपी है। यह विशेष समाज-बोध और उसके सौदर्य-बोध से सम्बन्धित होने के कारण क्रमशः विकसित समाज और सौदर्यबोध के संग न चल सका। 'काव्य' तत्त्व की अपेक्षा काव्य-तत्त्व, यथार्थ की अपेक्षा आदर्श तत्त्व, उल्लास तत्त्व की अपेक्षा उपदेश तत्त्व, रंगमंच की अपेक्षा पाठ तत्त्व-संस्कृत नाटक की इन सीमाओं ने मूलरूप से इसके हास में योग दिया।

### मध्यकालीन परम्परा

नवीं-दसवीं शताब्दी में संस्कृत नाटक और रंगमंच की शास्त्रीय परम्परा

क की भूमिका

जाता है। वैसे  
वीर सिर्फ नाम  
(पुष्टि) ने लगभग

कवि सिद्ध हो  
टक की धारा

ई०), जयदेव  
‘सन्तराघव’।

की परम्परा  
चुके थे।

रंगमंच-बोध के  
बीच से वही।

। समाज और  
भाषाओं की

के नाटककार

वृद्धि तथा पाठक

।

छड़ी चिन्त्य हुई

मंच की विशेष

और उसके सौदर्य-


र सौदर्यबोध के

पार्थ की अपेक्षा

परेका पाठ तत्त्व-

ग दिया।

प्रस्त्रीय परम्परा



कोणार्क का नट मन्दिर

भारतीय रंगमंच : इतिहा

नष्ट हो जाने पर मध्य  
अभिव्यक्ति अनेक नाट्य-  
थे तथा साथ ही इनका क्र

वस्तुतः इस मध्ययुगीनी  
सम्बन्ध संस्कृत रंगमंच त  
थह संस्कृत-परम्परा से स  
रहा है—सर्वथा दो स्वतन्त्र  
मुसलमानी युग । दोनों यु  
जार ईस्त्री से पूर्व का यु  
लेकिन सन् एक हजार है  
हो गया । इस लोक-प  
और अपभ्रंश इसकी निर्म  
की शक्ति भी ।

मध्ययुगीन नाट्य-प

○ लोकधर्म नाट्य-

○ धार्मिक नाट्य-प

रंगमंच की परम्परा  
हमारी हट्ठि में रंगमंच क  
कभी नहीं रुकती—वयोर्वा  
राजन्य वर्ग का संरक्षण ।  
नाट्यधर्म परम्परा तभी  
विशेष शास्त्रीय मंच अथवा

मध्ययुग में लोकधर्म  
ब्याह-जादी, मंगल-उत्सव  
रही । कहीं गायन का रूप  
हिंक उत्सव के रूप में ।  
नाट्येतर भी कहे जा सक  
कुट्ठिट पड़ी, न ये ऐसे थे  
विरोध करता ।

भक्ति-आनंदोलन अथवा  
घटना है । इसी भक्ति ने  
रंगमंच के इस रूप को ह  
स्पष्ट घटनायें इस बात क  
ने इसी लोकधर्म परम्परा



वैष्णव रंगमंच : ब्रह्मिका नाट्य रूप ; चौदहवीं शताब्दी

नष्ट हो जाने पर मध्ययुग में नाट्य-वार्ग का उद्भव, विकास और उसकी अभिव्यक्ति अनेक नाट्य-श्रोतों से हुई। ये श्रोत नाटकीय और रंगमंचीय भी थे तथा साथ ही इनका अधिक रूप अर्धनाटकीय तथा नाटकेतर भी था।

**वस्तुतः** इस मध्ययुगीन रंगमंच किया-कलाप और नाट्य-परम्परा का सम्बन्ध संस्कृत रंगमंच तथा उसकी नाट्य-परम्परा से नहीं जोड़ा जा सकता। यह संस्कृत-परम्परा से सर्वथा स्वतन्त्र रूप में पता। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है—सर्वथा दो स्वतन्त्र संस्कृतिक युग। संस्कृत—हिन्दू युग, और मध्ययुग—मुसलमानी युग। दोनों की दो भाषाएँ, दो स्वतन्त्र युग-बोध। सन् एक हजार ईस्वी से पूर्व का युग 'हिन्दू धार्मिकता' का युग कहा जा सकता है, लेकिन सन् एक हजार ईस्वी से बाद का युग अपनी प्रकृति में 'लोकपरक' हो गया। इस लोक-परकता में भाषा और संस्कृति के स्तर पर प्राकृत हो गया। अपभ्रंश इसकी निधियां हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं के उद्भव की शक्ति भी।

मध्ययुगीन नाट्य-परम्परा को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं—

○ लोकधर्मी नाट्य-परम्परा।

○ धार्मिक नाट्य-परम्परा।

रंगमंच की परम्परा अबाव रहती है—जब हम इस सत्य को कहते हैं, तो हमारी हृष्टि में रंगमंच की यह लोकधर्मी परम्परा ही रहती है। **वस्तुतः** यह कभी नहीं रुकती—क्योंकि यह लोक-जीवन में व्याप्त रहती है। इसे न किसी राजन्य वर्ग का संरक्षण चाहिये, न पण्डितों का शास्त्र-सिद्धान्त। इसके विपरीत नाट्यधर्मी परम्परा तभी तक जीवित रहती है, जबतक उसके लिये उसका वह विशेष शास्त्रीय मंच अथवा नाट्य जीवित रहे।

मध्ययुग में लोकधर्मी नाट्य-परम्परा, जीवन, समाज, घर-गृहस्थी में, व्याह-शादी, मंगल-उत्सव के अवसरों पर अनेक कर्मकांड के रूप में जीवित रही। कहीं गायन का रूप धारण करके, कहीं नर्तन के रूप में और कहीं सामूहिक उत्सव के रूप में। इसके अनेक रूप ऐसे भी थे, जो अर्धनाट्य और नाट्येतर भी कहे जा सकते हैं। इन रूपों पर मुसलमान शासकों की न कभी कुहृष्टि पड़ी, न ये ऐसे थे कि कोई भी इनकी विशिष्टता से चौकता या इनका विरोध करता।

भक्ति-आन्दोलन अथवा भक्ति-उदय, मध्ययुगीन संस्कृति की सबसे बड़ी घटना है। इसी भक्ति ने पहली बार अपने उद्भव और लोकप्रियता के लिए रंगमंच के इस रूप को हृदय से ग्रहण किया। इतिहास के अनेक ग्रंथ तथा स्पष्ट घटनायें इस बात की साक्षी हैं कि भक्ति-आन्दोलन के प्रमुख उन्नायकों ने इसी लोकधर्मी परम्परा का सहारा लिया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाटक

के प्रेरणा-स्रोत बने। बंगाल की 'यात्रा' इसका निश्चित स्वरूप बना। मिथिला में 'कीर्तनियों' और आसाम में 'अंकिया' नामक नाट्य-रूपों का प्रचलन हुआ। इन्हीं वैष्णवों की स्पर्धा में शैवों ने 'गम्भीरा' नामक विशिष्ट लोकनाट्य रूप का विकास किया। उत्तर भारत में यही 'गम्भीरा' आगे 'जोगीरा' या 'जगीड़ा' के रूप में लोकप्रिय हुआ। दक्षिण के मलावार में गीतगोविन्द के आधार से 'कृष्णनाट्य' का उदय हुआ। पौराणिक आख्यानों के आधार से अभिनयात्मक नृत्य नाट्य 'कथाकली' का प्रचार भी इसी काल का सत्य है।

इस लोकवर्मी नाट्य-परम्परा का उदय विभिन्न प्रान्तों में इसी प्रेरणा-श्रोत से हुआ, अनेक स्वरूपों में। महाराष्ट्र में 'तमाशा', गुजरात में 'भवाई', राजस्थान में 'माच' और उत्तर प्रदेश में 'स्वांग', 'भगति', 'नौटंकी' और 'बहुरूपिया'।

इन नाट्य-रूपों के अतिरिक्त लोक-जीवन में व्याप्त 'व्याह-शादी' और अनेक मंगल-उत्सव के समय भी अर्ध-नाटक के रूप में अतंर्ख्य स्वरूप विकसित हुए। उत्तर भारत में व्याह के दिनों में नित्य रात में स्त्रियाँ 'नकटा' या 'नकटौरी' गाती हैं। नाटक से विगड़कर बना हुआ यह नकटा शब्द उल्लेखनीय है। इसी तरह और भी अनेक रूप हैं, जो अध्ययन की व्हिट से मनोरंजक हैं—रंगमंच की व्हिट से महत्वहीन।

### धार्मिक नाट्य-परम्परा

मध्ययुगीन धार्मिक नाट्य-परम्परा में मूल रूप से 'लीला' रूप हमारे सामने है। 'लीला' के पीछे भक्ति से ज्यादा, धर्म है।

इसके अन्तर्गत 'रासलीला' और 'रामलीला' यही दो प्रमुख रूप विकसित और उदित हुए। 'रासलीला' की उदयभूमि व्रज है—मधुरा, वृद्धावन तथा इसके मूलाधार हैं, कृष्ण-राधा तथा उनके चरित। 'रामलीला' की रामभूमि है अवध, तथा इसके मूलाधार हैं राम, और उनकी चरितकथा : रामायण। इन दोनों रूपों में रामलीला अपेक्षाकृत बड़े लोक-जीवन, व्यापक समाज का दर्शन है। इसका रंगमंच विस्तृत और विराट है—तथा इसमें रंगमंच के निम्नलिखित स्वरूप मिलते हैं :

१. एक लड़का लड़की बनकर नाचता है। दो ओर, दसन्दस गायकों का कम से गायन होता है—रथयन-परक गायन—उत्तर-प्रसुत्तर, प्रश्न और ज्ञानौती के रूप में। जनता चारों ओर सही ढोकर इसे देखती-मुनती है।

(१) विभिन्न लीला 'चलित रंगमंच'।

(२) एक ओर राम अयोध्या, पंचवटी आदि रंगमंच।

(३) विभिन्न चौक करके उसे रामलीला 'यात्रा रंगमंच'।

रासलीला का रंग स्थान पर इसका प्रदर्शन शुरूगरमय।

पूरी मध्ययुगीन में चाहे जितनी मनोरंजनी इसका कोई विशेष मान नाट्य-कृति मिलती है भक्ति-काव्य, दृश्य, चित्र मंच के स्तर से नहीं।

वस्तुतः पूरे मध्यभावना, तथा पर्दा श्रंखला रंगमंच की जीवित में चेतना और सौन्दर्य नाटक के विश्व पड़ते हैं :

### भारतीय रंगमंच : इतिहास और परम्परा

की भूमिका

। मिथिला  
वलन हुआ ।

कनाट्य रूप  
या 'जगीड़'  
के आधार से  
अभिनयात्मक

इसी प्रेरणा-  
त में 'भवाई',  
'ही' और 'वहु-

'दी' और अनेक  
विकसित हुए ।  
'नकटीरी' गती  
है। इसी तरह—  
रंगमंच की

रूप हमारे सामने

मुख रूप विकसित  
हो, वृद्धावन तथा  
'। की रंगभूमि है  
: रामायण। इन  
समाज का दर्शन  
मंच के निम्नलिखित

गायकों का जम से  
र चुनौती के रूप में ।

(१) विभिन्न लोलाओं को विभिन्न देश, स्थान तथा स्थिति में करना—

'चलित रंगमंच' ।


(२) एक और राम का मंच दूसरी ओर रावण का मंच—अर्थात् एक और  
अयोध्या, पंचवटी आदि दूसरी ओर लंका, बड़त बड़े मैदान में यह 'मुक्त आकाशी  
रंगमंच' ।

(३) विभिन्न चौकियों पर राम-चरित के विभिन्न हश्यों का अभिनीति  
करके उसे रामलीला चौकी के रूप में निकालना—'ट्रेवलो' के रूप में—यह है  
'यात्रा रंगमंच' ।

रामलीला का रंगमंच इसके विपरीत एक रूपवादी स्वरूप है। विरे हुए  
स्थान पर इसका प्रदर्शन। वृत्त्य और गायन से पूर्ण। प्रकृति से कोमल और  
शृंगारमय ।

पूरी मध्ययुगीन नाट्य-द्वारा और उसकी रंगमंच-परम्परा इतिहास के रूप  
में चाहे जितनी मनोरंजक हो, किन्तु जीवित महत्वपूर्ण रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में  
इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इस पूरे युग में न हमें कोई एक महत्वपूर्ण  
नाट्य-कृति मिलती है न रंगमंच का कोई स्तरीय रूप। इस पूरे युग का महत्व  
भक्ति-काव्य, वृत्त्य, चित्र आदि की उपलब्धियों में देखा जायगा, नाटक और रंग-  
मंच के स्तर से नहीं ।

**वस्तुतः** पूरे मध्ययुगीन जीवन पर जहाँ दया, ग्लानि, वैराग्य, माया की  
भावना, तथा पर्दा और मुसलमानी संस्कृति की छाप रही हो, वहाँ नाटक और  
रंगमंच की जीवित महत्वपूर्ण विद्या का प्रश्न ही नहीं उठता। भावना, विश्वास,  
चेतना और सौन्दर्य-बोध—इन सभी दृष्टियों से वस्तुतः मध्ययुग रंगमंच और  
नाटक के विस्तृ पड़ता है ।



पट्टा कुणिता  
मैसूर के शिव मन्दिर में प्रचलित पूजा-नाट्य। 'जर्जर' नामक  
इन्द्र-द्वज पूजा-समारोह की परम्परा

दूसरा भाग  
पाश्चात्य रंगमंच  
कृतित्व पक्ष (झामा)

**पा**रंगमंच का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यूनान देश में हुआ जिसे इतिहास-कारों ने 'थियेटर आफ डायोनिसस' की संज्ञा दी है। यूनानियों को प्रकृति में अपार श्रद्धा थी, क्योंकि उसी में से उन्हें महान् शक्ति का अनुभव हुआ था। विशेषकर प्रकृति के परिवर्तनशील हश्यों को देखकर तथा उसके अटल नियमों को अनुभूतकर यूनानियों ने प्रकृति में एक दैवी शक्ति की कल्पना की, जो मानव को सुख-संतोष और समृद्धि देने वाली थी। उसी शक्तिमय कल्पना के सहारे स्वामावतः यूनानियों ने अपने आदि देवता के रूप-निर्माण और उसकी पूजा-आराधना को निश्चित किया। सर्वप्रथम उस दैवी-शक्ति के रूप में 'डायोनिसस' तथा 'बैक्स' देवता का अवतरण यूनानी जीवन में हुआ। कहा जाता है कि 'डायोनिसस' देवता केवल समाज-पोषक ही शक्ति-देव न थे, वरन् वह प्रकृति के विशाल तथा वैभवशुरुं जीवन के भी प्रतीक थे। वही प्रकृति को जीवन-दान देते, वही प्रकृति की उदात्त परिवर्तनशीलता की आदि शक्ति थे। फलतः वही समग्र जीवन के दाता, रक्षक और सुन्दरता के मूल थे। अतएव यूनानियों ने बड़ी जीवनपूरण और भव्य ढंग से अपने इस 'डायोनिसस' की पूजा की।

### डायोनिसस का थियेटर

डायोनिसस के पूजन-आराधन मुख्यतः वंसत के दिनों में होते थे, जो निश्चय ही यूनानियों के जीवन के लिये अपूर्व आनन्द और उल्लास का प्रतीक होता था। शारीरिक आनन्द और स्फूर्ति देने वाला, शोक-चिन्ता को हरने वाला, ऐसा अद्भुत देवता हो तो जीवन में उसके प्रति इतनी श्रद्धा और आलाद का भाव क्यों न उत्पन्न हो ?

'डायोनिसस' की इस पूजा-पद्धति में पश्चिम के आदि रंगमंच का सूत्रपात हुआ। कैसे ? इसकी पूजा-प्रक्रिया कैसी थी तब ? 'डायोनिसस' की पूजा-आराधना में पहले-पहल एक प्रमुख गायक यूनानियों की टोलियों के सामने आता और 'डायोनिसस' की प्रशंसा में गीत गाता, फिर नृत्य द्वारा उस देवता को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता। साथ ही वह दूसरे देवता ('बैक्स' अथवा जो शराब और विशुद्ध भोग के देवता माने जाते थे) सुरादेव की भी प्रशंसा में गीत गाता और उसके लिये अपने नृत्य-भाव अर्पित करता। इन नृत्य-भीतों के साथ ही

साथ थीरे-धीरे प्रमुख गायक के गायन तथा नर्तन में तन्मय होकर दर्शक लोग उसमें सहज ही योग देने लगे। आगे फिर गायकों की टोली एक से दो और दो से चार-छः ही गयी। आगे चलकर यही नृत्य-गायन की टोली, युनानी जीवन (रंगमंच) में 'कोरस' अथवा 'सहगायन' कहलाई।

'ड्रामा' का जन्म अपने बीज रूप में 'डायोनिसस' की पूजा-प्रतिष्ठा में गये गये इसी 'कोरस' अथवा 'सहगायन' के मध्य से हुआ। 'ट्रेजडी' का आदि अर्थ है—'गोट साँग' क्योंकि उस पूजन-समारोह में बकरे की बलि भी ही जाती थी।

छठों शताब्दी ई० पू० में युनान के 'थेस्पिस' नामक एक व्यक्ति ने 'कोरस' में एक परिवर्तन किया—कोरस में वातलाण का प्रयोग। आगे चलकर इसमें तीसरा तत्त्व कथा का मिलाया गया—फिर देवताओं का स्थान कालान्तर में श्रेष्ठ बीरों तथा नायकों ने ले लिया। इस तरह 'ड्रामा' की सम्पूर्ण स्थिति पूरी दिख गई। शेष रह गया—भीतिक मंच, जिस पर यह 'ड्रामा' प्रस्तुत हो।

इसके लिये प्रायः ई० पूर्व पाँच सौ में सर्वप्रथम 'थियेटर आफ डायो-निसस' का निर्माण हुआ। यह एथेन्स के 'एकोपोलिस' नामक पर्वत के चरणों में स्थित था। यह अर्धवृत्ताकार था और ऊपर से हुला था। दर्शकों के बैठने के लिये पंचितार्या एक के ऊपर एक चट्टानें काटकर बनायी गयी थीं। स्वभावतः मंच भी पत्थर का बना था और उसके पीछे एक कलात्मक ऊँची दीवार थी। दर्शकों की संख्या पचास से तीस हजार तक होती थी। मुख्य मंच के ठीक सामने एक नीचा अर्द्धवृत्ताकार छोटा-सा मंच और होता था, जिसे 'आर्केस्ट्रा' कहते थे। मंच के मध्य में 'डायोनिसस' की वेदी होती थी, जिसके चारों ओर नृत्य होते थे। इस वेदी के पास की सीटें संगमरमर की होती थीं, जो पुजारियों तथा मजिस्ट्रेटों के लिये सुरक्षित थीं। वेदी के ठीक नीचे 'डायोनिसस' का पुजारी बैठता था। उसके दायीं और सूर्य देवता 'एपोलो' का पुजारी और वार्षी और नगर देवता 'ज्यूस पोलियस' का आसन होता था। नृत्य और संगीत के इस पूजन-आराधन समारोह में 'थियेटर आफ डायोनिसस' के मंच पर युनानी देवताओं और राजन्य वर्ग के महापुरुषों का जीवन-चरित दिखाया जाता था।

'थियेटर आफ डायोनिसस' की इस रंग-प्रतिष्ठा में सर्व प्रथम 'ड्रामा' का उदय हुआ। अतः 'ड्रामा' की कला तथा उसके सिद्धान्त भी सर्वप्रथम वहाँ सूत्रबद्ध हुए।

ई० पू० पाँच सौ से लेकर चार सौ ई० पू० तक का सौ वर्षों का समय युनानी ड्रामा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि प्राचीन युनान के तीन महान् नाटकाकार—एस्कीलस, सोफोकलीज और यूरोपाइडीज इसी काल में हुए। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम 'अरस्तू' ने लगभग ३३० ई० पू० में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पोइटिक्स' की रचना की। इसने इस महान् पुस्तक में

काव्य की परिस्थिति अरस्तू ने 'ट्रेजडी' के आधार से उसे

ड्रामा क्या है?

अरस्तू ने 'ड्रामा' की कोई स्वतन्त्र में उसके कुछ ऐसे के लक्षण प्रस्तुत

(१) 'एक तर्कोंकि माध्यम समाख्यान द्वारा आजाए और चलते-

(२) 'तभी कुछ जाता है'

उक्त उद्धरणों निकाला जा सकता ध्यापार का प्रदर्शन भाँति अनुकरण-सिद्धान्त

अनुकरण-सिद्धान्त

अरस्तू के काव्य वस्तुपरक अंकन, जिनकह सकते हैं। 'अनुकरण-किया है—और जिसका 'A copy of life, a

अतएव अनुकरण-

१. अरस्तू का काव्य

में तन्मय होकर दर्शक लोग  
की टोली एक से दो और दो  
जीवन की टोली, यूनानी जीवन

स' की पुजा-प्रतिष्ठा में गाये  
आ। 'ट्रेजडी' का आदि अर्थ  
की वलि भी दी जाती थी।  
प्रथमक एक व्यक्ति ने 'कोरस'  
प्रयोग। आगे चलकर इसमें  
तात्रों का स्थान कालान्तर में  
'मामा' की सम्पूर्ण स्थिति पूरी  
र यह 'ड्रामा' प्रस्तुत हो।  
प्रथम 'थियेटर आफ डायो-  
स' नामक पर्वत के चरणों में  
ला था। दर्शकों के बैठने के  
नायी गयी थीं। स्वभावतः  
कलात्मक ऊँची दीवार थी।  
। मुख्य मंच के ढीक सामने  
था, जिसे 'आर्कस्ट्रा' कहते  
थी, जिसके चारों ओर नृत्य  
होती थीं, जो पुजारियों तथा  
चें 'डायोनिसस' का पुजारी  
का पुजारी और वार्षी और  
नृत्य और संगीत के इस पूजन-  
मंच पर यूनानी देवताओं  
खाया जाता था।

ठा में सर्व प्रथम 'ड्रामा' का  
सिद्धान्त भी सर्वप्रथम वहीं

तक का सौ वर्षों का समय  
सिद्ध हुआ, क्योंकि प्राचीन  
पोकोक्लीज और यूरोपाइडीज  
ने लगभग ३३० ई० पू० में  
इसने इस महान् पुस्तक में

काव्य की परिभाषा और कला-सिद्धान्तों को सूत्र बढ़ किया। इसी प्रसंग में  
अरस्तू ने 'ट्रेजडी'—(ड्रामा) को काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप माना और इसी  
के आधार से उसने 'ड्रामा' के सिद्धान्तों का विवेचन किया।

### ड्रामा क्या है ?

अरस्तू ने 'ड्रामा' को काव्य का प्रमुख भेद माना। यद्यपि उसने 'ड्रामा'  
की कोई स्वतन्त्र परिभाषा नहीं की, किन्तु कला और काव्य के सिद्धान्त-विवेचन  
में उसके कुछ ऐसे विवेचनात्मक संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर 'ड्रामा'  
के लक्षण प्रस्तुत किये जा सकते हैं :

(१) 'एक तीसरा भेद और भी है—इस विषय की अनुकरण रीति का,  
क्योंकि माध्यम एक हो और विषय भी एक हो, किर भी कवि या तो  
समाख्यान द्वारा अनुकरण कर सकता है—अथवा अपने सभी पात्रों को जीवित-  
जागृत और चलते-फिरते प्रस्तुत कर सकता है।'

(२) 'तभी कुछ लोगों का कहना है कि इन काव्यों को 'ड्रामा' इसलिये कहा  
जाता है कि इनमें कार्य-व्यापार का निर्दर्शन रहता है।'

काव्यशास्त्र (पोइटिक्स) पृष्ठ ११—१२

उक्त उद्धरणों के आधार पर यह निपक्ष 'ड्रामा' के विषय में सहज ही  
निकाला जा सकता है कि ड्रामा काव्य का वह महत्वपूर्ण रूप है जिसमें कार्य-  
व्यापार का प्रदर्शन रहता है। और 'ड्रामा' की प्रकृति काव्य के स्वरूप की ही  
भाँति अनुकरण-सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है।

इस प्रकार यह 'ड्रामा' के अर्थ और परिभाषा की दिशा में पहला सिद्धान्त है।

### अनुकरण-सिद्धान्त (The Theory of Imitation)

अरस्तू के काव्यशास्त्र में 'अनुकरण' से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का  
वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण  
कह सकते हैं। 'अनुकरण' सिद्धान्त को 'सिसरो' ने जिस अर्थ में ग्रहण  
किया है—और जिससे आज तक के सभी नाट्याचार्य सहमत हैं, वह है  
'A copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth'.

अतएव अनुकरण के इस सिद्धान्त के अनुसार ड्रामा जीवन का यथार्थ-

१. अरस्तू का काव्यशास्त्र, अनुवादक, डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ ६४

निष्ठ चित्र है, जिसके अनुसार ड्रामा-लेखक को ऐसी कृति की रचना करनी चाहिये, जो मंच पर प्रस्तुत होकर ऐसे लगे, जैसे वह जीवन का सच्चा प्रतिरूप है। उसके कथोपकथन ऐसे हों जो दर्शक के लिये ऐसे मिथ्ये हों कि मानो वह सीधे जीवन से ग्रहण किये गये हैं। इस प्रकार ड्रामा का सबसे मुन्दर रूप वह है जो जीवन के अनुरूप ही दर्शक को अपना रूप और प्रभाव दिखा सके। पर क्या जीवन का ऐसा सच्चा अनुकरण किसी भी लेखक के लिये संभव है? जीवन अपनी विराट गरिमा और आश्चर्यजनक सूक्ष्मता में विचित्र ही है, जिसे सम्पूर्ण रूप में कृतिकार द्वारा वैसा-का-वैसा ही ग्रहण कर पाना और उससे भी कठिन कार्य उसे उसी तरह अभिव्यक्त कर पाना निश्चय ही असंभव है।

**वस्तुतः** अनुकरण के इस सिद्धान्त पर महान् ड्रामा लिखे भी नहीं गये, न किसी महत्वपूर्ण ड्रामा-लेखक ने इसे इस तरह स्वीकार ही किया। 'ड्रामा' को जहाँ जीवन से आगे कला की भूमिका दी गयी, वहाँ ड्रामा-लेखन की प्रेरणा में यथार्थ जीवन से आवश्यक सामग्री के चुनाव की बात बड़े लेखकों ने उठायी है। इस संदर्भ में इस चुनाव से भी अधिक मूल्यवान् तत्व हैं, यथार्थ की दिशा में लेखक की व्यंजना-शक्ति, जिसके आधार से ड्रामा में व्यवहृत साधारण से साधारण घटना, कार्यव्यापार तत्व से लेखक अपनी कृति में मानव जीवन के चिरन्तन रहस्य और मानव-चरित्र के गूढ़ रहस्य के प्रति प्रकाश फैला दे।

ड्रामा के अर्थ में 'अनुकरण' की परम यथार्थवादी दृष्टि अरस्तू की कदापि नहीं थी—इससे प्रायः सभी आलोचक-निवारक सहमत हैं। अरस्तू ने 'अनुकरण' शब्द का प्रयोग प्लेटो आदि की भाँति स्थूल—यथावत प्रतिकृति के अर्थ में नहीं किया। बल्कि अरस्तू ने अनुकरण का अर्थ लिया है जैसा यथार्थ होता है वैसा नहीं, बल्कि जैसा वह इन्द्रियों को प्रतीत होता है। इस विकास में अरस्तू के आधुनिक टीकाकार 'पाट्स' ने अनुकरण का अर्थ इस भाव-स्तर से बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, जो निश्चय ही अरस्तू के तद्विषयक विचार को सही अर्थों में प्रकट करता है—'अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन, जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है।' पाट्ग के अनुसार वास्तव में 'अनुकरण' का अर्थ है—आत्माभिव्यंजन से भिन्न, जीवन की अनुभूति का पुनर्जन।

### इच्छाशक्ति का द्वन्द्व

'ड्रामा' को जब उसके अविभाज्य अंग थियेटर के परिप्रेक्ष्य में रखकर

पारचात्य रंगमंच : कृतित्व

उसको परिभाषा ढूँढ़ी जथियेटर—'विल'—इच्छा है। इस प्रकार में ड्रामा के बहुत प्रसिद्ध है :

"Drama is a rep with the mysterious belittle us. It is one o struggle against fatal fellow mortals, agains the interests, the prej around him?"

उक्त कथन जितना 'ड्रामा' हित्य के अन्य प्रकार— संघर्ष, द्वन्द्व-प्रतिद्वन्द्व तत्व की अपनी विशेष भूमिका ड्रामा—एक कला-प्रकार, निजत्व क्या है? जिसके कर सकता—यह जानता,

ड्रामा  
दर्शक-सापेक्ष्य

'ड्रामा' अपनी प्रकृति ड्रामा में दर्शक सत्य-सनातन कभी कल्पना और परिकल्प ध्यान देने की बात यह है। है कि जिससे कोई कहानी अके मध्य में एक ऐसी कथा-पर अभिनेताओं द्वारा दर्शकों विकास अब इस तरह हुआ बोध दर्शक को कथा की व्य

गाटक की भूमिका

रचना करनी  
का सच्चा प्रति-  
सिद्ध हो कि मानो  
सबसे सुन्दर रूप  
भाव दिखा सके।  
लिये संभव है?  
विनिव ही है, जिसे  
ना और उससे भी  
ग्रंथमउ है।

हे भी नहीं गये, न  
किन। 'ड्रामा' को  
गा-लेखन की प्रेरणा  
दे लेवकों ने उठायी  
हैं, यथार्थ की दिशा  
व्यवहृत साधारण  
नी कृति में मानव  
इस्य के प्रति प्रकाश

ग्रंथ ग्ररस्तू की कदापि  
है। अरस्तू ने 'अनु-  
वत प्रतिकृति के ग्रंथ  
है जैसा यथार्थ होता  
है। इस विकास में  
ग्रंथ इस भाव-स्तर से  
नदविपथक विचार को  
नुकरण का आशय है  
ग्रंथवा व्यक्ति के शुद्ध  
तत्व में 'अनुकरण' का  
पुनर्जन।

उसकी परिभाषा ढूँढ़ी जाने लगी तो बाद के विद्वानों ने कहा कि 'ड्रामा' में  
वियेटर—'विल'—इच्छा-शक्ति को कार्यरूप में प्रस्तुत होने का उद्देश्य चाहता  
है। इस प्रसंग में ड्रामा के प्रसिद्ध आचार्य 'विलियम आर्चर' का यह कथन  
बहुत प्रसिद्ध है :

"Drama is a representation of the will of man in conflict  
with the mysterious powers or natural forces which limit and  
belittle us. It is one of us thrown living upon the stage there to  
struggle against fatality, against social law, against one of his  
fellow mortals, against him self if need be, against the ambitions,  
the interests, the prejudices, the folly, the malevolence of those  
around him?"

उक्त कथन जितना 'ड्रामा' के विषय में लागू है, निश्चय ही वह उतना  
साहित्य के अन्य प्रकार—उपन्यास, कहानी आदि पर भी लागू है। वस्तुतः  
संघर्ष, द्वन्द्व-प्रतिद्वन्द्व तत्त्व पश्चिम के मार्वभौम सत्य हैं। इस संदर्भ में 'ड्रामा'  
की अपनी विशेष भूमिका और परिभाषा क्या है, यह विचारणीय है।  
ड्रामा—एक कला-प्रकार, एक काव्य-प्रकार, एक साहित्य-विद्या का अपना  
निजत्व क्या है? जिसकी समानता कोई कला, कोई साहित्यकार नहीं  
कर सकता—यह जानना, 'ड्रामा' की प्रकृति का अन्वेषण है!

## ड्रामा की मौलिक विशेषता

### दर्शक-सापेक्ष

'ड्रामा' अपनी प्रकृति और विद्या विशेष में सबसे अलग यहाँ यह है कि  
ड्रामा में दर्शक सत्य-सनातन से जुड़ा हुआ है। विना दर्शक के किसी ड्रामा की  
कभी कल्पना और परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। पर यहाँ विशेष रूप से  
ध्यान देने की वात यह है कि ड्रामा इस आधार से मात्र कोई ऐसी कला नहीं  
है कि जिससे कोई कहानी अथवा घटना दर्शक से कहीं जाय—अपितु 'ड्रामा'  
के मध्य में एक ऐसी कथा-कहानी अवश्य है जिसकी व्याख्या—अर्थवोध, मंच  
पर अभिनेताओं द्वारा दर्शकों को कराया जाता है। अतएव पहली स्थापना का  
विकास अब इस तरह हुआ कि ड्रामा की कल्पना अथवा उसके अस्तित्व का  
बोध दर्शक को कथा की व्याख्या देने वाले अभिनेता के विना हो ही नहीं

1. Play making (1926) p. 23.

सकता। स्पष्ट है, ड्रामा के इस धरातल में दर्शक और अभिनेता दो सत्य मिले हैं—और दोनों विशुद्ध मानव-सत्य हैं—बल्कि मानव हैं। अतः जो कुछ ड्रामा से हमें व्याख्या के लिये अपेक्षित है—वह है मानव-तत्त्व। इसलिये 'ड्रेमेटिस्ट' के लिये यह ध्यान में रखना सदा-सर्वदा आवश्यक है कि उसका ड्रामा अभिनेताओं द्वारा मंच पर दर्शक के लिये प्रस्तुत होने के लिये कृतित्व की संज्ञा पा रहा है, जो दोनों स्तरों से एक विशुद्ध मानव-सत्य है।

इन तत्त्वों के फलस्वरूप ड्रामा साहित्य के अन्य प्रकारों की अपेक्षा स्वभावतः अपने अस्तित्व के चारों और अपनी सीमाओं की दीवार छीच लेता है। इस दिशा में ड्रामा की पहली सीमा है—‘समय’ की। क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध है दर्शक-वर्ग से—जो कुछ समय के भीतर ही ‘ड्रामा’ देख चुकना स्वीकार करेगा। यही स्थिति अभिनेता की भी है—वह मंच पर उतनी ही देर तक अमिनय कर सकता है, वह उतना ही अभिनय कर सकता है जितना कि मनुष्य से संभव होगा। वह अपनी मानवीय परिस्थिति के परे नहीं जा सकता। इस मानव-सत्य को ‘वर्णांडिशा’ ने बहुत ही मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया है—‘ड्रामा’ लिखते समय में ड्रामा के सिद्धान्तों से नहीं अनुशासित होता—ड्रामा लिखने के नियमों को भी मैं नहीं जानता, बल्कि वे नियम और सिद्धान्त असंख्य कारणों से युक्त मुझपर स्वयं लागू हो जाते हैं: उनके रंग-अनुष्ठान की भौतिक सीमाओं तथा नियमों से, उनके उपस्थापन में आग लगने तथा अन्य दुर्बंधनाओं की स्थिति में मुनिसिपैलिटी द्वारा बनाये गये कानून के ढरों से, अभिनय-कला की सीमाओं से, दर्शकों द्वारा ड्रामा के द्वारा देख-मुनकर उसे समझने की सीमा से—(इनके अतिरिक्त) मुझे अपनी पाकेट का भी ध्यान रखना होगा, ड्रामा कम्पनी के मैनेजर की पाकेट का भी ध्यान रखना होगा, (साथ ही) अभिनेता और दर्शकों की पाकेट का भी ध्यान, इसके अलावा यह भी सोचना होगा कि दर्शक कितनी देर तक के लिये जलपान और विश्राम के बिना ड्रामा देखने के लिये बैठ सकता है।—व्यावहारिक सत्य के ये अनेक पक्ष ड्रामा-लेखन को प्रभावित करते हैं।<sup>१</sup>

साहित्य का यह अनुष्ठान प्रकार ‘ड्रामा,’ साहित्य के अनेक प्रकारों से कितना भिन्न है! रंगमंचगत इतनी सीमाओं, इतने विचारों और जीवनगत इतनी मान्यताओं से अनुशासित होता है। कथा और कविता की मर्यादाओं और उनकी स्वतंत्र शैली से यह ‘ड्रामा’ कितना भिन्न है। ड्रामा-लेखक शब्दों से अपनी रचना करता है—किन्तु वे शब्द ऐसे जो ड्रामा के पात्रों के मुँह में रखकर उजागर होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। सीधे ड्रामा-लेखक की ओर से भी वे शब्द

१. New York Times, June 2, 1912.

पाश्चात्य रंगमंच  
नहीं आ सकते  
किये जाते हैं  
योग्य हों।

सत्याभास का

‘ड्रामा’ जो  
खड़ा करता है  
सत्याभास पैदा  
पर प्रस्तुत होते  
से अविक दर्शक  
उसकी ग्रहण-शा  
से। इस संदर्भ  
सत्य ‘ड्रामा’ जो

ड्रामा का मूल

‘ड्रामा’ के  
ओर सहज ही सं  
दी जा सकती है  
है। और इस के  
अभिव्यक्ति देने  
हश्यरूप में उसे

निश्चित ही  
है, जिससे कि इस  
उसकी विभिन्नता

पर ड्रामा के  
इसकी अपनी अपूर्व  
क्या है? इसकी अ

और नाटक की भूमिका

र अभिनेता दो सत्य मिले हैं। अतः जो कुछ ड्रामा चर। इसलिये 'ड्रेमेटिस्ट' कि उसका ड्रामा अभिलिये कृतित्व की संज्ञा पा

पकारों की अपेक्षा स्वभावी दीवार खीच लेता है।

। क्योंकि इसका सीधा ही 'ड्रामा' देख चुकना वह मंच पर उतनी ही देर कर सकता है जितना कि के परे नहीं जा सकता। एक रूप में प्रस्तुत किया हीं अनुशासित होता— कि वे नियम और सिद्धान्त : उनके रंग-अनुष्ठान की आग लगने तथा अन्य गये कानून के डरों से, के द्वारा देख-सुनकर उसे भी पाकेट का भी ध्यान भी ध्यान रखना होगा,

यान, इसके अलावा यह पान और विश्राम के बिना त्यके ये अनेक पक्ष ड्रामा-

। अनेक प्रकारों से कितना भी और जीवनगत इतनी वेता की मर्यादाओं और ड्रामा-लेखक शब्दों से अपनी पात्रों के मुँह में रखकर क की ओर से भी वे शब्द

नहीं आ सकते। और पात्रों के मुँह में भी वे शब्द इस मान्यता से प्रतिष्ठित किये जाते हैं कि वे अभिनेताओं द्वारा मंच पर दर्शकों को सम्प्रेषित करने योग्य हों।

### सत्याभास का प्रश्न

'ड्रामा' जीवन का दर्पण है—यह सत्य हमारे सामने एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करता है—क्या ड्रामा का रंग-अनुष्ठान दर्शक के लिये ऐसा शक्तिशाली सत्याभास पैदा करता है कि वह यह विश्वास करने लगे कि जो कुछ वह मंच पर प्रस्तुत होते हुए देख रहा है, वह साक्षात् जीवन है? यह प्रश्न ड्रामा-लेखक से अधिक दर्शक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखता है—विशेषकर दर्शक के मन से, उसकी ग्रहण-शक्ति से और सबसे अधिक उसकी कल्पना अथवा सज्जन-शक्ति से। इस संदर्भ में दर्शकवर्ग में कई कोटियाँ हो सकती हैं, किन्तु सत्याभास का सत्य 'ड्रामा' और उसके रंग-अनुष्ठान का परम शाश्वत पक्ष है।

### ड्रामा का मूलाधार

'ड्रामा' के विषय में अब तक इतने विचार के बाद ड्रामा के मूलाधार की ओर सहज ही संकेत किया जा सकता है। 'ड्रामा' की एक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि ड्रामा जीवन के विषय में विचार व्यक्त करने की एक कला है। और इस कला का रूप भी ऐसा कि जिसके विचारों को व्यावहारिक अभिव्यक्ति देने के लिये अभिनेता रंगशाला में बैठे हुए दर्शकगण के सामने हस्तरूप में उसे उपस्थित करता है।

निश्चत ही 'ड्रामा' की यह परिभाषा अपने बाह्य तत्वों के ही साथ अधिक है, जिससे कि इसके रूप और प्रकृति में साहित्य और कला के अन्य प्रकारों से उसकी विभिन्नता सिद्ध है।

पर ड्रामा केवल बाह्य तत्व नहीं है। न यह केवल शिल्प-चमत्कार ही है। इसकी अपनी अपूर्व शक्तिशाली आन्तरिकता है। ड्रामा की यह आन्तरिकता क्या है? इसकी आन्तरिक प्रकृति, परिभाषा और शक्ति-सम्पन्नता—!

में कथानक  
मानव-तत्त्व  
स्मरणीय है

ड्रामा  
दर्शक के अंतर्गत से, विना विद्या  
ऐसी घटना और आपने

## धर्मितायें

ड्रामा  
धर्मितायें हैं  
स्वभावतः  
कला की प्रकृति कला के विषय के एक दूसरी की। “जब करनी है। जब उसने निर्दिति स्थान है, कल्पना-जग

इसमें है, जो जीवन का तथा बेंद्री है।”

इसके से ड्रामा का

## ‘ड्रामा और ड्रैमेटिक’

‘ड्रामा’ और ‘ड्रैमेटिक’ ये दोनों शब्द प्रायः जीवन-क्षेत्र के व्यवहारों में प्रयुक्त होते हैं। अप्रत्याशित रूप से किसी घटना का घट जाना, दो शत्रुओं का सहसा मिलन हो जाना, ऐसे क्षणों पर अक्सर लोगों के मुँह से यह निकल पड़ता है कि ‘अमुक का अंत वड़ा ड्रैमेटिक’ रहा; ‘अमुक स्थान पर आज एक ‘ड्रैमेटिक’ घटना घटी।’ इस प्रकार ‘ड्रैमेटिक’ के भावबोध में ‘अप्रत्याशित तत्त्व,’ ‘घटना,’ ‘संयोग,’ ‘आकस्मिक प्रक्रमण’ (शांक), ‘क्षोभ’ और ‘मानसिक धक्का’ आदि के प्रभाव मिले रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष कारण है—दर्शक-वर्ग, जिसको दिखाने के लिये, जिसके मनोरंजन और उसकी स्वाभाविक मानसिक भूगती परिवर्तिति के लिये ‘ड्रामा’ रखे जाते हैं। इसके उदाहरण में प्राचीन अथवा आधुनिक काल की कोई भी ड्रामा की रचना ली जा सकती है। अरस्तू ने स्वयं अपने काव्य-शास्त्र में ‘अभिज्ञान’ (Recognitions & discoveries) के घटात्मा से इस ‘ड्रैमेटिक’ भावबोध के ऊपर काफी विस्तार में प्रकाश डाला है।

“अभिज्ञान का सबसे उत्कृष्ट रूप वह है जहाँ वह स्थिति विवरण के साथ ही घटित होती है—जैसे ‘श्रीडिग्स’ में—ऐसा अभिज्ञान विवरण के साथ मिलकर या तो करुणा जगायेगा या त्रास, और हमारी परिभाषा के अनुसार ऐसे ही प्रभावों के उत्पादक कार्य-व्यापारों का त्रासदी में चित्रण किया जाता है।”<sup>१</sup>

इस ड्रैमेटिक तत्त्व से ग्रीक ड्रामा और शेक्सपियर के दुखान्तकी भरे पड़े हैं। शेक्सपियर का ‘हैमलेट’ इस ‘ड्रैमेटिक’ का सुन्दरतम उदाहरण है। हैमलेट के पिता का मृत रूप में सहसा प्रकट होना, हैमलेट का आगे पांगलयन की स्थिति में सहसा पहुँच जाना, क्लाउडियस के धोखे में अप्रत्याशित रूप में ‘लोनियस’ की हत्या कर देना, आदि आकस्मिक प्रक्रमण, संक्षोभ और मानसिक धक्के के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ‘ड्रैमेटिक’ का यह सत्य ड्रामा के अन्तर्गत केवल दुखान्तकी में ही नहीं है, वरन् मुखान्तकी में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ‘आस्कर वाइल्ड’ का ‘दी इम्पारेटेस आफ बीइंग बर्नेस्ट’ इसका चिरसमरणीय उदाहरण है।

किन्तु ‘ड्रैमेटिक’ के इस वाह्य भाव को ‘ड्रामा’ की रचना में आन्तरिक अर्थ में देखना और उसका सर्वथा प्रयोग करना ‘ड्रामा’ को महत्वपूर्ण बनाना है। जो वाहर से अप्रत्याशित घटना है, कार्य-व्यवहार है, उसके अन्तस्तल में ड्रामा अपनी रागात्मक और काव्यात्मक दिशा में निरंतर विकसित होता दीख पड़े, यह ड्रामा की प्रकृति का बहुत वड़ा तत्त्व है। साथ ही ये ‘ड्रैमेटिक’ तत्त्व समूचे ड्रामा

१०. अरस्तू का काव्य-शास्त्र : अनुवादक, डॉ० नरेन्द्र : पृष्ठ ३०

नाटक की भूमिका

क्षेत्र के व्यवहारों में नामा, दो शब्दों का मुँह से यह निकल थान पर आज एक 'अप्रत्याशित तत्त्व,' और 'मानसिक धक्का' दर्शक-वर्ग, जिसको न मानसिक भूम्य की में प्राचीन अवधारकती है। अरस्तू ने

ति विविध के नाथ विध के साथ गिलकर उत्तरार ऐसे ही प्रभावों में है।<sup>19</sup>

नातकी भरे दड़े हैं। यरा है। हैमेट के पापलन की स्थिति में 'लोनियर' की मानसिक धक्के के गंगत केवल दुखानकी उपलब्ध है। 'आस्कर मरणीय उदाहरण है। ना में आन्तरिक अर्थ हृत्पूर्ण बनाना है। के अन्तस्तल में ड्रामा त होता दीख पड़े, यह क' तत्त्व समूचे ड्रामा

में कथानक, चरित्र और छन्द के धरातल से किस प्रकार उसके विचार-तत्त्व, मानव-तत्त्व से गुणकर रचित हुए हैं कि ड्रामा अपने एकान्त प्रभाव में चिर-स्मरणीय हो, यह ड्रामा की अपनी विशेष कला है।

ड्रामा की परिकल्पना प्रस्तुतिकरण-स्तर से जिस प्रकार किना अभिनेता और दर्शक के असंभव है, ठीक उसी प्रकार 'ड्रामा' की रचना अपने मृजन के स्तर से, विना जिज्ञासापूर्ण घटना, संवेद स्थिति के, कलात्मक चयन के कठिन है—ऐसी घटनाएँ, स्थितियाँ, कार्य-व्यापार जो अपनी मौलिकता, अप्रत्याशितता, और अपने अनोखेपन तथा निरालेपन से हमें विसोद्धित कर लें।

### धर्मितायें

ड्रामा एक कला है, स्वाभावतः अन्य कलाओं की भाँति इसकी अपनी कुछ धर्मितायें हैं, जिनसे इसको अपना सहज व्यक्तित्व प्राप्त होता है। ये धर्मितायें स्वभावतः 'ड्रामा' में प्राचीन काल से आज तक विद्यमान हैं। अरस्तू ने समग्र कला की परिभाषा देते हुए जब कहा कि "समस्त कला अनुकरण मात्र है" यह कला के विषय में उसकी व्याख्या, अवधारणा थी—जिससे असंतुष्ट होकर यूनान के एक दूसरे आलोचक और दार्शनिक ज्लेटो ने इस अवधारणा की कठु ग्रालोचना की। "जब कला अनुकरण मात्र है तो वह झूठ और मिथ्यावाद का प्रचार करनी है। अतएव कलाकारों को सम्भ समाज से दूर रहना चाहिये।" किन्तु जब उसने कला की धर्मिताओं के विषय में मत देकर अपनी अवधारणा को निरिचित किया तो कला की भूमिका सहसा उन्नत हो गयी—"कला में सत्य का स्थान है, परन्तु यह सत्य इतिहास की घटनाओं के समान नहीं, वरन् उसके कल्पना-जगत की सत्यता है।"

इससे यह भाव स्पष्ट हुआ कि ड्रामा की कला एक कल्पनापूर्ण अनुकरण है, जो जीवन के अंगों का कलात्मक विवरण करती है। इस केन्द्रीय भाव में 'ड्रामा' जीवन का सत्याभासी प्रतिविम्ब प्रदर्शित करता है और "इस प्रदर्शन में सीमित तथा केन्द्रीयत इच्छा-शक्तियों के द्वारा में ड्रामा की आत्मा का प्रस्फुटन होता है।"

इसके अनन्तर 'ड्रामा' की मूल धर्मिताओं का प्रश्न आता है कि कला-स्तर से ड्रामा की धर्मितायें क्या हैं?

## संकलनत्रय

'ड्रामा' की शास्त्रीय और व्यावहारिक आलोचना में प्राचीन काल से आज-तक काल (टाइम), स्थान (प्लेस), और कार्य (ऐक्शन) के संकलनों की विवेचना होती आयी है। अरस्तू के 'पोइटिक्स' में इन तीन संकलनों की चर्चा मिलती है। महाकाव्य और दुखान्तकी (ड्रामा) के अंतर को बताते हुए अरस्तू ने कहा है कि दुखान्तकी में यथासम्भव घटना को एक दिवस अथवा अपेक्षतः कुछ अधिक काल तक सीमित कर देने का प्रयास देखने में आता है, जबकि महाकाव्य में समय का ऐसा कोई बंधन नहीं होता।<sup>१</sup> इस स्थापना के अतिरिक्त अरस्तू ने 'कार्य' में भी अनिवार्यता का संकेत किया है। उसने बताया है कि 'ड्रामा' में कार्य की यह अनिवार्यता सम्पूर्ण रूप से ड्रामा की आत्मा में परिव्याप्त ढंग से होनी चाहिये, यांत्रिक और निष्प्राण रूप से नहीं। जैसा कि आत्मकथा या जीवन-चरित लिखने में होता है, एक व्यक्ति के जीवन-आधार के केन्द्रविन्दु से कार्यों की शृंखला बनाते चलना और भात्र उसके जीवन को कथानक का आधार बना देना।

**बस्तुतः** ग्रीक थियेटर में ड्रामा की व्यापक अनिवार्यता के स्तर पर उनका 'कोरस' तत्त्व आदि से अंत तक एक महत्वपूर्ण कार्य करता था, जिससे कि उनकी सारी स्थापना, व्यापक, विविधतापूर्ण होती हुई भी 'कोरस' की मूल धुरी से बंचित रहती थी। पर आगे के 'ड्रामों' में, विशेषकर आधुनिक ड्रामा अथवा थियेटर में संकलनत्रय का तत्त्व, साथन और पालन दोनों हप्तियों से कठिनतर होता गया है।

ग्रीक थियेटर में 'कोरस' तत्त्व के कारण कार्य, स्थान और काल तीनों की अनिवार्यता सहज ही होती चलती थी। फिर भी अरस्तू ने ड्रामा के कलात्मक स्तर पर तीनों की अनिवार्यता के अन्तर्गत केवल 'कार्य-संकलन' को ही अनिवार्य, आवश्यक ठहराया है। इस प्रसंग में अरस्तू के अनुमार कार्य-संकलन मुख्यतः दो रूपों में सम्पन्न होता है।

○ ड्रामा की घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध की स्थापना में।

○ ड्रामा में सब घटनायें अनिवार्यतः किसी एक लक्ष्य की ओर उन्मुख हों।

आगे फांस के शिष्टवादियों ने संकलन-त्रय को एक शास्त्रीय रूप देकर उसे

पाश्चात्य रंगमंच : कृतित

'ड्रामा' के लिये एक अनिवार्यता इस प्रकार है फलस्वरूप एक प्रमुख अथवा घटनायें आती हैं कि वे सब मूल घटना हों। स्थान के प्रसंग में— और सारी घटनायें आती हैं

संकलन-त्रय के स्तर के लिये इनका इस प्रकार और कथानक की मांग है शेक्सपियर ने आने पालन किया है। किन परवाह नहीं करता।

पर पश्चिम के महावात प्रायः सब काल की विशेषकर उत्कृष्ट दुखान्तकी के द्वाव से कार्य की जैसे क्रमिक रही है। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा अंकों और हृदयों के बीच 'हैमलेट', 'ओथेलो', 'मैरी राल के सुन्दर उदाहरण

यही सत्य, स्थान-एकता के मंत्र पर हस्य नहीं लबर थे। इस बस्तु-स्थिति के फलस्वरूप बहुत ही स्थान का परिवर्तन करते हो। किन्तु फिर भी स्थान-एकता जितनी उदाहरण के लिये 'ओथेलो' ड्रामा भी अद्भुता है।

1. Poetics, chapter. v.

चीन काल से आज-कलनों की विवेचना में की चर्चा मिलती है एवं अरस्तू ने कहा है प्रपेक्षतः कुछ अधिक जबकि महाकाव्य में अतिरिक्त अरस्तू ने कि 'ड्रामा' में कार्य व्याप्त ढंग से होनी चाहिया या जीवन-चरित द्रविन्दु से कार्यों की आवाहार बना देना।

के स्तर पर उनका जिससे कि उनकी 'रस' की मूल धुरी से धुनिक ड्रामा प्रथवा अविन्दियों से कठिनतर

ग्रीर काल तीनों की ना के कलात्मक स्तर ही अनिवार्य, आवलन मुख्यतः दो रूपों

पना में  
की ओर उन्मुख

स्त्रीय रूप देकर उसे

'ड्रामा' के लिये एक अनिवार्य सत्य मान लिया। उनके मतानुसार संकलनशय की स्थिति इस प्रकार है कि ड्रामा में एक मूल द्वन्द्व, एक मूल घटना और इनके फलस्वरूप एक प्रमुख कथानक रहेगा। यदि 'ड्रामा' में अन्य छोटे-छोटे कार्य अथवा घटनायें आती हैं, तो उनका चयन और नियोजन इस प्रकार से होगा कि वे सब मूल घटना, मूल द्वन्द्व और मूल कथानक के अविभाज्य अंग सिद्ध हों। स्थान के प्रसंग में—सारी घटनायें 'ड्रामा' में एक ही जगह संगठित हों। और सारी घटनायें और कार्य-व्यापार एक ही दिन में संयोजित हों।

संकलन-शय के स्तर से उक्त नियमों में बैंधकर किसी भी बड़े ड्रामा-लेखक के लिये इनका इस प्रकार पालन संभव नहीं होता। कभी-कभी 'ड्रामा' के विषय और कथानक की माँग के कारण इनका इस प्रकार पालन संभव भी हो जाता है। शेक्सपियर ने अपने 'टेम्पेस्ट' तथा 'कामेडी ऑफ एर्स' में इन संकलनों का पालन किया है। किन्तु अन्य कृतियों में वह 'समय' और 'स्थान' के ऐक्य की परवाह नहीं करता।

पर पश्चिम के महान् 'ड्रामा' साहित्य को देखकर इस संदर्भ में एक विशेष बात प्रायः सब काल की उत्कृष्ट ड्रामा-कृतियों में समान रूप से मिलती है— विशेषकर उत्कृष्ट दुखान्तकियों में—कि उनमें स्वभावतः दिना किसी कार्य-कारण के दबाव से कार्य की श्रुखला और उसकी गति, तेज़ और दिना अन्तराल के जैसे क्रमिक रही है। शेक्सपियर ने इस क्षेत्र में अपनी महान् कला के प्रभाव में निश्चय ही हमें सदा भ्रम में डाला है कि हम उसकी दुखान्तकी में यह विश्वास करने लगें कि कार्य की गति तेज़ है, क्रमिक है, काल की अवधि कम है। जबकि शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में अधिक स्वाभाविकता और सत्यता लाने के लिये, अंकों और दृश्यों के बीच वस्तुतः लम्बे-लम्बे काल के अन्तराल को दिया है। 'हैमलेट', 'ओथेलो', 'मैकब्रेथ' आदि दुखान्तकी के अंक-निर्माण इस काल-अन्तराल के मुन्दर उदाहरण हैं। पर दृश्यतः यह काल-अन्तराल अनुभूत नहीं होता।

यही सत्य, स्थान-एकता के भी संदर्भ में है। यह निश्चित है कि शेक्सपियर के मंच पर दृश्य नहीं लगाये जाते थे—यहाँ तक कि दृश्य-विवान नहीं के बराबर थे। इस वस्तु-स्थिति से लाभ यह था कि शेक्सपियर अपने रंगमंच की माँग के फलस्वरूप बहुत ही सुविधा और बहुत ही व्यावहारिक रूप से अपने ड्रामों में स्थान का परिवर्तन कर सकता था—जहाँ भी जितनी शीघ्रता से उसकी इच्छा हो। किन्तु फिर भी हम उसके ड्रामों में यह पते हैं कि जिस ड्रामा में यह स्थान-एकता जितनी तीव्र है, वह ड्रामा उतना ही शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। उदाहरण के लिये 'ओथेलो' में केवल दो दृश्य-स्थान हैं—'वैनिस' और 'साइप्रस'। 'हैमलेट' ड्रामा भी अपने अधिकांश रूप में एलिसनोर के 'कैसिल' के ही मध्य घूमता है।

**मुख्यतः** आधुनिक युग के ड्रामा-लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट है कि उनमें स्थान और काल की एकता का व्यान सर्वाधिक है। सम्पूर्ण ड्रामा सीधे चौबीस घंटों में समाप्त। सारा ड्रामा सुवह, दोपहर, शाम—एक ही दिन में सम्पूर्ण। 'वर्नार्डिशा', 'ओनील', 'चेखोव' और इसके बाद के ड्रामा-लेखक इस दिशा के सर्वमान्य उदाहरण हैं। जैसे कि 'ड्रामा' जीवन के यथार्थ के प्रति आग्रह-शील है। और पश्चिम के प्रायः सभी वडे ड्रामा-लेखक इस सत्य में विश्वास पूर्ण ड्रामा के लिए आवश्यक है।

पादचाल्य रंगमंच  
'ड्रामा' का चरण  
और इस एकता  
एक ही प्रभाव,  
नहीं है कि समूह  
अन्त तक हो। व  
एक आवारभूत  
संकृत रंगमंच  
'रस-सिद्धान्त' इ

### कार्य की एकता

कार्य की एकता यद्यपि 'काल' और 'स्थान' की एकता से सम्बन्धित है, फिर भी कार्य की एकता के प्रश्न को इनसे अलग—स्वतन्त्र रूप में भी देखना चाहिए। वस्तुतः कार्य की एकता अपने-आप में इन दो तथ्यों को लेकर चलती है कि—

(क) आविकारिक कथावस्तु के साथ ड्रामा में कोई भी विशेष महत्व की प्रासंगिक कथावस्तु नहीं होनी चाहिये।

(ख) ड्रामा में दुखान्तकी और मुखान्तकी परस्पर मिलकर नहीं चल सकते। दोनों का अस्तित्व अलग-अलग है।

यह सत्य है कि 'ड्रामा' और नाटक (भारतीय) दोनों में कार्य का संकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में समय, स्थान-संकलन और कार्य-संकलन के आंगिक सत्य हैं।

### एकांत प्रभाव की एकता

उपर्युक्त तीनों प्रकार की एकता अथवा संकलन-व्य का सारभूत तथ्य है ड्रामा में केवल एकांत प्रभाव की एकता। निश्चय ही इस आधारभूत एकता का सम्बन्ध स्थान, काल और कार्य की एकता है, पर मूलतः इस एकता का सम्बन्ध ड्रामा के सृजन-तत्व से है, उस रचना-प्रक्रिया से जिसमें हास्ति के रूप में आदि से अन्त तक यह एकता कार्य करती रहती है और बिना इसके 'ड्रामा' सब नियमों और तत्वों से संगठित होते हुए भी निप्राण है। वस्तुतः यही एकता

### ड्रामा के प्रतिम

ड्रामा के मूल दोकार उसके अधिकार अर्थ में न होकर उसके मूल्य का रंग-अनुष्ठान में, हास्ति में 'ड्रामा' में प्रेक्षणीयता कैसी कितनी है, कौसी है।

वस्तुतः 'ड्रामा' उसका यह मूल्य है।

(क) ड्रामा-फै

इस प्रशंसा में कठिनाई है।

साहित्यिक मूल्यों

कहना है कि 'ड्रामा'

(ख) रंगमंच

रंगमंच अपने ऐति

बदलता रहता है—

पश्चिम के महान् ड्र

नीय ड्रामे निश्चय

गये हैं, या तो किसी

यों से यह स्पष्ट है कि है। सम्पूर्ण ड्रामा सीधे शाम—एक ही दिन में गढ़ के ड्रामा-लेखक इस के यथार्थ के प्रति आग्रह-न इस सत्य में विश्वास मर्यादित रहना महत्व-

‘ड्रामा’ का चरम उद्देश्य है। इसकी सामाजिक और कलात्मक उपयोगिता है। और इस एकता को केवल मान्यता यह है कि समूचे ‘ड्रामा’ से अन्त में केवल एक ही प्रभाव, फल निकले—दो या अनेक नहीं। पर इस एकता का अर्थ यह नहीं है कि समूचे ड्रामा में केवल एक ही भाव और एक-सा ही सब आदि से अन्त तक हो। वल्कि महत्वपूर्ण ड्रामों में अनेक भावों-विचारों के बीच से इसका एक आवारभूत भाव, इसकी एक अपानी दृष्टि उजागर होती है।}

संस्कृत रंगमंच इस दिशा में मंसार के सभी रंगमंचों में श्रेष्ठ है। वहाँ का ‘रस-सिद्धान्त’ इस एकता का अभूतपूर्व फल है।

### ड्रामा के प्रतिमात

ड्रामा के मूल्य का निर्णय उसके मिठान-पक्ष अथवा शास्त्रीय तत्त्वों में न होकर उसके थियेटर (रंगमंच) में हो है। थियेटर का अर्थ यहाँ उसके भौतिक अर्थ में न होकर उसके कलात्मक संदर्भ में है। अतएव किसी ड्रामा को पढ़कर उसके मूल्य का निवारण केवल इसी क्षेत्री पर होगा कि वह ‘ड्रामा’ अपने रंग-अनुष्ठान में, आने व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण में क्या होगा? रंगमंच की दृष्टि से ‘ड्रामा’ में यह स्पष्ट देखना होगा कि इसका मंच-पक्ष क्या है, इसकी प्रेक्षणीयता केमी होगी और ड्रामा का सर्वोत्कृष्ट गुण, अभिनयात्मिका वृत्ति कितनी है, कैमी है?

वस्तुतः ‘ड्रामा’ को पढ़कर कल्पना से अथवा अपनी मृजनात्मक दृष्टि से उसका यह मूल्य हूँड़ पाना बहुत ही कठिन है। इसके कई कागण हैं—

(क) ड्रामा-सिद्धान्त की कठिनाई—

इस प्रश्न में ड्रामा के साहित्यिक मूल्य और रंगमंचगत मूल्य—इन दोनों में कठिनाई है। कुछ ड्रामा-लेखकों का मत है कि ड्रामा की महत्ता उसके साहित्यिक मूल्यों में है। ‘जार्ज वर्नर्डिश’ उन विचारकों में से एक है। कुछ का कहना है कि ‘ड्रामा’ का मूल्य साहित्यिक न होकर केवल रंगमंचगत है।

(ख) रंगमंच के बदलते स्वरूप की कठिनाई—दूसरी कठिनाई है, कि रंगमंच अपने ऐतिहासिक तथ्यों और उत्तरदायित्व के कारण युग के साथ सदा बदलता रहता है—अपने रूप में भी और अपनी कलात्मक संरचना में भी। पालिचम के महान् ड्रामों के अध्ययन से यह स्पष्ट भी है कि वहाँ के सारे उत्तेजनीय ड्रामे निश्चय ही या तो किसी विशेष अभिनेता को ध्यान में रखकर लिखे गये हैं, या तो किसी ‘टूफ’ (मंडली) के लिये, या व्यापक अर्थ में आने काल के

किसी विशेष रंगमंच के लिये लिखे गये हैं। अर्थात् ड्रामा-लेखक ने अपनी कृति को अपने समय के दर्शकों के लिये लिखा है।

इस प्रकार ड्रामा-लेखन का मंच, अभिनेता और दर्शक इन तीनों पर निर्भर रहना कालान्तर में ड्रामा के मूल्य-निधिरण में निश्चय ही कठिनाई उपस्थित करता है। क्योंकि इस संदर्भ में युग और काल के सौन्दर्य-बोध और कला-प्रतिमान सदैव बदलते रहते हैं।

### थियेटर और ड्रामा

यह सत्य है कि साहित्य और कला के समस्त प्रकारों में ड्रामा एक अलग प्रकार है, जिसका सम्बन्ध सीधे मंच-अनुष्ठान के फलस्वरूप अभिनेता के माध्यम से रंगभवन में बैठे हुए दर्शक-वर्ग से है। स्वभावतः ड्रामा का समूर्ण मूल्य केवल मंच-अनुष्ठान से दर्शकों द्वारा अनुभूत किया जा सकता है।

पर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ 'ड्रामा' अपने साहित्यिक स्तर पर निर्बल होते हैं और रंगमंच के स्तर पर सशक्त। दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत। एक तीसरी और भी दिशा है—एक ड्रामा रंगमंच के स्तर से निर्बल है और साहित्य के स्तर से सशक्त। लेकिन किसी एक प्रस्तुतकर्ता ने सहसा उस 'ड्रामा' को अपनी प्रस्तुतिकरण-कला से चमका दिया। स्टेनिस्लैवेस्की के पूर्व 'चेखव' के ड्रामे इस सत्य के उदाहरण हैं। फिर 'ड्रामा' के मूल्य-निधिरण की स्थिति कैसे पकड़ में आये !

इस स्थिति के उत्तर में ड्रामा और उसकी कलात्मक नैतिकता का सिद्धान्त रखा जाता है कि एक ड्रामा का प्रस्तुतिकरण उसके साहित्यिक मूल्यों के साथ दर्शक को सहज मनोरंजन देना भी है। दूसरा 'ड्रामा' जैसे कि 'हैमलेट' अथवा अन्य कोई उच्चतम सुखान्तको के प्रस्तुतिकरण को देखते हैं तो मनोरंजन से आगे कोई और गहन सत्य हमें स्पर्श कर जाता है। अर्थात् इन ड्रामों में ड्रामा-लेखक और अभिनेता दोनों हमें मनोरंजन से गहन कोई और अधिक मूल्यवान् सत्य दे जाते हैं। अब प्रश्न है कि दर्शक ड्रामा से केवल मनोरंजन मात्र चाहता है, अथवा इससे आगे कुछ और गहन, मूल्यवान् सत्य ? स्वभावतः हचि और सौन्दर्य-बोध के अनुकूल इस प्रवन्त के अलग-अलग और भिन्न-भिन्न उत्तर होंगे। 'वेन जान्सन' ने कहा है कि ड्रामा का मूल्य 'मनोरंजन' और शिक्षा देने में है 'Delite and Teach'। 'मोलीयर' ने कहा—ड्रामा आनन्द और मनोरंजन मात्र के लिये है। अरस्तू ने ड्रामा को 'रेचन' सिद्धान्त के अन्तर्गत रखकर देखा है।

पाश्चात्य रंगमंच :

ड्रामा की शिल्पी

ड्रामा की रचना तत्त्वों की आवश्यक

○ वर्ण विषय विषय की हट्टिट से

○ चरित्र :

तद्द्वारा ड्रामा चरित्र

○ कथोपकथन होती है।

अरस्तू ने ड्रामा

कथा

चरित्र

भाषा

विचार

संगीत

हथयता

और इन सब के अन्य और प्रमुख तत्व हैं—केवल मनुष्य का अधिक है। और ज

वस्तुतः ऊपर के हैं। क्योंकि 'ड्रामा' है, अतएव कथानक सम्बन्ध थियेटर और सम्बन्ध दर्शकों से है दोनों आते हैं। फलतः प्रस्तुत तत्व निता

ड्रामा के तत्त्वों का

ड्रामा के उन त

च और नाटक की भूमिका  
ड्रामा-लेखक ने अपनी कृति

पर दर्शक इन तीनों पर  
ए में निश्चय ही कठिनाई  
काल के सौन्दर्य-बोध और

प्रकारों में ड्रामा एक अलग  
स्वरूप अभिनेता के माध्यम  
में ड्रामा का सम्पूर्ण मूल्य  
का सकता है।

प्रपत्ते साहित्यिक स्तर पर  
और ठीक इसके विपरीत।  
के स्तर से निर्वाल है और  
कर्ता ने सहसा उस 'ड्रामा'  
निस्लैवेस्की के पूर्व 'चेस्क'—  
मूल्य-निष्परिण की स्थिति

तमक नैतिकता का सिद्धान्त  
साहित्यिक मूल्यों के साथ  
'जैसे कि 'हैपलेट' अथवा  
देखते हैं तो मनोरंजन से  
अर्थात् इन ड्रामों में ड्रामा-  
कोइ और अधिक मूल्यवान्  
बल मनोरंजन मात्र चाहता  
य? स्वभावतः रुचि और  
रभिन्न-भिन्न उत्तर होते हैं।  
जन' और गिक्का देने में है  
आनन्द और मनोरंजन  
डाल्ट के अन्तर्गत रखकर

### ड्रामा की शिल्पविधि

ड्रामा की रचना करते समय उसके रूप और व्यक्तित्व के लिये इन तीन  
तत्त्वों की आवश्यकता पड़ती है :

○ वर्ण विषय : (थीम) जो ड्रामा का मूलाधार होगा—विवार और  
विषय की हट्टि से।

○ चरित्र : जिसके माध्यम से वर्ण विषय की अभिव्यक्ति होती है, और  
तद्दर्शरूप ड्रामा चरितार्थ होता है।

○ कथोपकथन : जिसके द्वारा ड्रामा को व्यावहारिक अभिव्यक्ति प्राप्त  
होती है।

अरस्तु ने ड्रामा के निम्नलिखित तत्त्व बताये हैं :

- कथा
- चरित्र अवत्रा पात्र
- भाषा
- विचार
- संगीत
- दृश्यता।

और इन सब के अन्त में उसने स्पष्टतः यह कहा कि 'ड्रामा' में सबसे आवश्यक  
और प्रमुख तत्त्व है घटनाओं का चयन। क्योंकि दुखान्तकी सम्पूर्ण अनुकरण  
है—केवल मनुष्य का अनुकरण नहीं, बल्कि यह जीवन में कार्यों का अनुकरण  
अधिक है। और जीवन क्या है—कार्यों का समूह।

बस्तुतः ऊपर के तत्त्व ड्रामा की शिल्प-विधि की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण  
हैं। क्योंकि 'ड्रामा' कथोपकथन के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करने की एक कला  
है, अतएव कथानक ड्रामा का मूलाधार तत्त्व है। किन्तु 'ड्रामा' का व्यावहारिक  
सम्बन्ध थियेटर और मंच से है, और मंच एक ऐसा स्थान है, जिसका सीधा  
सम्बन्ध दर्शकों से है—ऐसे दर्शक जो 'ड्रामा' के अनुष्ठान को देखने और सुनने  
दोनों आते हैं। फलतः 'ड्रामा' में प्रेक्षणीयता, कार्य, दृश्य, अभिनयात्मिका वृत्ति,  
ये समस्त तत्त्व नितान्त आवश्यक हैं।

### ड्रामा के तत्त्वों का अध्ययन

ड्रामा के उन तत्त्वों को जानना आवश्यक है, जिनसे ड्रामा की संरचना

होती है, और जिनसे ड्रामा को एक विशेष स्वरूप और प्रभाव मिलता है। पिछले ही पृष्ठों में हमने देखा है कि अरस्तू ने ड्रामा के छः मूलभूत तत्त्वों को बताया है:

कथावस्तु  
चरित्र  
विचार  
भाषा  
संगीत  
दृश्यता

ड्रामा के ये मूलभूत तत्त्व एक तरह से आदिम तत्त्व हैं। आधुनिक समय में इन तत्त्वों में काफी हेर-फेर की गुजायश है, तथा इनमें से कई तत्त्वों पर विचार-विनियम और असहमति भी प्रकट की जा सकती है। किन्तु अध्ययन की गरिमा के लिये अरस्तू के बताये हुए इन तत्त्वों को ही आधार बनाये रखना ज्यादा उचित है।

### कथावस्तु

अरस्तू ने कथावस्तु को अत्यधिक महत्त्व दिया है। कथावस्तु के प्रति उसकी अवधारणा भी काफी संदिलाट है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित घारह पक्ष सन्निहित हैं, जो ड्रामा की संरचना से सीधे सम्बन्धित हैं:

उद्धाटन (एक्सपोजीशन)  
अन्वेषण (डिस्कवरी)  
आक्रमण विन्दु (प्वाइन्ट ऑफ अटैक)  
पूर्व छाया (फोर शैडोइंग)  
सकट (कास्पलीकेशन)  
चरमसीमा (क्लाइमेक्स)  
संघर्ष (काइमिस)  
निर्वहण (डिनाउमेन्ट)  
काल-अन्विति (यूनिटी ऑफ टाइम)  
स्थान-अन्विति (यूनिटी ऑफ प्लेस)  
कार्य-अन्विति (यूनिटी ऑफ ऐक्सन)

कथावस्तु के इतने पक्ष किसी न किसी रूप-स्तर में सभी महत्वपूर्ण ड्रामा में

पाश्चात्य रंगमंच : कृतित्व

मौजूद रहते हैं। किन्तु प्राड्रामा में समान रूप से विकास के लिये चरम सीमा और उद्धाटन का इस्तेमाल पूर्ण से सम्बन्धित इतनी सामान्य

कथावस्तु की महत्ता दुखान्तकी का जीवन और कथा या कहानी से नहीं ड्रामा को स्वरूप प्रदान है।

कथावस्तु की संरचना बदले हैं। ग्रीक दुखान्तकी इसका प्रथम रूप था, वह दार हो गया। आगे उत्तर यथार्थ-बंदों से छलकर इसको महत्ता दिलाया भी है। जलूल (एडीड्रामा) में कामिले। फिर आशा 'प्रक्रिया' नहीं रहा। किन्तु इन से विद्यमान रहते हैं। कामिले निर्णय के दो धरण आम सूल स्थिति स्वभावतः पैर (ग्रीक) और गेकमिले ऐसी परिस्थितियाँ बोते दीच एक धोर संग्राम फैलाते हैं।

कथावस्तु नाटक के उसकी सारी परिस्थिति ही नाटक में घटित समान अर्थवेद देती है। नाटक में मिलते हैं। क्यों ग्रीक निर्वासित होता है?

प्रभाव मिलता है।  
यः मूलभूत तत्त्वों को

। आधुनिक समय में  
कई तत्त्वों पर विचार-  
नु ग्रध्ययन की गरिमा  
बनाये रखना ज्यादा

। कथावस्तु के प्रति  
त निम्नलिखित ग्यारह  
त हैं :

भी महत्वपूर्ण ड्रामा में

मौजूद रहते हैं। किन्तु प्रायः यह भी देखा जाता है कि ये पक्ष इस क्रम से सभी ड्रामा में समान रूप से विद्यमान रहें—यह कोई निश्चित नहीं है। उदाहरण के लिये चरम सीमा और संघर्ष एक ही विश्व पर घटित हो सकते हैं। और उद्घाटन का इस्तेमाल पूर्व द्वाया के रूप में ही सकता है। किर भी कथावस्तु से सम्बन्धित इतनी सामग्री ड्रामा-संरचना के मूल पक्ष है।

कथावस्तु की महत्ता ग्ररस्तू के इस कथन से स्पष्ट है, जहाँ वह प्लॉट को दुखान्तकी का जीवन और आत्मा मानता है। प्लॉट से ग्ररस्तू का तात्पर्य मात्र कथा या कहानी से नहीं है, वल्कि प्लॉट उसकी हटिं में वह महत् सत्य है, जो ड्रामा को स्वरूप प्रदान करता है।

कथावस्तु की संरचना-गद्दति में आदि से अब तक स्वभावतः कितने रूप बदले हैं। श्रीक दुखान्तकी में कथावस्तु का सीधा और कसावदार होना जहाँ इसका प्रथम रूप था, वहाँ इसी का रूप मध्यमुग्नीन ड्रामा में ढीला और फैलावदार हो गया। आगे उत्तरोत्तर इसका रूप संशिलिष्ट हुआ। जीवन के दैनिक, यथार्थ-खंडों से छनकर इसका निर्माण हुआ। कथावस्तु से ज्यादा विषयवस्तु को महत्ता भिन्ना भी इसी के अनेक रूपों में से एक था। फिर ग्राज ऊल-जलूल (एंटीड्रामा) में कथावस्तु के सारे स्वरूप में ही क्रान्ति के चिह्न देखने को मिले। फिर आया 'एपिक ड्रामा' जिसमें निश्चित कथावस्तु के प्रति कोई आग्रह नहीं रहा। किन्तु इन सब विभिन्नताओं के बावजूद कथावस्तु के मूल पक्ष सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। कारण, ड्रामा में जीवन और व्यक्ति का जो संघर्ष-विन्दु, निर्णय के जो क्षण आवारभूत ढंग से मौजूद रहते हैं, उन्हीं में से प्लॉट की मूल स्थिति स्वभावतः पैदा हो जाती है। इस मूल स्थिति के लिये सोफोकलीज (श्रीक) और शेक्सपियर (एनिजावीथन) जैसे नाटककार, चरित्र के बारों और ऐसी परिस्थितियाँ बोने थे, जहाँ उस चरित्र के सामने निर्णय लेने न लेने के बीच एक घोर संग्राम द्विड़ता था। एटिगनी, हैमलेट, ओडिपस—सब ऐसे ही चरित्र तो हैं।

कथावस्तु नाटक का वह मूलाधार है, जहाँ से नाटक का सारा विकास, उसकी सारी परिणामि और संभावनायें अपने लिये ठोस भूमि पाती हैं। कथावस्तु ही नाटक में घटित समस्त घटनाओं और कार्यों की समुचित व्याख्या और अर्थवोय देती है। नाटक से उठे अनेकानेक प्रश्नों के उत्तर इसी कथावस्तु-तत्त्व में मिलते हैं। वयों ओडिपस जैसा महान् राजा इस तरह अंधा होता है और स्वयं निर्वाचित होता है? 'डाल्स हाउस' में नौरा को ऐसा क्या हो जाता कि वह

अंत में अपने उस प्यारे परिवार को त्यागकर चली जाती है ? कथावस्तु इन सारे प्रश्नों के समुचित विश्वासपूर्ण उत्तर देती है—कोरी बकालत करके नहीं, किन्तु छोटी-छोटी घटनाओं, कार्यों और व्यापारों की ठोस नज़ीर पेश करके—ऐसी तमाम नज़ीरें जो उसे साक्षात् जीवन से और उसके यथार्थ से मिली हैं।

कथावस्तु में इतना अर्थ-बोध, इतनी संरचना-शक्ति और प्रभाव उसकी कुछ शिल्पगत विशेषताओं के कारण पैदा होता है, जिनसे उसका संगठन किया जाता है।

### उद्घाटन

जब किसी ड्रामा का पर्दा उठता है, और दर्शक-गण मंच पर नाटक का प्रारम्भिक व्यापार देखने-समझने के लिये आतुर हो उठते हैं; तभी नाटकार के सामने दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं—प्रथम, दर्शक का समृच्छा ध्यान वह कैसे अपने नाटक के प्रति खींच ले ! दूसरे, वह किस तरह अपने नाटक की वह सारी पृष्ठभूमि दर्शक को जाता दे, ताकि वे पात्रों के पारस्परिक संबंध को जान लें, नाटक के मूल प्रश्न से उनका नाता जुड़ जाय और वे इस तरह नाटक से सम्बद्ध हो जाएँ। यही नाटक का उद्घाटन है।

'डॉल्स हाउस' के बिलकुल प्रारम्भ में ही, नाटक का पर्दा उठते ही इसने किस तरह नाटक का उद्घाटन करता है, यह बड़ा ही कलात्मक उदाहरण है। बरामदे की घंटी बजती है। नोरा का प्रवेश। पहनावे से लगता है, वह बाहर से आ रही है। उसके हाथ में कई पैकेट्स हैं, जिन्हें वह टेबिल पर रखती है। प्रवेश का दरवाजा खुला रह गया है, जिससे एक कुली दिखाई पड़ता है, जिसके हाथ में एक क्रिसमस ट्री है, और एक बास्केट है, जिसे वह नौकरानी को दे देता है, नौकरानी, जिसने घंटी बजने पर घर का दरवाजा खोला था।

नोरा कहती है—एलिन, सावधानी से क्रिसमस ट्री को छिपाओ। और देखो शाम से पहले बच्चे किसी तरह भी इसे न देख पायें।

फिर वह कुली से पूछती है—कितनी मजदूरी ? कुली बताता है पचास 'ओर'। नोरा कहती है लो काउन, (पचास 'ओर' से ज्यादा, और शेष रेजगारी भी नहीं लेती)। कुली धन्यवाद देकर चला जाता है। नोरा दरवाजा खुद बन्द करती है। वह बहुत खुश है। सामान में से मैकारन्स का पैकेट निकालती है, और दो-एक अपने मैंह में डाल लेती है। फिर वह पंजे पर चलती हुई बहुत आहिस्ता से अपने पति के दरवाजे पर जाती है और सुनती है। पति कमरे में

पाश्चात्य रंगमंच : कृति

ही है। वह गुनगुनाने ले मेरी गिलहरी...आ गयी यह कहती हुई वह मेकार पति से कहती है—'आओ—'अभी विज्ञ मत ढाल करता है। कहता है—'दिया ?' नोरा कहती है—'तुम खूब धन कमाओगे। देर है।' नोरा कहती है पति नोरा के पास जाता

इस दृश्य के बाद ने दिनों से बाहर थी। स्न (उद्घाटन) इसन दूँढ़ने को अपना सही प्रसंग प्रवातावरण, पृष्ठभूमि का संबंध और उनके निजत्व

उद्घाटन का यह प्रयोग होता है—इसके शिल्प

### अन्वेषण

नाटकार का दर्शक करके प्रकट करे ताकि फैसले के बाबत क्यों हैं, व्यापक क्यों हैं, इस सबका अन्त में सन्तोषप्रद और कलात्मक जाय, ताकि उन्हीं से दश और स्वाभाविक होता है और धीरे सत्य का अन्वेषण बलाडियस के अपराध के आत्महत्या, हैमलेट की वह वियाकृत तलवार अं

? कथावस्तु इन  
लत करके नहीं,  
पर पेश करके—  
से मिली हैं।

भाव उसकी कुछ  
ना संगठन किया

पर नाटक का  
भी नाटकार के  
ध्यान वह कैसे  
की वह सारी  
व को जान लें,  
नाटक से सम्बद्ध

उठते ही इसन  
क उदाहरण है।  
है, वह बाहर से  
रखती है। प्रवेश  
है, जिसके हाथ  
दे देता है, नौक-

आओ। और देखो  
बताता है पचास  
और शेष रेजगारी  
दरवाजा खुद बन्द  
केट निकालती है,  
चलती हुई बहुत  
है। पति कमरे में

ही है। वह गुनगुनाने लगती है। भीतर से पति की आवाज आती है, 'मेरी लार्क,  
मेरी गिलहरी... आ गयीं तुम ?' नोरा बताती है, वह अभी-अभी आयी है। और  
यह कहती हुई वह मेकारून को पैकेट में छिपाती है और अपना मुँह पोंछती है।  
पति से कहती है—'आप्रो देखो, मैंते क्या-क्या खरीदा है।' पति जब देता है  
—'अभी विघ्न मत डालो' ... और थोड़ी देर बाद पति दरवाजा खोलकर प्रवेश  
करता है। कहता है—'क्या मेरी भोली फिजूलखर्च बीवी ने सब कुछ फिर उड़ा  
दिया ?' नोरा कहती है—'योड़ा खर्च कर लिया जाय, फिर योड़े ही दिनों में तो  
तुम खूब धन कमाओगे।' पति कहता है—'उसके लिये तो अभी तीन हफ्ते की  
देर है।' नोरा कहती है—'कोई परवाह नहीं, तब तक के लिये उधार ले लेंगे।'  
पति नोरा के पास जाता है, और प्यार से उसके कान पकड़ता है।

इस हृष्य के बाद नोरा की पुरानी परिचिता स्त्री आती है—जो इधर बहुत  
दिनों से बाहर थी। स्वभावतः उससे सारी पिछली बातें बताने की स्थिति  
(उद्घाटन) इसन ढूँढ़ लेता है। वीती हुई घटना प्रकट हो जाती है और नाटक  
को अपना सही प्रसंग प्राप्त हो जाता है। साथ ही नाटक के विषय, समस्या,  
बातावरण, पृष्ठभूमि का समुचित संकेत मिल जाता है। पात्रों के पारस्परिक  
संबंध और उनके निजत्व का भी किंचित बोध हो जाता है।

उद्घाटन का यह पक्ष अनेक नाटककारों में तरह-तरह के ढंग से प्रतिष्ठित  
होता है—इसके गिरिप भी विभिन्न हैं, पर इसकी आवश्यकता सर्वत्र समान है।

### अन्वेषण

नाटककार का दर्शक के प्रति यह दायित्व है कि वह अनेक सूचनायें तलाश  
करके प्रकट करे ताकि विशेषकर विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व का बोध वह दे  
सके। कौन पात्र वयों इस तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है,  
क्यों है, इस सबका अन्वेषण वह दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है। सबसे  
सन्तोषप्रद और कलात्मक अन्वेषण वह है जो पात्र द्वारा स्वयं प्राप्त किया  
जाय, ताकि उन्हीं से दर्शक अपनी समवेदना बैंटा सके, यही अन्वेषण प्रभावपूर्ण  
और स्वाभाविक होता है। उदाहरण के लिए 'हैमेलेट' में कितने स्तरों से धीरे-  
धीरे सत्य का अन्वेषण होता है। राजा का प्रति रहस्योद्घाटन करता है।  
क्लाइंडिस के अपराध का पता चलता है। ओफोलिया का पागलपन, उसकी  
आत्महत्या, हैमेलेट की हत्या की साजिश, पलोनियस की वह रहस्यमयी मृत्यु,  
वह विपाक्त तलवार और पीने के पानी में छुला हुआ वह विष, अन्वेषण की

इतनी बड़ी भूमिका आदि से अन्त तक।

उद्घाटन का क्षेत्र मूलतः सामान्य सूचनाओं के बोध तथा गृष्ठभूमि-ज्ञान तक ही सीमित है, जबकि अन्वेषण पक्ष का क्षेत्र वर्तमान से होकर आने वाले भविष्य में घटने वाले सत्य तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, 'डॉल्स हाउस' में नोरा द्वारा अपने पति के वास्तविक चरित्र का अन्वेषण।

### • आक्रमण-विन्दु •

इमां (नाटक) में उद्घाटन तत्व प्रतिष्ठित होते के बाद उग्रका रूप तब उस नाटकीय पक्ष के लिए विलकुल तैयार हो जाता है, जहाँ से नाटक का महत् विन्दु शुरू होता है। इस महत् विन्दु को आक्रमण विन्दु कहते हैं। यही विन्दु नाटक के मूल कार्य का आधार बनता है। आक्रमण विन्दु नाटक में उस उस रियति की कहते हैं, जहाँ से नाटक के मूल संघर्ष पर प्रश्न का, संशय का, और रहस्य का आप्राप्त पड़ता है। उनेजना और वस्तुस्थिति में एक विचाव जहाँ से शुरू होता जाता है, वही है आक्रमण विन्दु। जहाँ 'हैमलेट' में होरेंसियो हैमलेट के पिता का प्रेत देखता है, और थेलों जहाँ डेस्डोमोना से व्याह करता है। कियान जहाँ पोलिनीयज की लाश को दफनाने से मना करवा देता है। 'डॉल्स हाउस' में जहाँ रामटाड नोरा के रहस्य-उद्घाटन की धमकी देता है। 'ओडिपेस रेक्स' में जहाँ राजा ओडिपस प्रजा की प्लेग से मुक्ति के लिए उनसे बचनवद्ध होता है। ये सब नाटक में वे महत् विन्दु हैं, क्षण और नाट्य-स्थितियाँ हैं, जहाँ से नाटक का मूल कार्य ठीक उसी तरह से शुरू हो जाता है, जैसे परीते में आग छुआने से सारी आग सहसा भीतर-बाहर फैल उठती है। और वह आग तब तक नहीं खत्म होती, जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा कार्य न सम्पूर्ण हो जाय।

### पूर्वाया

नाटक एक कार्य है। और यह महत् कार्य, डोटे-छोटे असंख्य कार्यों, व्यापारों तथा घटनाओं से निभित होता है। नाटक में इस कार्य की निश्चित पूर्व योजना होती है। जो आगे घटने जा रहा है, उसे पूर्ण विश्वसनीय बनाने

पादचात्य रंगमंच

के लिये शुरू से ही और कार्य विलकुल है। किन्तु नाट्य दर्शक की संवेदन में जो फल, जो रोपण पहले ही है।

इस कला-योग

अन्य उपलब्धियाँ समवेदना में एक तनाव के तत्त्वों के 'भयावह दृश्य' के बातावरण बनता करता है। 'डॉल्स' उसका कथन शुरू के इस पक्ष के उत्तर विश्वस्त आत्मद होता है कि उसने में पिस्तोल नाट्य पिस्तौल, जिसमें

संकट

आक्रमण-विसंकट वस्तुतः बहु जाती है। जित ठीक उसी अनुपमे नाटकीय तत्व होता है। नाटक और बड़ी देजी से मुख्यतः इन तीन नाट्य-कृतियों में से प्रेम कर बैठता

बोय तथा पृष्ठभूमि-ज्ञान  
मान से होकर आने वाले  
रण के लिए, डॉल्स हाउस'  
वेपण।

नेने के बाद उसका रूप तब  
होता है, जहाँ से नाटक का  
क्रमण विन्दु कहते हैं। यही  
नाटकमण विन्दु नाटक में उस  
वर्ष पर प्रदून का, संक्षय का,  
वस्तुस्थिति में एक विचाव  
होता है। जहाँ 'हैमलेट' में होरं  
डो जहाँ हेम्डेमोना से व्याह  
को दफनाने से मना करवा  
रहस्य-उद्घाटन की घमकी  
प्रजा की लेग से मुक्ति के  
वे महत् विन्दु हैं, क्षण और  
ठीक उसी तरह से शुरू हो  
ग सहसा भीतर-वाहर कैल  
तीती, जब तक उसकी पूरी

के लिये शुरू से ही उसकी तैयारी होती है। जीवन में अनेक घटनायें, वाते  
और कार्य विलकुल अप्रत्याशित रूप में, बिना किसी पूर्व सूचना के घट जाती  
हैं। किन्तु नाट्य-रचना में यह संभव नहीं। क्योंकि नाटक का सम्बन्ध सीधे  
दर्शक की संवेदना से है। उसके विश्वास और प्रतीति से है। इसलिये नाटक  
में जो फल, जो कार्य भवित्य में आने वाला है, उसका वीजा-  
रोपण पहले ही हो जाता है।

इस कला-योजना से नाटक में विद्वास और प्रतीति के अतिरिक्त कई  
अन्य उपलब्धियाँ हैं। जैसे नाटक में जिजासा और कौतूहल का निर्माण, उसकी  
सम्बोधना में एक मानवीय रुचि का संचार और अन्ततः उसमें एक नाटकीय  
तनाव के तत्त्वों की प्रतिष्ठा। 'हैमलेट' नाटक के शुरू की तीस पक्षियों में  
'भयावह हश्य' के लिये अनेक प्रसंग, चर्चा और वात उठती है, जिसमें एक  
वातावरण बनता है और हैमलेट के पिता के प्रेत के प्रवेश की पूर्व स्थिति तैयार  
करता है। 'डॉल्स हाउस' में नोरा के पहले प्रवेश में 'छिपाने' की ही वात से  
उसका कथन शुरू होता है। मैकारन को छिपाकर लाने से दर्शक उसके निरिच  
के इस पक्ष के उद्घाटन के लिये विलकुल तैयार हो जाता है, और उस वहाँ  
विद्वस्त आनन्द मिलता है, जहाँ नोरा की यह बड़ी चोरी और छत उद्घाटित  
होता है कि उसने तो आपने पिता के जाली दस्तखत कर रखे हैं। 'हैडा गैलर'

में पिस्तोल नाटक के कार्य-व्यापार में कई पूर्वस्थितियों में आया है—वहीं  
पिस्तौल, जिसमें अंत में हैडा आत्म-हत्या करती है।

### संकट

आकमण-विन्दु से ही नाटक में संकट को शुरूआत हो जाती है। पहला  
संकट वस्तुतः वही बनता है। उसी संकट से स्थिति उत्तरोत्तर जटिल होती  
जाती है। जितना बड़ा यह संकट होता है, जितना मानवीय और जीवन्त,  
ठीक उसी अनुपात में नाटक श्रेष्ठ होता है। वस्तुतः संकट के क्षण ही नाटक  
में नाटकीय तत्त्व उजागर करते हैं। उन्हीं स्थितियों में चरित्रों का अन्वेषण  
होता है। नाटक के व्यापार में गति आती है। और नाटक की कला अंत की  
ओर बढ़ी तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जेम्स पियर, इन्सन, और नील,  
मुख्यतः इन तीन नाटककारों ने संकट के तत्त्वों का पूर्ण कलात्मक प्रयोग अपनी  
नाट्य-कृतियों में किया है। 'रोमियो एंड जूलियट' नाटक में रोमियो जूलियट  
से प्रेम कर बैठता है। लेकिन स्थिति में संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों

परिवारों में दुश्मनी थी। रोमियो जूलियट को पाने के लिये टाइबाल्ट की हत्या करता है। इससे संकट और गंभीर हो जाता है। रोमियो का बहिष्कार होता है। जूलियट का पिता अविलम्ब अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करना चाहता है। इस संकट से बचने के लिये जूलियट अपनी मृत्यु का स्वांग रखती है। किन्तु इस रहस्य-योजना का पत्र रोमियो को नहीं मिलता। संकट तीव्रतर होता है। रोमियो समझता है कि उसकी प्रिया जूलियट सचमुच मर गयी। वह इस विशेष में उसके पास बैठकर विष भी लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जूलियट जादुई मृत्यु से उठकर जब प्रियतम की यह दशा देखती है, तब उसके सामने संकट तीव्रतम हो जाता है और वह भी मृत्यु को प्राप्त होती है।

संकट की परिस्थितियों के माध्यम से ही वास्तव में कथावस्तु की संरचना होती है। श्रीक और एलिजाबीथन युग के नाटक इस पक्ष में सर्वथा परिपूर्ण हैं।

### चरमसीमा

कार्य की चरम परिणति को चरमसीमा कहते हैं। जहाँ ढन्ड अथवा संघर्ष तनाव की उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। नाटक में इसी चरमसीमा विन्दु को मूलतः ध्यान में रखकर अनेक नाट्याचार्यों ने नाटक के पूरे संगठन को इन्हीं पांच चरणों में ही बांटकर देखा है :

- भूमिका
- विकास
- चरमसीमा
- प्रत्यावर्तन या पतन
- प्रकर्ष

चरमसीमा नाटक के संगठन में निश्चय ही उच्चतम विन्दु है। यह उच्चतम विन्दु नाटक के प्रत्येक दृश्य, अनुक्रम और अंक की छोटी-छोटी चरमसीमाओं से विकसित होता हुआ अंतः निर्मित होता है। वस्तुतः नाटकीय चरमसीमायें प्रतिफलन हैं उस कलात्मक योजना के, जहाँ कार्य और घटनायें एक के बाद एक पर अपनी स्वाभाविक परिणति को प्राप्त होती हैं। और नाटक का तनाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। 'डॉल्स हाउस' में चरमसीमाओं की यह कलात्मक योजना देखी जा सकती है।

- रामस्टॉड नोरा
- नोरा अपने उपर्युक्त करती है और
- रामस्टॉड वही
- नोरा पूर्ण प्रपञ्च सक्रिया करती है।
- पति उस पत्र का विचार करता है।
- नोरा अपने उपर्युक्त 'डॉल्स हाउस' नाटक में उत्तरोत्तर संबंधित है, जहाँ भाव सहज ही प्राप्त होता है।

### संघर्ष

संघर्ष और चरमसीमा इन दोनों की प्रतिलिपि नाटक में उस स्थल पर लेने का विकृत समय लिया जाता है। चरमसीमा भी ही सक्रिय उपर्युक्त विचार करता है। एक विचार करने को होता है। हैमले को फैसला लेना है, वह

यह संघर्ष कभी द्वारा डाल दिया जाता वही आगे के नाटक में

ने के लिये टाइबाल्ट की है। रोमियो का बहिकारी दूसरी जगह शादी करना वही मृत्यु का स्वांग रखती हीं मिलता। संकट तीव्रतर लियट सचमुच भर गयी। ता है और उसकी मृत्यु हो नम की यह दशा देखती है, और वह भी मृत्यु को प्राप्त

द में कथावस्तु की संरचना इस पक्ष में सर्वथा परि-

हते हैं। जहाँ छांद अथवा नाटक में इसी चरमसीमा चार्यों ने नाटक के पूरे संग-

उच्चतम विन्दु है। यह उच्च- अंक की छोटी-छोटी चरम-त होता है। वस्तुतः नाटकीय के, जहाँ कार्य और घटनाये ति को प्राप्त होती हैं। और 'डॉल्स हाउस' में चरमसीमाओं

- राम्स्टॉड नोरा के रहस्योद्घाटन की धमकी देता है।
- नोरा अपने पति हैल्मर से राम्स्टॉड को न निकालने के लिये वकालत करती है और असफल होती है।
- राम्स्टॉड वही भयानक पत्र हैल्मर को लिखता है।
- नोरा पूर्ण प्रयत्न करती है (नाच-गाकर तक) कि पति वह पत्र न पढ़ सके।
- पति उस पत्र को पढ़ता है तथा पत्नी (नोरा) को कलंकित करता है।
- राम्स्टॉड का दूसरा पत्र पति (हैल्मर) की इफ्ज़त और नाम को बचाता है।
- नोरा अपने उस धर-त्याग के निर्णय को पति से बताती है। 'डॉल्स हाउस' नाटक की ये सारी चरमसीमायें नाटक के उसी मूल कार्य से संबंधित हैं, जहाँ भावना का क्रमिक विकास अपनी स्वाभाविक परिणति को सहज ही प्राप्त होता है।

### संघर्ष

संघर्ष और चरमसीमा ये दोनों नाट्य-विन्दु प्रायः एक-दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों की प्रतिष्ठा कभी-कभी एक ही स्थान पर हो जाती है, फिर भी संघर्ष नाटक में उस स्थल पर आता है जहाँ मूल चरित्र के सामने किसी एक निर्णय लेने का विकट समय उपस्थित होता है। यह समय इस नाटक की आत्मा की चरमसीमा भी हो सकती है। वस्तुतः संघर्ष में दो विरोधियों के स्वार्थ की टक्कर होती है। एक ऐसा विन्दु जहाँ किसमत का, संकल्प का अन्तिम फैसला होने को होता है। हैमलेट के हाथ में तलवार है, ब्लाउडियस अकेला अरक्षित पूजा कर रहा है, हैमलेट अपने उस भयानक शत्रु को मारे या न मारे। नोरा को फैसला लेना है, वह अपने उस घर और पति को त्याग दे या नहीं।

यह संघर्ष कभी चरित्र स्वयं निर्मित करता है, था उसपर परिस्थितियों द्वारा डाल दिया जाता है। वह चरित्र उस संघर्ष-स्थिति में जो निर्णय लेता है, वही आगे के नाटक में कार्य का अन्तिम आधार बनता है।

## निर्वहण

का मेल भं  
यही सत्य

नाटक के अन्तिम फल को निर्वहण कहते हैं। जो समस्या नाटक में उठी थी, उसी का हल। 'डाल्स हाउस' में नोग अपने घर को त्यागकर चली जाती है। 'हैडा गेब्लर' में हैडा आत्म-हत्या करती है। 'ओडिपेस रेक्स' में राजा ओडिपेस आत्म-निर्वासित हो जाता है। 'रोमियो एंड जूलियट' में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, मृत्यु के उस पार होता है। 'डैथ ऑफ ए सेल्समैन' में विली लोमन की कार लड़ती है और उसकी मृत्यु होती है—यह सूचना उसके घर में आती है।

संघर्ष के कारण नाटक में जो तनाव विचा था, निर्वहण-विन्दु पर आकर उस संघर्ष की परिसमाप्ति हो जाती है। संघर्ष से शान्ति।

मुख्यान्तकी का निर्वहण कठिनाइयों को पार करना हुआ, उसे हल करना हुआ अन्त में प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में होता। उसके ठीक विपरीत दुखान्तकी में सबका करुण अन्त होता है।

## अन्वितियाँ

नाट्य-अन्वितियों की चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि ड्रामा की संरचना में किसी न किसी रूप से अन्वितियों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। विशेषकर कार्य की अन्विति की। यद्यपि यह बड़ा भनोरंजक विषय है कि जिस अरस्तू ने पहली बार नाट्य-अन्वितियों की चर्चा की है, उसने केवल 'काल' और 'कार्य' की ही अन्वितियों की बात उठायी है।

रेनमाँ के बाद के नाट्याचार्यों ने देश, काल, कार्य, इन तीनों अन्वितियों की चर्चा की है—और तभी से इन्हें 'कलैंस्कल यूनियॉन' की संज्ञा प्राप्त हुई है।

**वस्तुतः** नाटककार, आचार्यों के बताए हुए नाट्य-सिद्धान्तों के आवार पर नाटक रचना नहीं करते, वरन् वे अपने समय के रंगमंच की वास्तविक माँग के अनुरूप नए नाटक की रचना करते हैं।

कार्य की अन्विति के विषय में अरस्तू के जो विचार थे, उनका उल्लंघन विशेषकर एलिजाबीथन रंगमंच काल में बेतरह हुआ है। सरल-सहज कथावस्तु के स्थान पर कठिन मिश्रित कथावस्तु का निर्माण, तथा मुख्यान्तकी-दुखान्तकी के तत्वों का प्रस्तुर मिथरा। मध्यमुग्धीन मुख्यान्तकीयों में गम्भीर नाट्य-तत्त्वों

चरित्र

चरित्र  
इच्छाशक्ति  
रूप ही चरित्र  
में देखने को  
की भूमिकाएं  
में चरित्र का  
कारों ने चरित्र  
व्यक्तित्व की  
उसके जटिल  
प्रिल और ज  
पूर्ण जीवन के  
माथ आपने

रचना-दि  
चरित्र-रचना व  
उम्र ग्रादि जिन  
हो जाता है। व  
विशेषकर प्रकृत

भाषा—वे  
चरित्र जिस तर  
उसका उच्चार  
चरित्र की पहचा

यथार्थवाद  
और जनान्तिक  
का चरण आया  
इसकी पूर्ति  
छोटे-छोटे कार्यों  
है। यह तीसरा स

और नाटक की भूमिका

का मेल भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जापान के 'कावुकी ड्रामा' में भी यही सत्य पूर्ण रूप से मिलता है।

समस्या नाटक में उठी  
को त्यागकर चली जाती  
प्रेडिपेस ऐस' में राजा  
दूलियट' में प्रेमी और  
थ्रॉफ ए. मेलमैन' में  
ती है—यह सूचना उसके

निर्वहण-विन्दु पर आकर  
आनि।  
ता हुआ, उसे हल करता  
। इसके टीक विपरीत

। यहाँ इस प्रसंग में यह  
त किसी स्तर से अनिवित्यों  
न्वनि की। यद्यपि यह बड़ा  
नाट्य-अनिवित्यों की चर्चा  
न्वित्यों की बात उठायी है।  
कार्य, इन तीनों अनिवित्यों  
न यूनटीज' की मंजा प्राप्त

नाट्य-सिद्धान्तों के आधार पर  
रंगमंच की वास्तविक मौँग के

जो विचार थे, उनका उल्लंघन  
दुश्मा है। सरल-सहज कथावस्तु  
ए, तथा सुलान्तकी-दुखान्तकी  
न्तकियों में गम्भीर नाट्य-तत्त्वों

### चरित्र

चरित्र के माध्यम से ही कथावस्तु बनती है। चरित्र का व्यक्तित्व, इसकी इच्छाशक्ति ही नाटक का सारा कार्य-व्यापार है। नाटक के अन्य तत्त्वों के अनु-रूप ही चरित्र के अनेक रूप, उनके निर्माण के विभिन्न शिला नाट्य-साहित्य में देखने को मिलते हैं। प्रीक, एनिजावीयन और जापानी नाटकों में स्त्री-पात्रों की भूमिकाएँ पुरुष अभिनेताओं द्वारा अदा की जाती थीं। मध्ययुगीन नाटक में चरित्र का स्वरूप प्रायः प्रतीकात्मक हो गया था। आधुनिक युग के नाटक-कारों ने चरित्र को पूर्णतः यथार्थ वरातल से ग्रहण किया है, और उसके व्यक्तित्व की व्यापक गहराई में दे गए हैं। चरित्र के मनोविज्ञान में पैठकर उसके जटिल स्वरूप को ढूँढ़ा है। इध्यन, ओ नील, स्टिन्वर्ग, चेखव, आवर मिलर और जाँ पाल सार्त तथा टेनिसी विलियम ने यथार्थ जीवन और जगत के पूर्ण जीवन्त चरित्रों को उनकी सारी मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सम्भावनाओं के माध्यम प्राप्त नाटकों में उपस्थित किया है।

रचना-शिल्प की ट्रिटि से चरित्र-रचना प्रायः चार पक्षों से की जाती है। चरित्र-रचना आपने वाह्य स्वरूप से। चरित्र की शारीरिक दशा, वेश-भूषा, उम्र आदि जिनके आधार से दर्शक या पाठक तत्काल चरित्र से सीधे परिचित हो जाता है। इस पक्ष के बर्णन और सूक्ष्म विवेचन में आधुनिक यथार्थवादी और विशेषकर प्रकृतवादी नाटककार बहुत ही मर्ज ज है।

भाषा—बोली दूसरा पक्ष है, जिसके द्वारा चरित्र का उद्घाटन होता है। चरित्र जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, जिस तरह वह बोलता है, जैसा उसका उच्चारण है, बोली की गति है, जैसी उसकी आवाज है, इन सबके द्वारा चरित्र की पहचान बहुत ही स्वाभाविक है।

यथार्थवाद के पूर्व तक नाटककार चरित्र-उद्घाटन के लिए स्वगत कथन और जनान्तिक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से नाट्य-क्षेत्र में सत्याभास का चरण आया है, ऐसे साधन प्रायः छोड़ दिए गए हैं।

इसकी पूर्ति के लिए 'कार्य' आ गया है। चरित्र अपने व्यवहार से, अपने छोटे-छोटे कार्यों से अपने व्यक्तित्व की, मनोभाव की सारी सूचनाएँ दे जाता है। यह तीसरा साधन है चरित्र-निर्माण के प्रसंग में।

चौथे प्रसंग में वह पक्ष आता है कि अमुक चरित्र के बारे में पात्र क्या कहते हैं, और उसके लिए वे क्या विचार और प्रतिक्रिया रखते हैं।

**वस्तुतः** नाटक के समूचे गिरा पर चरित्र की स्पष्टता, विशित-रूपता निर्भर करती है। जो नाटक मूलतः प्रस्तुतिकरण के लिए उसी की सारी व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच से लिखे गए होते हैं, उनके चरित्र बड़े ही समृद्धिशाली व्यक्तित्व और निजत्व के होते हैं, और उनमें एक अजब रंग और प्रभाव होता है। क्योंकि तब ऐसे चरित्र 'कार्य' के बीच अपना सहज निर्माण पाते हैं। उदाहरण के लिए 'हैमलेट' का चरित्र इतना विद्याल और गनोरंजक इसी लिए है कि वह विभिन्न स्थितियों और हृषिकोरणों में विभिन्न पात्रों के संदर्भ-सूत्रों में देखा और समझा जाता है। हैमलेट और प्रेत, हैमलेट और होरेशियो, हैमलेट और ओफीलिया, हैमलेट और गर्डन्ड, हैमलेट और पलोनियस आदि। हैमलेट के इस विशद् व्यक्तित्व की तुलना में जब हम ग्रीक ड्रामा के 'ओडिपस' का चरित्र देखते हैं तो स्पष्ट होता है, कि कितने सीमित सन्दर्भों में हृषिकोरणों में यह चरित्र वहाँ निश्चित हुआ है।

### विचार

विचार-तत्त्व अरस्तू के शब्दों में (आइनोइया) ड्रामा के उस अंग से संबंधित है, जहाँ नाटक में जितना तर्क, विचार-तत्त्व है। विचार-तत्त्व बौद्धिक तत्त्व से कहीं ज्याद ऊपर है—ऐसा अरस्तू ने 'थाट' की विवेचना में स्पष्ट किया है।<sup>१</sup>

- I. **Dionoeia** (Thought) in the sense it bears in the poetics is like, **Ethos** (Character) an element in the personality of the dramatis personae. It is their intellectual capacity as evinced in their language (or may be in their action), and it is to be seen whenever they argue or make an appeal to the feelings of their hearers, in other words when they reason or plead with one of the other dramatis personae in the same sort of way as a rhetor might do.

पात्र  
क्यों  
रहा  
नाटक  
स्थिति  
विज्ञ  
नहीं  
इस ब  
नाटक  
  
सम्बन्ध  
विषय  
महत्व  
जीवन  
  
से नहीं  
होती  
को पढ़  
प्रस्तुति  
वास्तवि  
वि  
साथ प  
विचार-

भाषा

अर  
रूप में म  
अपने विच  
नाटक  
दर्शक की  
कि उसक  
पृष्ठ उलट

च और नाटक की भूमिका

के बारे में पात्र क्या कहते रखते हैं।

स्पष्टता, विश्वत-स्पृता के लिए उसी की सारी तेहै, उनके चरित्र बड़े ही उनमें एक ग्रजव रंग और अधीच श्रपना सहज निर्माण ता विश्वाल ग्रीष्म मनोरंजक कोशों में विभिन्न पात्रों के और प्रेत, हैमलेट और हीरे-रेण, हैमलेट और पत्नोनियस जब ही ग्रीक द्रामा के कितने सीमित सम्भर्मों में,

द्रामा के उस अंग से संबंधित चार-तत्त्व बोल्डिक तत्त्व से चना में स्पष्ट किया है।<sup>1</sup>

years in the poetics is in the personality of their intellectual capacity (they may be in their action), they argue or make an entrance, in other words of the other dramatis personae a rhetor might do.

### पाठ्यात्म रंगमत्र : कृतित्व पक्ष

११६

क्योंकि नाटक केवल वस्तुगत विचार-विनिमय नहीं है। नाटक में जो कुछ घट रहा है, चरित्र जितना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, जो कुछ फलित हो रहा है, समूचे नाटक में—वह सब बुद्धि के परे की शक्तियों के कारण, अन्यान्य परिस्थियों और स्थितियों की वजह से हो रहा है। जिसमें भावना, इच्छाशक्ति, मनोभाव, मनो-विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है—इतना बड़ा कि वह सब तर्क की कसीटी पर नहीं कसा जा सकता। 'डॉल्स हाउस' में नोरा घर त्यागकर चली जाती है—इस कार्य के लिए भावनाओं और अन्तःसंघर्षों की वह पूरी विशद तैयारी समूचे नाटक में देखने योग्य है।

चरित्र के तर्कपूर्ण, विश्वसनीय व्यक्तित्व-निर्माण के अतिरिक्त 'विचार' का सम्बन्ध नाटक की विषय-वस्तु से है—जहाँ नाटक की सारी समस्या, पूरा विषय एक विचार शब्द में बांधा जा सकता है—जैसे 'मैंकवेथ' के लिए—महत्वाकांक्षा भयानक है। 'डॉल्स हाउस' में, स्त्री-पुरुष की असमानता बैंबाहिक जीवन को तोड़ने वाली है।

किन्तु सचमुच श्रेष्ठ नाटकों में उसके विषय और लक्ष्य को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। उनमें अनेक अर्थ होते हैं। उनकी अनेक व्यवस्थाएँ होती रहती हैं—जैसे 'स्ट्रीटकार नेझ़ डिजायर' में प्रत्यक्षतः एक व्याख्या नाटक को पढ़कर मिलती है, किन्तु सबैथा उससे भिन्न हृष्टि एलिया कजान अपनी प्रस्तुति में देता है। इसी तरह हैमलेट, शाइलाक, कियोन और विली लोमन का वास्तविक चरित्र बया है, इसके विषय में अनेक वाद-विवाद चलते ही रहते हैं।

विचार-तत्त्व केवल उपदेशात्मक, प्रचारात्मक नाटकों में ही एक निश्चय के साथ पकड़े जा सकते हैं। श्रेष्ठ नाटक जीवन की ही तरह गहन होते हैं—विचार-भावना, प्रतिक्रिया, मनोविज्ञान और अनेक प्रभावों से युक्त।

### भाषा

अरस्तु ने द्रामा का चौथा तत्त्व 'भाषा' बताया है। वे शब्द जो पात्रों के रूप में मंच पर अभिनेता बोलता है। यह वह माध्यम है, जिसके द्वारा पात्र अपने विचार और अन्तः नाटक के विचार दर्शक तक सम्प्रेषित करते हैं।

नाटक की भाषा सीधी और सरल होती है, जो तुरन्त अपने अर्थ के साथ दर्शक की समझ में आ जाय। नाटक, उपन्यास या कविता पुस्तक नहीं है कि उसकी व्याख्या के अर्थ समझने के लिए दर्शक रंगभवन में बैठकर नाटक के पृष्ठ उलटकर देख सके। यह समझ नहीं।

भाषा कथनोपकथन के ही रूप में नाटक में मूलतः व्यवहृत होती है। फलतः स्पष्टता, सीधेपन के अतिरिक्त इसे मनोरंजक होना आवश्यक है। वरना दर्शक के लिए रुचिकर ही न हो सकेगा। भाषा को जीवन और चरित्र की आत्मा को पकड़कर चलना होता है।

भाषा-प्रयोग के लिए नाटककार को कवि की हप्टि चाहिए। वही गति, वही पैठ। श्रीक और एलिजाबीथन महान् नाटककार कवि की भाषा और वार्णी में ही नाटककार थे। यह स्थिति प्रायः उन्नीसवीं सदी से पूर्व तक रही है।

आधुनिक नाटककार—विशेषकर समसामयिक नाटककार की भाषा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। साहित्य से यह बोलचाल की भाषा-स्तर पर आया है। उसमें आंचलिक तत्व भी उमरे हैं। अभिव्यञ्जनात्रादी नाटक में भाषा के स्वरूप में बड़ा गहन चित्र उभरा है। 'एरीएप' और 'कमीनौरियत' नाटक की भाषा इस हप्टि से उल्लेखनीय है। भाषा-प्रयोग से ही नाटक में चरित्र की मनःस्थिति और नाटक की शृंखि का सीधे ज्ञान और प्रभाव मिलता है। 'स्ट्रीटकार नेट्वर्ड डिजायर' की भाषा में एक और यथार्थ जीवन की बोली जाने वाली वालियाँ भरी पड़ी हैं, दूसरी ओर उस भाषा में नाटक का 'कार्य' उमड़ रहा है। भाषा-प्रयोग के ठीक किंगित 'वेटिंग फॉर गोदो' नाटक की भाषा है। बेहद ठंडी भाषा। दो-तीन शब्दों से अधिक बड़े वाक्य ही नहीं हैं। जैसे भाषा में वही ठंडा इंतजार स्वयं आ दसा है। नाटक जहाँ से शुरू होता है, वहीं समाप्त हो जाता है—भाषा यहाँ बीच में गहरे ठंडे पानी की पतली धार की तरह थमी हुई है—ऐसा लगता है 'वेटिंग फॉर गोदो' की भाषा पढ़कर और सुनकर।

'वेकेट', 'आइनेस्को' और 'पिन्टर' आदि समसामयिक नाटककारों ने भाषा-प्रयोग में किसी भी परम्परा और सिद्धान्त का पालन नहीं किया है। इनकी भाषा में विराम और हृते हुए शब्दों के जो प्रयोग हुए हैं, उनसे उत्पन्न नाटकीयता उल्लेखनीय है।

### संगीत

अरस्तू के अनुसार यह पाँचवाँ तत्व नाटक में उन सब शब्द तत्वों को समेटकर चलता है, जो नाट्य-प्रदर्शन में प्रकट होते हैं। ध्वनि-प्रभाव, भाषा-बोली, बोलने तथा उच्चारण के लयात्मक ढंग को भी संगीत में ही प्रहण किया

पाश्चात्य रंगमंच : वृ

गया है। साथ ही सं  
स्कराधात, तारत्व अ

आधुनिक नाटक  
ने संगीत को अनावश्यक  
क्षेत्र में भी इसका खूब  
विलियम, 'मैटर लिं  
किया है। अभियंजन  
प्रयोग होता रहा है।

नाटक में सब त  
आदि का सीधा सम्बन्ध  
तथा आइनेस्कोन भी

### दृश्यता

प्रस्तुतिकरण के विन्यास, रूप-विन्यास,  
मन्त्र हृश्यता के अन्तर्गत

दृश्यता के तत्व  
एलिजाबीथन, 'नोह धै  
च्यवस्था न थी। कि  
कला-स्तर से समाप्त  
वस्त्र-विन्यास होता था  
एलिजाबीथन मंच का  
दृश्यता ही थी—दर्शक

रिनेसाँ के बाद ज  
और मंच धीरे-धीरे  
सज्जा, रंग-दीपन पर

नाटक की भूमिका

व्यवहृत होती है।

आवश्यक है। वरना

और चरित्र की

हिए। वही गति,

वि की भाषा और

सदी से पूर्व तक

कार की भाषा में

त की भाषा-स्तर पर

अंजनादादी नाटक में

'ओर 'कमीनैशियल'

और 'कमीनैशियल'

से ही नाटक में

ज्ञान और प्रभाव

क और यथार्थ जीवन

उम भाषा में नाटक

त 'वेटिंग फॉर गोदो'

से अधिक बड़े वाक्य ही

बसा है। नाटक जहाँ

बीच में गहरे ठड़े पानी

'वेटिंग फॉर गोदो' की

नाटककारों ने भाषा-

नहीं किया है। इनकी

हुए हैं, उनसे उत्पन्न

गया है। साथ ही संगीत में ध्वनि और वार्षी के स्वरक, वलाघात, घनत्व, लय,

स्वराघात, तारत्व आदि सभी पथ आते हैं।

आधुनिक नाटककारों ने, विशेषकर यथार्थवादी और प्रकृतवादी लेखकों  
ने संगीत को अनावश्यक समझकर इसे दूर रखा है। यद्यपि 'फिल्म' ने इस  
क्षेत्र में भी इसका खूब उपयोग किया है। फिर भी 'चेन्नै', 'ओ नील', 'टैनीसी  
विलियम', 'मैटर लिक', 'लोकां' और 'ओकेसी' ने संगीत का काफी इस्तेमाल  
किया है। अभिव्यजनादादी नाटकों में संगीत-तत्त्व का काफी कलात्मक  
प्रयोग होना रहा है।

नाटक में सब तरह के बोले जाने शब्दों, किंग, गण, स्वरों और आवाजों  
आदि का सीधा सम्बन्ध संगीत-तत्त्व से है। यहाँ तक कि हृदय में आरोह-अवरोह  
तथा आकेस्ट्रेशन भी संगीत के ही अन्तर्गत है।

### दृश्यता

प्रस्तुतिकरण के जितने हृष्य तत्त्व हैं—जैसे हृष्य-मञ्जा, प्रकाश, वस्त्र-  
विन्यास, रूप-विन्यास, रंग-व्यापार और मंच पर अभिनेता का गतिसंचार—ऐ  
सब हृश्यता के अन्तर्गत आते हैं।

हृश्यता के नन्दन में हर युग के रंगमंच में वड़ी विभिन्नता रही है। ग्रीक,  
एलिजावीथन, 'नोह एलेज आर्क जापान', तथा कावुकी मंच पर हृष्य-विनान की  
व्यवस्था न थी। किर भी इन सारे रंगमंच-प्रकारों में यह हृश्यता एक दूसरे  
कला-स्तर ने समाहृत हुई है। इन रंगमंच-प्रकारों में उल्लेखनीय हृष्य-प्रयान  
वस्त्र-विन्यास होता था। ग्रीक ड्रामा का वह कोरम, और कावुकी में नृत्य,  
एलिजावीथन मंच का वह पात्र-समूहन, वह हृष्यांकित गतिसंचार, यह सब वही  
हृश्यता ही थी—दर्शक को आकर्षित करने वाली।

रिनसां के बाद जब रंगमंच के चरण में रंगदार का युग घुर दोता है,  
श्रीग मंच धीर-धीर 'पिक्चर फोम' में बैठता गया, तब से हृश्यता के लिए मंच-  
मञ्जा, रंग-दीपत पर बहुत बल दिया जाने लगा है।

उन सब श्रव्य तत्त्वों को  
है। ध्वनि-प्रभाव, भाषा-  
ती संगीत में ही ग्रहण किया

## ड्रामा में संघर्ष की स्थिति

'ड्रामा' अपने समस्त प्रकारों में (दुखान्तकी, सुखान्तकी, 'मेलोड्रामा' और फार्स) सबंधा किसी न किसी स्तर से संघर्ष की अन्तःप्रेरणा से उदित होता है। इस तरह 'ड्रामा' में संघर्ष का स्थान उत्तरने ही महत्व और स्तर का है, जैसाकि संस्कृत रंगमंच में नाटक के अन्तर्गत रस का स्थान।

**वस्तुतः पादचात्य रंगमंच** में 'ड्रामा' का उदय और जन्म 'संघर्ष-तत्त्व' से ही है। दुखान्तकी में संघर्ष की यह स्थिति स्थूल और मानसिक दोनों स्तरों से विद्यमान रहती है। सुखान्तकी में दो विभिन्न शक्तियों के निजत्व से संघर्ष रहता है—स्त्री-पुरुष से संघर्ष, व्यक्ति-समाज से संघर्ष। दुखान्तकी में दया और भय के तत्त्व इसी संघर्ष के ही कारण उत्पन्न होते हैं। और सुखान्तकी में हास्य का मूल सार इसी संघर्ष से निःसृत होता है। संघर्ष की इस संदर्भ में प्रायः दो स्थितियाँ होती हैं :

○ बाह्य संघर्ष

○ अन्तःसंघर्ष

इसे क्रमशः वहिर्दन्ध भी कह सकते हैं। पूर्णतः बाह्य-संघर्ष से ड्रामा का स्वरूप निर्मित होता है और उससे हमारा ध्यान सबसे पहले आकर्षित होता है। ड्रामा में वस्तुतः दो स्थूल शक्तियों का संघर्ष है, अर्थात् दो चरित्रों का पारस्परिक द्वन्द्व, दो मस्तिष्कों का संघर्ष, दो व्यक्तियों का संघर्ष और कुछ अज्ञात शक्तियों का भी संघर्ष इसमें मिला रहता है। इस व्यापक संघर्ष का प्रतीक है ग्रीक थियेटर का ड्रामा।

ड्रामा का बाह्य संघर्ष इसका एक आदिम सत्य है, विशेषकर दुखान्तकी में इस संघर्ष का सत्य समान रूप से सर्वत्र दिखाई देता है। इस बाह्य संघर्ष को स्थूल से सूक्ष्म बनाकर ड्रामा में प्रयोग करना एक बहुत बड़े ड्रामा-लेखक का कार्य है।

इसके विपरीत ड्रामा का अन्तःसंघर्ष है। यह अन्तःसंघर्ष अपेक्षाकृत आधुनिक ड्रामा की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। और यह अन्तःसंघर्ष दुखान्तकी की तो जैसे आत्मा ही है। ड्रामा में अन्तःसंघर्ष का कलात्मक उदय पहली बार एली-वीथन ड्रामा में प्रकट हुआ—विशेषकर शेक्सपियर की शक्तिशाली लेखनी से।

अन्तःसंघर्ष तथा प्रभाव को अपने परिणाम कर देना के चरित्र द्वारा वाहमें तीव्र आकर्षण संघर्ष है जिसकी 'ओयेलो' संसार में 'हैमलेट' और 'किन्तु इस श्रेष्ठतम विद्यमान है। 'किंतु' का है, किन्तु इसके होकर केवल अन्तःसंघर्ष के हत्यारे होता है।

सुखान्तकी में लिए व्यवहृत होते भिन्न होता है। सुतम उद्गम सूत्र है संघर्ष और वस्तुतः की स्थिति नहीं दीख चरित्रों को ऐकर तात्रों को लेकर।

I. All Laught  
mentally the rep  
on the part of a

अन्तःसंघर्ष तथा बाह्य संघर्ष को अपना साधन बनाकर और उसकी शक्ति को, प्रभाव को अपने में आत्मसात करके अन्ततः दोनों को दुखान्तकी की आत्मा में परिणत कर देना। उदाहरण के लिए 'ओथेलो' में हम 'ओथेलो' और 'इआगो' के चरित्र द्वारा बाह्य संघर्ष पाते हैं, जिससे सर्वप्रथम ओथेलो ड्रामा के प्रति हमसे तीव्र आकर्षण पैदा होता है। किन्तु इसके गहरे ओथेलो का अपना अन्तःसंघर्ष है जिसकी भावात्मक तीव्रता और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति से 'ओथेलो' संसार का एक महान् 'ड्रामा' सिद्ध हुआ है। ठीक इसी तरह 'हैमलेट' में 'हैमलेट' और 'घोस्ट' तथा हैमलेट और बलाडियस के बीच बाह्य संघर्ष है, किन्तु इस श्रेष्ठतम् दुखान्तकी का स्तर स्वयं हैमलेट के मन और मस्तिष्क में विद्यमान है। 'किंग लियर' में बाह्य संघर्ष अत्यन्त स्पष्ट और स्थूल घरातल का है, किन्तु इसके ठीक विपरीत 'मैकब्रेथ' में यह बाह्य संघर्ष जसे समाप्त होकर वेवल अन्तःसंघर्ष में समाहित हो जाता है, और ड्रामा का सारा मूल्य मैकब्रेथ के हृत्यारे मन-मस्तिष्क और उसके पूरे व्यक्तित्व से छनकर उदित होता है।

सुखान्तकी में ये दोनों प्रकार के संघर्ष अपने दूसरे स्तर से अन्य उद्देश्य के लिए व्यवहृत होते हैं, फलतः इनका प्रभाव और परिणाम दुखान्तकी से सर्वथा भिन्न होता है। सुखान्तकी प्रसंग में हास्य-दिनोद का साधारणतम् और स्पष्टतम् उद्गम सूत्र है (थियेटर के क्षेत्र में) व्यक्ति अथवा पेशे का समाज से संघर्ष और वस्तुतः यह सब बाह्य संघर्ष के अन्तर्गत आता है।<sup>1</sup> इसमें अन्तःसंघर्ष की स्थिति नहीं दीख पड़ती। यह सत्य भी है कि सुखान्तकी सहज साधारण चरित्रों को खेकर लिखी जाती है, और दुखान्तकी अन्तर्मुखी और संगिलिष्ट पात्रों को लेकर।

1. All Laughter is social in character and that it is fundamentally the reproof of a particular society to any eccentricity on the part of a single person or of a special class.

M. Bergson (Le Rire)

दुखान्तकी

आत्मा इन अनैतिक  
के आचरण की  
में हमें अपने विच

## दुखान्तकी

दुखान्तकी क्या है, इसकी आत्मा और मर्यादा क्या है, इसका विवेचन प्राचीनकाल के नाटकारों ने नहीं किया। यह कार्य समान्न हुआ बाद के दार्शनिकों तथा तत्त्वज्ञानियों द्वारा। इन्होंने दुखान्तकी नाट्य-कृति के आधार से उसमें समाहित नाटकीय तत्त्वों के आधार से दुखान्तकी के कुछ मूलभूत सिद्धान्त हूँढ़ निकाले और उनकी प्रकृति तथा मर्यादाओं का विश्लेषण किया।

तत्त्वज्ञानियों का पहला अन्वेषण दुखान्तकी की आत्मा को लेकर प्रारम्भ हुआ। प्रायः सभी परोक्ष-अपरोक्ष रूप से इस परिणाम पर पहुँचे कि दुखान्तकी की आत्मा करुणा है। वर्तिक इसे हम यों भी कह सकते हैं कि दुखान्तकी और करुणा रस दोनों साथ ही साथ रहते हैं।

'करुणा रस' का जब प्रादुर्भाव होता है, तो उसके साथ-साथ मानव की अन्य अनन्तियाँ भी वही रस ग्रहण कर लेती हैं और हम तथा दुखी व्यक्ति एक ही वर्ग और श्रेणी में आ जाते हैं।

और भी जब हम किसी दैवी अथवा अलौकिक घटना तथा कृत्य द्वारा मनुष्य को पीड़ित, दुखी और वृसित देखते हैं तो हममें दैवी शक्ति के प्रति एक भय तथा साथ ही मनुष्य के आधार से हममें अपनी हीनता का भाव जाग्रत होता है, तब हम हताश और अवाक् होकर उस दैवी अथवा अलौकिक घटना तथा कृत्य को देखते रह जाते हैं और हमारी ऐसी ही भावना में दुखान्तकी की आत्मा निहित रहती है।

## दुखान्तकी की आत्मा

सर्वप्रथम बहुत ही स्पष्ट रूप में 'हेगेल' ने दुखान्तकी की आत्मा की बात उठायी। उसने इसका विश्लेषण आगे दो भागों में किया। पहले भाग में हेगेल का सर्वथा धार्मिक व्याप्तिकोण है तथा दूसरे में सौंदर्य-बोध का व्याप्तिकोण। उसके विचार और विश्लेषण से दुखान्तकी का मूलाधार दोप अथवा अनैतिकता है और उसका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के आचरण से है। वस्तुतः दुखान्तकी की

दुखान्तकी की

पहला तत्त्व  
हम दुखान्तकी दे  
सामने रहती है  
और वेचाता है।  
सखता में पराति  
से, तथा कर्ता क  
से सम्बन्ध जानन  
होते। वस्तुतः इ

दूसरा तत्त्व  
चलती है कि इस  
को नैतिक आचरण  
शील भी वह रह  
यापन की ओर रह  
अनैतिक अवधुण  
को अपने विकास-  
आत्मा की प्रतिष्ठ

व्यावहारिक  
मूलाधार है। य  
मृत्यु मानसिक औ

भारतीय दृष्टि

दुखान्तकी प  
में उन्होंने दुखान्त

आत्मा इन अनैतिक दोषों का हल ढूँढ़ती है। इसी हल को ढूँढ़ने में हमें ईश्वर के आचरण की भी मीमांसा करनी पड़ती है, तथा ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध में हमें अपने विचार प्रदर्शित करने पड़ते हैं।

## दुखान्तकी

वया है, इसका विवेचन समान हुआ वाद के दार्शनिकों के कुछ मूलभूत सिद्धान्त विश्लेषण किया।

वे की आत्मा को लेकर स परिणाम पर पहुँचे कि वे भी कह सकते हैं कि है।

के साथ-साथ मानव की हम तथा दुखी व्यक्ति एक

टना तथा कृत्य द्वारा मनुष्य व्यक्ति के प्रति एक भय तथा भाव जाग्रत होता है, प्रलोकिक घटना तथा कृत्य में दुखान्तकी की आत्मा

### दुखान्तकी की आत्मा के दो मूल तत्त्व

पहला तत्त्व ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध का अस्पष्ट रहस्य अर्थात् जब हम दुखान्तकी देखते हैं तो आदि से अन्त तक यही रहस्यपूर्ण समस्या हमारे सामने रहती है कि ईश्वर तथा भाय के हाथ किसे अंगों तक मनुष्य विश्व और वेचारा है। फिर भी मनुष्य के अपने प्रयत्नों तथा कृत्यों से अपने आपको सरनाता से पराजित हुआ नहीं सिद्ध कर पाता। उसके बीच हम कायं का कारण से, तथा कर्ता का घटनाक्रम से और इन सब के ऊपर कर्ता और परोक्ष शक्ति से सम्बन्ध जानना चाहते हैं। पर हम उस रहस्यभेद को जानने में सफल नहीं होते। वस्तुतः इसी रहस्यभाव में ही दुखान्तकी की आत्मा छिपी रहती है।

इसगा तत्त्व : दुखान्तकी की आत्मा, सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार करके चलती है कि इस नंसार में अनैतिकता है। जबकि दूसरी ओर मनुष्य अपने आप को नैतिक आचरण वाला प्राणी समझकर चलता है और उस दिशा में प्रयत्न-शील भी वह रहता है। तभी उसका उद्देश्य अनैतिक जीवन से नैतिक जीवन-यापन की ओर रहता है। इस नैतिक प्राणी मनुष्य में जब कोई दोष अथवा अनैतिक अवगुण समा जाता है तो दुखान्तकी की आत्मा इसी दोष, इसी अवगुण को अपने विकास-रूप में देखती चलती है। तथा इसी प्रक्रिया में दुखान्तकी की आत्मा की प्रतिष्ठा होती है।

व्यावहारिकता और सिद्धान्त दोनों हिस्तियों से मृत्यु ही दुखान्तकी का मूलधार है। यह मृत्यु शारीरिक ही हो, यह कोई विशेष बात नहीं। यह मृत्यु मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है।

### भारतीय दृष्टिकोण से इसका अन्तर और तात्त्विक समीक्षा

दुखान्तकी पश्चिमी देशों की उपलब्धि है। 'इमा' की कल्पना ही प्रारम्भ में उन्होंने दुखान्तकी के ही रूप में की। इसके ठीक विपरीत प्राचीन भारत ने

नाटक की कल्पना 'रस' और 'आनन्द' के रूप में की। इसके कारण पूर्व और पश्चिम के जीवनगत तथा दर्शनगत विभिन्न हिटिकोणों में छिपे हैं। हमारा आदि से ही यह विश्वास रहा है कि ब्रह्म—ईश्वर सर्वत्र है। वह सर्वशक्तिमान् और कृपालु है। यह जीवन उसी ब्रह्म की लीला है : फलतः इसका अंत आनन्दमय है। ठीक इसके विपरीत यीक लोगों में उस तरह का कोई सर्वशक्तिमान् ईश्वर न था। न ऐसे ईश्वर की कोई कल्पना ही थी। केवल छोटे-छोटे देवता, जिनके स्तर मनुष्य से थोड़े ही ऊपर थे। अतएव वहाँ जीवन संघर्ष और कष्ट का ही क्षेत्र था। वहाँ का जीवन लीला न था, वरन् जैसा यथार्थ वाहर से था, वही सब तरह से सत्य था। वहाँ मुख्य न देवता थे, न मनुष्य, वरन् मनुष्य का भाग्य, अंधी किस्मत। वयोंकि बाइबिल के अनुसार मनुष्य इस पृथकी पर (स्वर्ग से पतित होकर) पाप वश (सिन) आया है। उसने बदकिस्मती से जो वर्जित फल खा लिया था। भनुष्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, भाग्य का विधान उसे निश्चय ही चूर-चूर करेगा। यह नियति की बात है। 'ओडिपस' राजा में मूलतः अपना कोई दोष नहीं है। वह आदि से अंत तक एक तरह से अनजान, निष्पाप है, पर भाग्य ने उसे कितना अपार कष्ट दिया। वयोंकि उसके ऊपर कोई सर्वशक्तिमान्, कृपालु ईश्वर न था। यहाँ तो केवल मनुष्य है, और उसके सिर पर केवल उसकी नियति है, वस। ग्रीक जीवन-धारा का इस दिशा में यह पहलू उल्लेखनीय है।

दूसरी धारा इस दिशा में 'ज्यूज' की थी : कष्ट भोगने की। आगे चलकर इस धारा को चरमसीमा मिली क्रिश्चियन दर्शन से। विश्वास और विचार इन दोनों स्तरों से इस धारणा ने दुखान्तकी को कला और दर्शन दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित किया। 'क्राइस्ट' हमारे लिये, इस संसार के लिये कितना अपार कष्ट सह रहा है। हमारा जीवन सुखमय हो जाय, हमें त्रास और कष्ट से मुक्ति मिल जाय, इसके लिये क्राइस्ट अपार संघर्ष सह रहा है। हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिये वह सदा प्रयत्नशील है। इस तरह यह 'क्राइस्ट' एक असाधारण करुणानायक है। दुखान्तकी में नायकत्व के पीछे उसी 'क्राइस्ट' के चरित्र की वह अभिट छाप है विद्यक पश्चिम में दुखान्तकी का नायक एक तरह से 'क्राइस्ट' का ही प्रतीक है। आगे चलकर इस क्षेत्र में नियति के कानून से बड़ा प्रभु की कृपा का सत्य वहाँ विकसित हुआ। शेक्सपियर पर क्रिश्चियन की इसी विकसित-भाव धारणा से लेखक की सारी हिटि, उस की शक्ति का सारा बल चरित्र पर है, भाग्य (फेट) पर उतना नहीं। भाग्य की सत्ता को वह स्वीकार नहीं कर सका पर उससे बड़ी शक्ति प्रभु की कृपा है। यह शेक्सपियर की इस दिशा में बहुत बड़ी देन है। ईश्वर यहाँ सर्वशक्तिमान् है, पर शैतान और प्रेत भी साय ही साथ सत्य है। ईश्वर और शैतान, जीवन और मृत्यु यह विराट-

दुखान्तकी

संघर्ष शेक्सपियर का नायक है। अस प्रिय पात्र, ईश्वर के अंधशक्ति अथवा महज वृत्ति को पहच की पकड़ में आ पवित्र आत्मा परामिति अपने ईश्वर-अंश से कि मैंकेवेथा 'है बैठी थी, तभी त हुआ उसका शैतान 'मृत्यु दृश्य' कितना राजा और वह भी ही हत्या से उसका को भी मारना चाहोड़ा, ईश्वर को दूला जायगा।

पश्चिम में दुरुपर नाट्यकला और हिटि ने पश्चिम को पश्चिम में 'ओडिपस' 'मौनिग, विकस्त एवं महान, महत्वपूर्ण न ही कोई व्यवधान न। इसके मूल में जीवन एकात्म भाव।

प्राचीन भारत में इसके दो कारण रहे अथद्वा और ईश्वरीय होने का भय था। महत्ता बिलकुल ही अन्त न कर आध्यात्मिक विचार-दर्शन से दुखान्तकी

संस्कृत नाटकों में

सके कारण पूर्व और ऊपर में लिये हैं। हमारा जीवन है। वह सर्वशक्तिमान् असाधारण चरित्र कोई सर्वशक्तिमान् वल छोटे-छोटे देवता, जीवन संघर्ष और कष्ट यथार्थ वाहर से था, मनुष्य, वरन् मनुष्य मनुष्य इस पृथ्वी पर ने बदकिस्मती से जो यों न हो, भाग्य का बात है। 'ओडिपस' प्रतं तक एक तरह से दिया। क्योंकि उसके नेतृत्वे वल मनुष्य है, और धारा का इस दिशा

की। आगे चलकर इस और विचार इन दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अपार कष्ट सह रहा से मुक्ति मिल जाय, से हमें मुक्ति दिलाने ट' एक असाधारण 'इस्ट' के चरित्र की एक तरह से 'काइस्ट' नून से बड़ा प्रभु की न की इसी विकसित-ता बल चरित्र पर है, कार नहीं कर सका र की इस दिशा में जीवन और प्रेत भी र मृत्यु यह विराट्

संघर्ष शेखपियर की दुखान्तकी की आत्मा है। 'मैकबेथ' असाधारण चरित्र का नायक है। असाधारण शक्ति-सम्पन्न सैनिक, विश्वासपात्र, राजा का परम प्रिय पात्र, ईश्वर के अंश से परिपूर्ण। पर इसकी भेट एक बार प्रेतिनी शक्ति, अंधशक्ति अर्थात् मृत्युपक्ष से होती है। क्योंकि इस अंधशक्ति ने 'मैकबेथ' की सहज वृत्ति को पहचान लिया कि यह अति महत्वाकांक्षी है। तभी वह अंधशक्ति की पकड़ में आ गया। और इस अंधशक्ति से यदि एक बार भी उसकी पवित्र आत्मा पराजित हुई तो वह सदा के लिये पराजित हुई। अब मैकबेथ अपने ईश्वर-अंश से रहित अकेला मनुष्य। दूसरा सत्य यह कि मैकबेथ या 'हैमलेट' के भीतर कहीं न कहीं वह अंधशक्ति, वह प्रेतात्मा बैठी थी, तभी तो उन्हें वह शैतान दिखाई पड़ा। 'मैकबेथ' के भीतर बैठा हुआ उसका शैतान कितना निर्मम और अंधशक्ति वाला था। 'बैंको' का 'मृत्यु हश्य' कितना छोटा, अपराधपूर्ण और अमानवीय है। बेचारा बुड़ा राजा और वह भी 'मैकबेथ' का अतिथि-पूज्य मेहमान। आगे 'डंकन' की ही हत्या से उसका जी नहीं भरता, वह डंकन के बच्चों तथा उसके मित्रों को भी मारना चाहता है। सत्य है—यदि मनुष्य ने एक बार भी सत्य को छोड़ा, ईश्वर को छोड़ा तो वह सत्य, वह ईश्वर उस मनुष्य को सदा छोड़ता चला जायगा।

पश्चिम में दुखान्तकी की यह हृष्टि दर्शन के स्तर से चाहे जो रही हो, पर नाट्यकला और उसकी शक्ति-सम्पन्नता की हृष्टि से अनन्य रही है। इस हृष्टि ने पश्चिम को यथार्थ मार्ग दिया—संघर्ष दिया, ड्रामा का प्राण। तभी पश्चिम में 'ओडिपस रेक्स' से लेकर 'हैमलेट', 'मैकबेथ', 'डॉल्स हाउस', 'सीगल', 'मौनिंग, विकम्प एलकट्रो', 'डैथ ऑफ सेल्समैन' और 'वेटिंग फार गोदो' तक महान, महत्वपूर्ण नाट्यकृतियों की एक अवाध परम्परा चली आ रही है। कहीं भी कोई व्यवधान नहीं। क्योंकि दुखान्तकी की हृष्टि में यथार्थ जीवन था। इसके मूल में जीवन-संघर्ष था। नाट्य-धारा और जीवन-धारा का सुन्दर मेल—एकात्म भाव।

प्राचीन भारत में इसकी सामाजिकता उक्त विचार-दर्शन के विरुद्ध रही। इसके दो कारण रहे हैं। पहला तो दुखान्तकी से जन-जीवन में ईश्वर के प्रति अश्रद्धा और ईश्वरीय न्याय और अनुशासन के प्रति अविश्वास, उपेक्षा उत्पन्न होने का भय था। दूसरे संस्कृत नाटककारों ने आध्यात्मिक हृष्टि से मृत्यु की महत्ता विलकृत ही खत्म कर दी—क्योंकि उनके विचार से मृत्यु जीवन का अन्त न कर आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन के द्वारा खोलती है। अतएव इस विचार-दर्शन से दुखान्तकी का मूलाधार ही खत्म हो जाता है।

संस्कृत नाटकों में अनेक नाटक अपने विकास-क्रम और रूप में दुखान्तकी

के समीप पहुँच जाने हैं, किन्तु वे कभी भी मृत्यु का आधार नहीं लेते। 'मृच्छकटिकम्' में वसन्तसेना को उपवन में मृत्युबृत घटना इसका सुन्दर उदाहरण है। फिर संस्कृत नाटक—जो सुखान्तकी के अनन्य उदाहरण है, उनमें दुखान्तकी के कलिपय तत्त्व क्यों व्यवहृत होते हैं। इसका बहुत ही सुन्दर उत्तर अरविन्द ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे वर्षा के लिये काले बादलों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत नाटकों में रस और आनन्द के लिये काले बादलों सहज कभी-कभी उन घटनाओं और कार्यों की प्रतिपथा होती है। पर चूंकि यह सारा ब्रह्माण्ड, यह सारा आकाश ब्रह्ममय है, इसलिये उन बादलों के भीतर भी वही रस, वही आनन्द, सम्पूर्ण आनन्द, सुख और रस में आपना सहयोग देते हैं। वे दुखान्तकी अंश निर्क उत्तरे ही अंश में व्यवहृत होते हैं। नाकि आनन्द के प्रकाश में तीव्रता आये—जैसे वर्षा के बाद का नया सूरज।

### दुखान्तकी के तत्त्व

अरस्तु ने जो दुखान्तकी की परिभाषा दी है, वह तात्त्विक हिति में अपने-आप में सम्पूर्ण है। उसमें इसके मारे तत्त्वों की श्रोत समुचित संकेत है। उसने दुखान्तकी की परिभाषा देते हुए कहा कि—'दुखान्तकी किसी गंभीर, महत्वपूरण तथा विद्याल कार्य का रंगस्थल पर अनुकरण है, जो भाषा के माध्यम से सौन्दर्य-युक्त तथा आनन्दमयी बनकर भय और कहणा ढारा हमारी मानवीय भावनाओं को अति परिमार्जित करती है। सम्पूर्ण कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसका आदि, मध्य और अन्त पूर्णहृषा से सुगठित रहे और विशाल कार्य से तात्पर्य ऐसे ढाँचे से है जो न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा।'

अरस्तु की उक्त परिभाषा में निश्चय ही दुखान्तकी के सारे तत्त्वों का संकेत है। फिर अरस्तु ने दुखान्तकी के छः विशेष तत्त्व गिनाये हैं :

- कहानी
- पात्र
- भाषा
- विचार
- हस्यत्व
- संगीत।

कहानी से अरस्तु का तात्पर्य उस 'मिथ' अथवा गाथा से है, जिसे दर्शक भलीभांति जानते हैं। और वस्तु से उसका तात्पर्य उस तत्त्व से है, जो केवल

दुखान्तकी

नाटककार की दुखान्तकी की इ पर बड़ी गहराई 'नाट्य' के एक विचारकों की अत्यन्त मौलिक ने मुख्य रूप से पहुँचा है जबकि ० दोनों प्र हों, पर परस्पर ० दोनों प्र मय हो।

इसके प्रकार हैं। पहला, वस्तु समाधान।

मनव-हृदय का सिद्धान्त मान श्रति तत्त्व का दुखान्तकी के प्रभ अथवा 'रेत्व' ही संचार करके कर पतन। और वह सिद्धान्तः निम्न

० श्र

० म

० म

० स

ऐसे नायक दुखान्तकी के नाचरित्रवान्, नैतिक यह सत्य साधार नायक का पतन सम्पन्न नायक होता है। उसका

न आधार नहीं लेते। 'मृच्छ-टना' इसका मुन्दर उदाहरण है, उसमें दुखान्तकी हृत ही मुन्दर उत्तर अरविन्द कलं वादलों की आवश्यकता और आनन्द के लिये काले गों की प्रतिष्ठा होती है। पर यह, इसनिये उन वादलों के सुख और रस में अपना सहभय में व्यवहृत होते हैं। जाकि वाद का नया सूरज।

, वह तात्त्विक हिंड में अपने-  
और समुचित संकेत है। उसने  
न्तकी किसी गंभीर, महत्वपूर्ण  
जी भाषा के माध्यम से सौन्दर्य-  
द्वारा हमारी मानवीय भाव-  
कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है  
छित रहे और विद्याल कार्य से  
हृत छोड़।'

न्तकी के सारे तत्वों का संकेत  
मिनाये हैं :

प्रथवा गाया से है, जिसे दर्शक  
स्पर्य उस तत्व से है, जो केवल

नाटककार की चेतना में विद्यमान रहता है। अरस्तू के अनुसार यही वस्तु दुखान्तकी की आत्मा है। अरस्तू ने और उसके श्रागे के विचारकों ने इन तत्वों पर बड़ी गहराई से विचार किया है। ठीक जैसे हमारे यहाँ 'नाट्य-शास्त्र' में 'भाट्य' के एक-एक तत्व का विशद एवं गहन विश्लेषण। कारण यह कि इन विचारकों की हिंड ने अन्ततोगत्वा दुखान्तकी के एकान्त प्रभाव पर अपने अत्यन्त मौलिक और विद्वात्तापूर्ण विचार प्रकट किये हैं। 'पोएटिक्स' में अरस्तू ने मुख्य रूप से यह बताया है कि दुखान्तकी का समुचित प्रभाव दर्शक पर तभी पड़ता है जबकि :

○ दोनों प्रतिद्वन्द्वी पक्ष, नित्र, रित्तेदार अथवा एक-दूसरे के हितचिन्तक हों, पर परस्पर शत्रु हों।

○ दोनों पक्षों का सम्बन्ध स्पष्ट प्रकट न होकर प्रायः गुप्त और रहस्य-भय हो।

इसके प्रकाश में सिद्धान्त-दुखान्तकी की वस्तु के दो स्पष्ट विभाग हो जाते हैं। पहला, वस्तु की आपद-काल तक प्रणति और दूसरा उसकी जटिलता का समाधान।

मानव-हृदय पर दुखान्तकी के प्रभाव का आधार अरस्तू ने चिकित्सा-शास्त्र का सिद्धान्त माना है। जैसे वैद्यक में 'रेचक' औषधियों से शरीर में किसी बढ़े हुए अति तत्व का शमन करके रोगी को रोग-मुक्त किया जाता है, उसी प्रकार दुखान्तकी के प्रभाव में भी यही सत्य है। इस सत्य को अरस्तू ने 'केयारसिस' अथवा 'रेचन' ही कहा है। यह आत्मशुद्धि नाटककार दर्शक में करणा का संचार करके करता है। शायद तभी दुखान्तकी का मूलाधार ही है नायक का पतन। और वह नायक कोई खलनायक नहीं, बल्कि श्रेष्ठ नायक जिसमें सिद्धान्ततः निम्नलिखित गुण निश्चय ही हैं :

○ श्रेष्ठता

○ भाषा-प्रयोग की स्वाभाविकता

○ मानवता

○ समरूपता आदि।

ऐसे नायक का पतन निश्चय ही दर्शक को करणा से भर देगा। क्योंकि दुखान्तकी के नायक में जब वह प्रत्यक्ष देखता है कि नायक तो सर्वथा श्रेष्ठ, चरित्रवान्, नैतिक, निष्पक्ष तथा विचारशील है, फिर भी उसका पतन हुआ—यह सत्य साधारण नहीं है दर्शक के लिये। पर प्रश्न उठता है कि तब ऐसे नायक का पतन आखिर होता ही क्यों है। वस्तुतः दुखान्तकी का सर्वगुण-सम्पन्न नायक निश्चय ही कहीं न कहीं किसी एक मूलभूत दोष का शिकार होता है। उसका यह एकांगी दोष ही उसके अन्य समस्त गुणों तथा विशेषताओं

के बावजूद उसे पतन देता है। यह दोष उसके विचारों में हो सकता है, मन में अथवा शरीर में हो सकता है, बल्कि उसकी चित्त-वृत्ति में हो सकता है, पर यह उसके लिये भयानक सिद्ध होता है। इससे सिर्फ उसी का पतन नहीं होता, बल्कि उसका सारा परिवार, हित-मित्र सभी इस दोष-ज्वाला में स्वाहा हो जाते हैं। दुखान्तकी के अन्त में स्वभावतः दर्शक पर तभी दो प्रभाव पड़ते हैं :

### ○ करणा का

#### ○ भय का

दुखान्तकी में ऐसे प्रभाव लाने के पीछे रोमीय नाटककारों का उद्देश्य क्या था? वस्तुतः दुखान्तकी की रचना और प्रस्तुतिकरण का मूलाधार धार्मिक पूजा थी। यह धार्मिक पूजा 'डायोनिसियस' और 'एपोलो' के त्योहारों से बंधी हुई थी। 'डायोनिसियस' के त्योहारों में लालसा, उन्मत्तता, आवेश और प्रगल्भता की अति से जीवन में अनाचार और विशृंखलता आने का भय था। इसके विपरीत एपोलो के त्योहार की मर्यादा, आदर्शवादिता तथा आध्यात्मिकता की प्रति से जीवन में नीरसता और ऊब आने का डर था। फलतः इन दोनों दिशाओं की 'अति' का परिमार्जन तथा संशोधन यूनान देश के प्रत्येक लेखक का उद्देश्य हो गया—विशेषकर यूनानी दुखान्तकी-लेखकों का। उनकी दुखान्तकी-कला और उसके समूचे चरित्र-चित्रण के पीछे, तथा अंत में छिपी नैतिकता का यही चरम लक्ष्य था। जब दर्शक श्रेष्ठ आदर्श नायकों का पतन देख चुकते हैं और भाग्य-चक्र की शक्ति का अनुभव कर लेते हैं तो उन्हें जीवन के प्रति एक तटस्थ हृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। तब वे न नास्तिक बनकर ईश्वरीय विधान के प्रति अपनी अश्रद्धा दिसलाते हैं, न वे जीवन के रागरंग में इतना हूब ही जाते हैं कि वे सब कुछ भूल जाएं। भाग्य की शक्ति उन्हें स्मरण रहे और यह भी याद रहे कि नायक के पीछे स्वयं नायक की चरित्रगत निर्बलता ही कारण रही है। एक और भाग्य का चक्र दूसरी और नायक के चरित्र का एकांगी दोष—यह है नायक के पतन का कारण और इसी विचार-हृष्टि में दुखान्तकी की शक्ति और उसकी रहस्य-भयी लोकप्रियता छिपी है।

### दुखान्तकी का स्वरूप और प्रकृति

दुखान्तकी अति गंभीरता का नाट्य रूप है। इसका विषय मनुष्य की गहन समस्या और सर्वदेशीय मूल्य हैं। मनुष्य की नियति, उसका लक्ष्य, पुण्य-पाप, भय-प्रपराध तथा इंसान की वे निमंम और कदु यथार्थं परिस्थितियाँ, जिनसे

### दुखान्तकी

उसका सतत संग्राम छिड़ा हुआ होता। इसका लक्ष्य संघर्षों में मनुष्य के उस गंभीर यथार्थ है। चरित्र की

दुखान्तकी सम्पूर्ण नाट्‌य में तीनों भाग उसकी आत्मा में बद्दे और करुणा। दया,

इसी लिये दुखान्तकी को उसकी अपेक्षायें हैं। और इन महान् नाटककार ही वास्तविक में अनेक नाटककारों ने दुखान्तकी कम ही बन सके हैं।

प्रीस और एलिजानीथन जितनी परिस्थितियाँ थीं, उनमें चेतना उच्च शिखर पर थी। मानव संस्कार के परिष्कार में में उठे थे। इसी चेतना की अनुभव ही उसका जीवन-त समान है। सीफोवलीज, शेक्सपियर की दुखान्तकियों से इसकी होती है :

(क) मनुष्य की गरिमा

(ख) उसकी इच्छावक्ति प्रति उसका दायित्व।

(ग) मनुष्य से भी ऊपर किस युग और काल में मनुष्य की रचना कठिन है। इंग्लैण्ड के अक्षुण्ण रखने की बड़ी कोशिशें लिखने की एक शैली ही स्वीकार प्रयत्न भी किए, किन्तु युग की चेतना वाली जीवन के तथ्यों का आग्रह भयी हृष्टि वहाँ जैसे गायब थी।

दुखान्तकी का विषय महत् संघ

हो सकता है, मन में  
हो सकता है, पर यह  
का पतन नहीं होता,  
लामे स्वाहा हो जाते  
प्रभाव पड़ते हैं :

लारों का उद्देश्य क्या  
मूलाधार धार्मिक पूजा  
त्योहारों से बंधी हुई  
प्रावेश और प्रगल्भता  
का भय था। इसके  
प्राध्यात्मिकता की अति-  
तः इन दोनों दिशाओं  
त्वेक लेखक का उद्देश्य  
दुखान्तकी-कला और  
तिकटा का यही चरम  
करते हैं और भाग्य-वक  
एक तटस्थ हृष्टिकोण  
विद्वान के प्रति अपनी  
ही जाते हैं कि वे सब  
यह भी याद रहे कि  
ए रही है। एक और  
—यह है नायक के पतन  
त और उसकी रहस्य-

विषय मनुष्य की गहन  
सका लक्ष्य, पुण्य-पाप,  
परिस्थितियाँ, जिनसे

उसका सतत संग्राम छिड़ा हुआ है। दुखान्तकी का घरातल कभी भी हल्का, छोटा  
नहीं होता। इसका लक्ष्य मनोरंजन भी नहीं है। इसकी प्रकृति ही है मूल्यगत  
संघर्षों में मनुष्य के उस गंभीर सत्य की तालाश, जो उसकी नियति है, न्याय है  
और यथार्थ है। चरित्र की भव्यता, गहनता दुखान्तकी में ही संभव है।

दुखान्तकी सम्पूर्ण नाट्यकृति होती है—ग्रादि, भय और अंत से युक्त, और  
ये तीनों भाग उसकी ग्रात्मा से इस तरह अखंड होते हैं, जैसे जन्म में अर्थ, जीवन  
में दर्द और करणा। दया, भय और करणा ये मूल स्वर हैं दुखान्तकी के।

इसी लिये दुखान्तकी को ग्रासामान्य (रेवर) कहा गया है। विशेष दर्द-संघर्ष  
उसकी अपेक्षायें हैं। और इन सबसे ऊपर बहुत ही विशेष हृष्टिवान्, मेवावी और  
महान् नाटकार ही वास्तविक श्रेष्ठ दुखान्तकी लिख सकता है। हर युग-काल  
में अनेक नाटककारों ने दुखान्तकी की रचना की है, पर श्रेष्ठ दुखान्तकी बहुत  
कम ही बन सके हैं।

यीस और एलिजाबीथन इंग्लैण्ड इन दोनों देश-कालों में दुखान्तकी के लिये  
जितनी परिस्थितियाँ थीं, उनमें निश्चय ही दोनों काल स्वरूप्युग के थे। काल की  
चेतना उच्च शिखर पर थी। मानव-ग्रात्मा विजय को छू रही थी, और संस्कृति  
मानव संस्कार के परिष्कार में लगी थी। बड़े प्रश्न, बड़े मूल्यगत संघर्ष समाज  
में उठे थे। इसी चेतना की अभिव्यक्ति है ग्रीक और शेक्सपियर दुखान्तकी।  
इन दुखान्तकियों का जीवन है कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, गरिमामय है, आत्मसम्मान  
और गौरव ही उसका जीवन-तत्त्व है। अन्यथा सब बेकार है, तुच्छ है। मृत्यु  
समान है। सोफोकलीज, शेक्सपियर, और नील, इब्सन, चेखोव और आर्द्दर मिलर  
तक की दुखान्तकियों से इसकी प्रकृति के विषय में मूलतः तीन बातें स्पष्ट  
होती हैं :

(क) मनुष्य की गरिमा

(ख) उसकी इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति की स्वाधीनता। और इसके  
प्रति उसका दायित्व।

(ग) मनुष्य से भी ऊपर किसी सत्ता या अतिमानव शक्ति का अस्तित्व।

जिस युग और काल में मनुष्य का यह दर्शन-बोध दृष्टा है, वहाँ श्रेष्ठ दुखान्तकी  
की रचना कठिन है। इंग्लैण्ड के 'रेस्टोरेशन' काल में दुखान्तकी की परम्परा  
अक्षुण्णा रखने की बड़ी कोशिशें की गयीं। 'ओटवे' और 'हिरोइक ड्रामा'  
लिखने की एक शैली ही स्वीकार की गयी। 'ड्राइडन' ने कुछ महत्वपूर्ण  
प्रयत्न भी किए, किन्तु युग की चेतना के अनुरूप ही उस काल की ऐसी रचना  
में बाह्य जीवन के तथ्यों का आग्रह ज्यादा दीख पड़ा, जीवन के प्रति वह दर्शन-  
मयी हृष्टि वहाँ जैसे गायब थी।

दुखान्तकी का विषय महत् संघर्ष है, उल्लेखनीय प्रश्न, जिसने हर युग में

मनुष्य को संत्रस्त किया है—तोड़ा और मथा है।

दुखान्तकी का भावक्षेत्र यद्यपि उत्पीड़न, दुख और मृत्यु है, किर भी अपने लक्ष्य में यह सर्जनात्मक है, सार्थक है। मृत्यु का मूल्य नहीं है, वह तो अवश्य-ममाकी है, महत्वपूरण है, मृत्यु के पूर्व तक मनुष्य के संघर्ष। तभी दुखान्तकी को 'ईमानदार' कहा गया है। दुखान्तकी का नाटककार जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। उसमें इतनी ईमानदारी और साहस होता है कि वह जीवन की सारी पराजय, हताशा और करणा को भोगता है।

जाँ अनुई ने 'एन्टीगान' में नये कोरस के स्वर में दुखान्तकी की सहज प्रकृति को सर्वां किया है।

*Tragedy is clean, it is firm, it is flawless. It has nothing to do with melodrama—with wicked villains, persecuted maidens, avengers, gleam of hope and eleventh hour repentance...*

दुखान्तकी का नायक अरस्तू के मूल्यांकन का प्रिय विषय रहा है। इसकी कल्पना करने के पूर्व उसने तीन प्रकार के नायकों की अवधारणा की उपेक्षा की है: कि अच्छा आदमी इस रूप में दिखाया जाय कि वह सुख से दुख में गुजर रहा है—कि बुरा आदमी दुख और उत्पीड़न से सुख में जा रहा है—कि एक बहुत ही बुरा आदमी सुख से दुख में गिर रहा है।

**वस्तुतः** इन तीनों स्थितियों में दया, भय और करणा की वह निष्पत्ति सम्भव नहीं है, जो दुखान्तकी के लिए सर्वथा अपेक्षित है।

दुखान्तकी का नायक अच्छा व्यक्ति होता है, किन्तु वह कुछ आधारभूत त्रुटियों और सीमाओं के बीच में रहता है। उसका मूल दोष उसकी निर्णय-दृष्टि में रहता है, अन्यथा वह निर्दोष रहता है। अतः जब उसपर भयानक विपत्ति पड़ती है और वह उत्पीड़न का पात्र बनता है, तब हमें उसके प्रति दया उभरती है। जूलियस सीजर, एंटीगोन, एलक्ट्रा, ओडिपस, ओथेलो और किंग लियर ऐसे ही नायक हैं।

दुखान्तकी न्याय दिखाने के लिए नहीं होती। बल्कि इसके विपरीत वह इस सत्य को दिखाती है कि जीवन कितने अन्यायों से भरा पड़ा है।

दुखान्तकी का नायक इस अर्थ में बहुत उल्लेखनीय है कि वह कर्म का प्रतीक होता है। उसमें विश्वमानव के मूलभूत तत्त्व होते हैं। वह भाग्य से, नियति से और संयोग से संघर्ष लेता है। अन्त तक जूझता है और उत्पीड़ित होता है, तथा वह अपने अथक युद्ध से यह सिद्ध करता है कि मनुष्य महान् है, अंजय है, गरिमामय है।

दुखान्तकी

मेलोड्रामा (अतिनाटक)

दुखान्तकी जीवन को मूलाधार बनाकर जीवन की सच्चाई को करता है और इस तरह के सनातन आन्तरिक—स्थूल तथा प्रत्यक्ष के प्रनिष्पत्ति करती है, मेलोड्रामा है। फिर भी प्रभाव-संशोधन सिद्ध होता है। जिसे सर्वथा भिन्न है। दो

गत दो सौ वर्षों में लिए गम्भीर नाटक लिखे पर अपना अधिकार आनंद भावत: वही प्रसन्न किया वर्ग की परिसुष्टि हेतु इस अधिक आये हैं। इसे ही

'मेलोड्रामा' शब्द में कभी वह शब्द 'ओपेरा' के पहला सम्बन्ध इटली और कथांश से लिया गया जो के अन्त में 'मेलोड्रामा' पे प्रदर्शन को कहते थे। 'क' ने इस नाट्य-रूप को विक

**वस्तुतः** मेलोड्रामा के मिलते हैं। 'इरोपडोज' 'सनाटकों में जो 'रक्त-दुखान्त'

उनीसबीं शताब्दी के संगत रूप दिया गया। इस प्रदर्शन-शिल्प में अभूतपूर्व से इस नाट्य-रूप को पहले

मेलोड्रामा की ही चरम शताब्दी एक तरह से मेलोड्र

दुखान्तकी

## मेलोड्रामा (अतिनाटक)

और मृत्यु है, किर भी अपने य नहीं है, वह तो अवश्य संघर्ष। तभी दुखान्तकी जीवन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है कि वह जीवन की सारी र में दुखान्तकी की सहज

ess. It has nothing to s, persecuted maidens. ur repentance...

प्रिय विषय रहा है। इसकी की अवधारणा की उपेक्षा के वह मूल से दुख में गुजर दुख में जा रहा है—कि एक !

र कहणा की वह निष्पत्ति क्षित है।

किन्तु वह कुछ आशारभूत का मूल दोष उसकी निर्णय-प्रतः जब उसपर भयानक ता है, तब हमें उसके प्रति उत्कृष्ट, ग्रोडिप्स, ओथेलो और

। बल्कि इसके विपरीत वह यों से भरा पड़ा है।

लेखनीय है कि वह कर्म का तत्व होते हैं। वह भाग्य से, तक जूझता है और उत्पीड़ित करता है कि मनुष्य महान् है,

गत दो सौ वर्षों में अनेक नाटककारों ने मुख्यतः मध्यवर्ग के दर्शकों के लिए गम्भीर नाटक लिखे हैं, इस तरह उच्चवर्ग के स्थान पर मध्यवर्ग ने रंगमंच पर अपना अधिकार और संरक्षण प्राप्त किया है। इस नये दर्शक-वर्ग ने स्व-भावतः वही पसन्द किया है, जो न दुखान्तकी हो, न साहित्यिक नाटक। किन्तु वर्ग की परिनुष्टि हेतु इस नये नाटक में 'अतिकार्य' और 'भावुकता' के तत्व अविक आये हैं। इसे ही प्रायः मिश्रान्तकी भी कहा गया है।

'मेलोड्रामा' शब्द में दो ग्रीक शब्द हैं जिनके अर्थ हैं संगीत और ड्रामा। कभी यह शब्द 'ओपेरा' के लिए समानार्थी था। 'मेलोड्रामा' का संगीत से पहला सम्बन्ध इटली और फ्रांस में हुआ। जर्मनी में मेलोड्रामा का आशय उस कथांश से लिया गया जो आकेस्ट्रा की संगत से बोला जाय। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में 'मेलोड्रामा' पेन्टोमाइम, संगीत और कथोपकथन के योग से रचित प्रदर्शन को कहते थे। 'कमीदिया फांसे' और इटेलियन मुखान्तकी नाटककारों ने इस नाट्य-रूप को विकास देने में सम्भवतः काफी योग दिया है।

वस्तुतः मेलोड्रामा के तत्व प्राचीन नाटकों में ही यत्र-तत्र पर्याप्त रूप में मिलते हैं। 'इरोपेडीज' 'सीनेका', इसके बहुत ही नज़दीक हैं। एलिजाबीथन नाटकों में जो 'रक्त-दुखान्तकी' थे, वे सब मेलोड्रामा ही के एक रूप थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के उपरान्त मेलोड्रामा को कुछ यथार्थवादी और तर्क-संगत रूप दिया गया। इसका एक मुख्य कारण था, यथार्थवाद का विशेषकर प्रदर्शन-शिल्प में अभूतपूर्व विकास। मंच-सज्जा, प्रकाश और घनि-प्रभाव आदि से इस नाट्य-रूप को पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा विश्वस्त रूप मिला।

मेलोड्रामा की ही चरम परिस्ति 'फिल्म' माध्यम है। पश्चिम में उन्नीसवीं शताब्दी एक तरह से मेलोड्रामा का उत्कर्ष-काल था। इसके उपरान्त आधुनिक

रंगमंच में भी वह गंभीर मनोरंजक नाटक के नाम पर काफी लोकप्रिय हुआ। 'लेडीज इन रिटायरमेंट', 'डैड यन्ड' और 'लिटिल फाक्सेज' आदि नाटक इसके ज्वलत उदाहरण हैं। इन आधुनिक नाटकों पर मेलोड्रामा के तत्त्व काफी उल्लेखनीय हैं।

सुखान्तकी के विष  
हमको दुख अथवा पीड़ि  
उन परिस्थितियों तथा  
स्वरूप उसमें हत्या, हिंसा

जिस प्रकार दुखान्त  
प्रकार रोमीय सुखान्तकी  
के समग्र जीवन और उन  
विश्वास, उनके जीवन व  
बिघ्न रोमीय सुखान्तकी  
दुखान्तकी की अपेक्षा क  
स्वरूप है।

इसका उदय आचर  
जाता है, जिससे कि दर्शन  
वे अपने पर और अपने से  
इसके लिये रोमीय सुख  
विषय नहीं आये थे। वे वे  
व्यावहारिक और लाभप्रद  
लिये कुछ नाट्य-विषय अं  
कुटियों और उन्मत भाव  
अपने आप ठीक हो जायें।

अपराधी को अधिक  
से सीखने का अवश्य दो।

इन विषय-सूत्रों से  
अद्यन्त सामाजिक और व  
सोग, मुफ्तखोर, आलसी,  
ओटने वाले चरित्रों की प्र

और नाटक की भूमिका

काफी लोकप्रिय हुआ।  
‘सेज’ आदि नाटक इसके  
लोड्रामा के तत्व काफी

## सुखान्तकी

सुखान्तकी के विषय वे भावनाएँ तथा विचार नहीं हो सकते जिनके द्वारा हमको दुख अथवा पीड़ा का अनुभव हो। इसके साथ ही इस नाट्य-प्रकार में उन परिस्थितियों तथा कार्यों की सम्भावना नहीं की जा सकती, जिनके फल-स्वरूप उसमें हत्या, हिंसा और शास की गुन्जाइश हो।

जिस प्रकार दुखान्तकी का महत्वपूर्ण स्वरूप रोमीय दुखान्तकी है, ठीक उसी प्रकार रोमीय सुखान्तकी का भी सत्य है। निश्चय ही रोमीय सुखान्तकी रोम के समग्र जीवन और उसके पूरे परिवेश का दर्पण है। रोम के निवासियों का विश्वास, उनके जीवन का रागरंग और उनके सांस्कृतिक तत्त्व इन सब का प्रतिविम्बन रोमीय सुखान्तकी में प्राप्त होता है। इस तरह से नाट्य का यह रूप दुखान्तकी की अपेक्षा कहीं अधिक जीवन का परिचयाक और उसका प्रतिनिधि स्वरूप है।

इसका उदय आचरण सम्बन्धी शिक्षा तथा संस्कार-दान के हेतु भी माना जाता है, जिससे कि दर्शक समाज और राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें, ताकि वे अपने पर और अपने से बाहर दूसरे लोगों पर अपनी शक्ति से शासन कर सकें। इसके लिये रोमीय सुखान्तकी-लेखकों के सामने धार्मिक अथवा आध्यात्मिक विषय नहीं आये थे। वे ऐसी सुखान्तकी को चुनते थे जो समाज के लिये अत्यन्त व्यावहारिक और लाभप्रद हो। ‘वैकाइड्स’ नामक सुखान्तकी में नाटककारों के लिये कुछ नाट्य-विषय और नियम बताये गये हैं, जिनमें पहला है—‘युवाओं की छुटियों और उन्मत्त भावों का अत्यधिक निराकरण न करो, वे कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जायेंगी। दूसरा है :

अपराह्नी को अधिक निनिद न करो, उसे थोड़ा-बहुत मौका दोषपूर्ण जीवन से सीखने का अवश्य दी।’

इन विषय-सूत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रोमीय सुखान्तकी का स्वरूप अत्यन्त सामाजिक और व्यावहारिक होता है। इसमें मुख्यतः वेश्यायें, दरबारी लोग, मुफ्तसोर, आलसी, पाखड़ी, घमड़ी, ढोंगी, शेखी वाले और अपनी ही बात ओटने वाले चरित्रों की प्रतिष्ठा होती है। यह हृष्टान्त रोमीय सुखान्तकी से है।

## रोमीय सुखान्तकी शैली

शिल्प और शैली के अन्तर्गत पहला कम था कथावस्तु का चुनाव। इसमें मुख्यतः पद्मनन्दपूर्ण हस्यास्पद घटनाओं का ही विधान होता था। ऐसी घटनाओं तथा कार्यों के बीच युवा और युवतियों को डालकर वे उनकी बुद्धि, उनके कार्य-कौशल तथा उनके चरित्र का संशोधन और परिपक्व किया करते थे।

इस कथावस्तु के आधार से सुखान्तकी में कामुकता ही प्रधान रहा करती थी। स्त्री-पुरुष के संबंध में किसी भी पवित्रता का अंश तक नहीं मिलता था। इस विषय तथा भावना के फलस्वरूप इस सुखान्तकी का बातावरण भी असम्भव और दुश्मिल रहता था।

रोमीय सुखान्तकी-लेखक अपने राष्ट्रीय सिद्धान्त और सामाजिक आचरण के पालन में प्रायः वृद्ध और अनुभवी पुरुष पात्रों को ही दायित्व देते हैं।

'टेरेन्स' और 'प्लाटस' रोम के प्रमिङ्ग सुखान्तकी लेखक हुए हैं।

## शेक्सपियर की सुखान्तकी शैली

इस क्षेत्र के रोमीय नाटकों की शैली का तनिक भी प्रभाव इंग्लिस्तान के सुखान्तकी लेखकों ने स्वीकार नहीं किया। इसका कारण सौन्दर्यबोध के अतिरिक्त कुछ और भी था, जिससे कि अंग्रेजी की सुखान्तकी की आत्मा रोमीय से सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध हुई।

इसके साथ मध्ययुग के आगमन ने साहित्य को इतने अपार विषय दिये कि रोमीय सीमित-संकीर्ण विषय बहुत बीचे छूट गये। तब तक अंग्रेजी-लेखकों का इतना मानसिक विस्तार भी हुआ कि वे अपने विषय, हिटिकोण में सुखान्तकी के साथ बहुत आगे निकल गये। और उन्होंने अपनी सुखान्तकी की धारणा अपने मौलिक ढंग से विकसित की। शेक्सपियर का नाम इस प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

शेक्सपियर के सामने मध्ययुग ने अपनी अपार विषय-सम्पत्ति प्रस्तुत की। समाज में निम्नलिखित तत्वों को मुख्यता मिली:

- (अ) राज्य-भक्ति
- (आ) स्वामि-भक्ति
- (इ) प्रेम
- (ई) वलिदान

## सुखान्तकी

एलिजाबेथ के स्वर्ण-फलस्वरूप इसने साजिस से शेक्सपियर को हुई। उने हुए कथावह गयी। इसमें पहले कल्पना-तत्त्व तथा शेक्सपियर की वातावरण कटुता तथा उसकी उसकी कला के माध्यम आचरण का

## शेक्सपियर की सुखान्तकी

शेक्सपियर की सुखान्तकी पढ़ति को ही उलट पूर्ण, घटना-प्रधान न दैनिक जीवन के भीत हास्य हृश्य दिय। शेक्सपियर अपने अस्तित्व और सुखान्तकी के भीत हास्य हृश्य दिय। ये पात्र अपनी समाजीक सिद्ध हुए जिनके विशाल तथा शालीन उसकी दुश्मिलता से प्रभावित हुए।

एक और रोमीय जीवन, दूसरी ओर शेक्सपियर ने अपनी पूर्ण रसमय जीवन।

दोनों में जमीन-आलय का अलग-अलग रूप। एक का विहान।

शेक्सपियर ने अपनी प्रायः इटली और फ्रांस गायथ्री में मध्ययुग के

कथावस्तु का चुनाव। इसमें विधान होता था। ऐसी घट-लकर वे उनकी बुद्धि, उनके परिकार किया करते थे।

युक्ता ही प्रधान रहा करती अंश तक नहीं मिलता था।

वो का वातावरण भी असम्य

त और सामाजिक आचरण  
ही दायित्व देते हैं।  
ही लेखक हुए हैं।

क भी प्रभाव इंग्लिस्तान के कारण सौन्दर्यबोध के अतिन्तकी की आरमा रोमीय से

इतने अपार विषय दिये कि  
। तब तक अंग्रेजी-लेखकों  
य, हाइटिकोण में सुखान्तकी  
सुखान्तकी की धारणा अपने  
इस प्रसंग में बहुत ही महत्व-

विषय-सम्पत्ति प्रस्तुत की।

### सुखान्तकी

एलिजाबेथ के स्वर्णयुग ने एक तरह सौदर्य-बोध को ही परिवर्तित कर दिया, फलस्वरूप इसने साहित्य के प्रतिभान में एक आमूल परिवर्तन ला लड़ा किया जिससे शेक्सपियर की सुखान्तकी अपने विषय और शिल्प दोनों में अपूर्व सिद्ध हुई। चुने हुए कथावस्तु के अन्तस्तल में आनन्द, सुख और सन्तोष की लहर वह गयी। इसमें पहली बार हर्ष और सन्तोष का प्रकाश फूटा। इस उत्थान में कल्पना-तत्त्व तथा यथार्थ जीवन के खंडों का अद्भुत समन्वय दीख पड़ा। शेक्सपियर की यथार्थ हाइटि ने इस क्षेत्र में जहाँ जीवन की विषयता, उसकी कटुता तथा उसकी अव्यवस्था का चित्र दिया, वहाँ उसकी कल्पना-शक्ति ने उसकी कला के माध्यम से उस जगत की भाँकी प्रस्तुत की जहाँ प्रेम, श्रद्धा और उत्तम आचरण का संसार था।

### शेक्सपियर की सुखान्तकी की प्रकृति

शेक्सपियर की सभी सुखान्तकियाँ रोमांचक हैं। उसने रोमनों की सुखान्तकी पंद्रहति को ही उलट दिया। शेक्सपियर के कथानक रोमनों की तरह पड़यन्त्र-पूर्ण, घटना-प्रधान न होकर पात्र-प्रधान हुए। स्वाभाविक आचार-विचार और दैनंदिन जीवन के भीतर से उसने जीवन का व्यंग्य चित्र, उपहास खंड और हास्य हश्य दिया। शेक्सपियर के पात्र रोमीय लेखकों की तरह कठपुतली न होकर अपने अस्तित्व और सर्वव्यक्तित्व के साथ उसकी सुखान्तकी में प्रतिष्ठित हुए। ये पात्र अपनी समूची सृष्टि और प्रवृत्ति में भावोद्रेक और सहानुभूति के प्रतीक सिद्ध हुए जिनका युग के सापेक्ष में अपना सुन्दर जगत दीख पड़ा, 'विशाल तथा शालीन मानव-हृदय, जो इस पार्थिव जगत की जड़ता से दूर, उसकी दुश्शीलता से परे; एक दैवी गुणों से पूर्ण, मानवता से सिक्त।'

एक और रोमीय सुखान्तकी का दुश्शील, हिंसक, लोलुप, अवोमुखी जड़-जीवन, दूसरी और शेक्सपियर की सुखान्तकी आध्यात्मिक, स्नेहसिक्त, मानवता-पूर्ण रसमय जीवन।

दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर। दोनों में जीवन-स्तर और मानव-मूल्यों का अलग-अलग रूप। एक जैसे वर्वर अंधयुग का प्रतीक और दूसरा स्वर्णयुग का चिह्न।

शेक्सपियर ने अपनी सुखान्तकियों में जो कथावस्तुएँ चुनी हैं, उनका मूलाधार प्रायः इटली और फ्रांस की प्राचीन तथा ऐतिहासिक गाथाएँ हैं। इन प्राचीन गाथाओं में मध्ययुग के सांस्कृतिक जीवन का चित्रपट मिलता है। सामाजिक

और पारिवारिक जीवन की झाँकी देखने को मिलती है।

"बैलेनटाइन की दीरता, हङ्गता, सहानुभूति तथा मैत्री और प्रोटियस के प्रति ज़्यालिया का अनन्य प्रेम तथा उसकी विजय।

(है जेन्टलमैन आँफ वेरोना)

आइजावेल का अप्रतिम सौन्दर्य, तथा अपनी नैतिक शालीनता और मेरियाना का अद्भुत प्रेम।

(मेज़र फॉर मेजर)

हीरो की निष्कपटता तथा उसका स्नेह, वियेट्रिस की हास्यप्रियता और निष्ठा।

(मच एड एबाउट नथिंग)

फॉर्स की राजकुमारी का अनुपम सौन्दर्य, तथा राज्य-पदाधिकारियों का अस्वाभाविक हठ, तत्पश्चात् प्रेम की अपूर्व विजय।

(लब्ज नेवर लास्ट)

पोशिया का शारीरिक तथा मानसिक सौन्दर्य, और पितृ-भक्ति; एन्टोनियों तथा वेसानियों की सफल मैत्री तथा प्रेम की विजय।

(द मर्चेन्ट आँफ वेनिस)

राजलिन्ड का अनुपम सौन्दर्य, सहनशीलता तथा प्रेमनिष्ठा, सीलिया की कर्तव्य-परायणता, आर्लैण्डो की दीरता तथा बैर्य, एडम की अपूर्व स्वामिभक्ति।

(ऐज यू लाइक इट)

बायला का अविरल स्नेह तथा स्वामिभक्ति, ओलीबीया की भ्रातृ-भक्ति तथा प्रेम, सर टोबी वेन्च तथा ऐण्डू एम्प्रूचीक की रंगरेलियाँ।

(ट्रैलफ्य नाइट)

हेलना की पति-भक्ति, उसकी निष्ठा तथा उसकी विजय।

(प्राल इज बेल डैट एण्डस वेल)

इस तरह शेक्सपियर की सभी सुखान्तकियों में प्रेमोपासना ही मूलाधार है, जिसके ऊपर वह अपने स्वर्ण-युग की संस्कृति और प्रेम की अनुभूति का महल खड़ा करता है।

### सुखान्तकी के प्रकार

सुखान्तकी के जितने स्तर और प्रकार होते हैं, उतने नाटक के अन्य रूपकों में नहीं। लेकिन इसके प्रकारों को अलग-अलग बाँटकर देखना इसलिये कठिन

### सुखान्तकी

है कि नाटककारों ने मुक्त होने वाले नाटकों में खुलकर इस्तेमाल अपनी सुखान्तकी में अश्लीलता के मजाक को मिलाया है—जबका क्षेत्र है। इसके भी अलावा दार्शनिक लहरें भी उठायी हैं। ही मान लिया गया है—'ग्रारिस'

इसी तरह शेक्सपियर की उसका सारा लेखन इतना विविध कठिन है। फॉर्स, रोमान्टिक और एक ही में मिला देना—यह उस प्रोफेसर एलन थाम्पसन<sup>1</sup> ने में रखकर) इस तरह देखा है :

- फॉर्स : १. उच्च सुखान्त
- २. विचार, भा
- ३. चरित्र का व
- ४. उक्ति वैचित्र
- ५. कथा-विधान
- ६. शारीरिक दु
- ७. अश्लीलता

इसी प्रदार 'निकॉल'<sup>2</sup> ने सुखान्तकी की स्थितियों से, उ

है—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ बहुत ही गम्भीरता और बेग से

1. Alan Reynolds Thamp (Bevreley, University o
2. Nical, The theory of I crowall Co. 1931)

मिलती है।

तथा मैत्री और प्रोटियस के प्रति

(द जेन्टलमैन ऑफ वेरोना)

मनी नैतिक शालीनता और मेरि-

(मेज़र फॉर मेज़र)

विवेदिस की हास्यप्रियता और

(मच एड एबाउट नर्थिंग)

यं तथा राज्य-गदाधिकारियों का

जय।

(लब्ज नेवर लास्ट)

दर्द, और पितृ-भक्ति; एन्टोनियों

विजय।

(द मर्चेन्ट ऑफ वेनिस)

ता तथा प्रेमनिष्ठा, सीलिया की

धैर्य, एडम की अपूर्व स्वामिभक्ति।

(ऐज़ प्यू लाइक इट)

भक्ति, ओलीवीया की भ्रातृ-भक्ति

क की रंगरेलियाँ।

(टवेल्फ्थ नाइट)

उसकी विजय।

(आल इज बेल देट एण्ड्स बेल)

केयों में प्रेमोपासना ही सूलधार

स्तुति और प्रेम की अनुभूति का

### सुखान्तकी

है कि नाटककारों ने मुक्त होकर प्रायः सुखान्तकी के विविध तत्त्वों को अपने नाटकों में खुलकर इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिये 'आरिस्टोफेन्स' ने अपनी सुखान्तकी में अश्लीलता के सारे रूपों के साथ-साथ शारीरिक असंगति के मजाक को मिलाया है—जबकि शारीरिक असंगति का सत्य वस्तुतः 'फार्स' का क्षेत्र है। इसके भी अलावा उसने अपनी सुखान्तकी में राजनीतिक और दार्शनिक लहरें भी उठायी हैं। इसी लिए इसकी सुखान्तकी को एक अलग प्रकार ही मान लिया गया है—'आरिस्टोफेनिक कामेडी'।

इसी तरह शेक्सपियर की सुखान्तकी का विभेद करना कठिन है। क्योंकि उसका सारा लेखन इतना विविध और मिश्रित है कि उसे प्रकारों में बांधना कठिन है। फॉर्स, रोमान्टिक और 'डार्क' सुखान्तकी—तथा इन सब तत्त्वों को एक ही में मिला देना—यह उसकी चरम विशेषता थी।

प्रोफेसर एलन थाम्सेन<sup>1</sup> ने सुखान्तकी को (उसके मूल विधान को ध्यान में रखकर) इस तरह देखा है :

- फॉर्स : १. उच्च सुखान्तकी
- २. विचार, भाव की सुखान्तकी
- ३. चरित्र का ढुलमुलपन
- ४. उक्ति वैचित्र्य या हास्य
- ५. कथा-विधान
- ६. शारीरिक दुर्घटना या विसंगति
- ७. अश्लीलता

इसी प्रदार 'निकॉल'<sup>2</sup> ने सुखान्तकी को पांच प्रकारों में देखा है :

- १. फॉर्स
- २. हास्यमय
- ३. रोमान्टिक (शेक्सपियर)
- ४. अभिसन्धि मय (इन्टीग)
- ५. आचरणवत् सुखान्तकी (कामेडी और मैनर्स)

सुखान्तकी की स्थितियों से, उसके हास्य से दर्शक को कैसे सुख मिलता है—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हँसी का आनन्द वहीं उठाया जा सकता है, जहाँ बहुत ही गम्भीरता और बेग से भावनाओं का उद्रेक नहीं होता। ऐसी

1. Alan Reynolds Thamson, The Antomy of Drama, (Bevrey, University of California press, 1942)
2. Nical, The theory of Drama (New York, Thomas Y. crowall Co. 1931)

तोते हैं, उतने नाटक के अन्य रूपों नाटकर देखना इसलिये कठिन

भावना हँसी को सदैव मारने वाली होती है। फिर हँसी और भावना के सन्तुलन और अनुपात का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।

शेक्सपियर की रोमान्टिक सुखान्तकी, शैरिडन और गोल्डस्मिथ की भावुकतामय सुखान्तकी तथा वर्तमान काल की ऐसी अनेक रचनाओं में दर्शक की भावनाएँ चरित्र के साथ जुड़ती हैं। चरित्र के साथ दर्शक की पूरी समवेदना मिल जाती है। किन्तु इस तरह की सभी श्रेष्ठ-सफल सुखान्तकियों में वस्तुतः इसी भावना और हँसी का कलात्मक अनुपात और सन्तुलन सर्वत्र मिलता है।

दूसरी ओर वर्षार्द्ध के विचार है कि हँसी का सबसे बड़ा शत्रु भावना है, क्योंकि भावना सदैव बुद्धि को प्रभावित करती है, और जहाँ बुद्धि प्रभावित है, वहाँ हँसी का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी लिए हास्य के हेतु तटस्थ वस्तुपरकता आवश्यक है।

### सुखान्तकी का प्रदर्शन

सब नाट्य-प्रकारों की अपेक्षा सुखान्तकी का अभिनय रंग-प्रदर्शन का सत्य है। क्योंकि इसकी सम्पूर्णता किसी भी तरह लेखन में या पांडुलिपि में नहीं रहती, वरन् यह अपना सम्पूर्ण रूप रंग-प्रयोग में पाती है। अभिनेता की गति, उसकी वाक्चातुरी, उसका वस्त्र-विन्यास, समूहन और मंच-व्यापार, परिस्थिति का निर्माण और उसमें हास्य-सृष्टि, ये सब सुखान्तकी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण हैं।

हँसी सामाजिक वृत्ति है। यह हँस्त की बीमारी की तरह है। किन्तु शर्त यह है कि सामाजिक जरा हँस्तके मूड में हों। जब सहज प्रतिक्रिया दर्शक और अभिनेता के बीच चलती रहे।

प्रदर्शन-वृष्टि से सुखान्तकी रंग-कार्य का एक ढांचा है, जिसमें जीवन फूंकता है, भरता है प्रदर्शक, अभिनेता और रंग-शिल्पी। किन्तु यह सारा प्रयोग-शिल्प बेकार है, यदि सुखान्तकी में सुखान्तकी की वास्तविकता—नाट्य स्थिति न हो, आत्मा न हो।

### प्रहसन

जैमे मेलोड्रामा (अतिनाटक) दुखान्तकी का एक स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार

### सुखान्तकी

प्रहसन सुखान्तकी का। इसके स्वरूपों में प्रहसन बहुत है। प्रहसन का मूल उद्देश्य पर प्रभाव आवाध और अकात्मक अर्थ और अभिप्राय है।

प्रहसन विशुद्ध सामाजिक के पक्ष आते हैं, उसकी विधि है, क्योंकि इसके हास्य का प्रतिनिधि होता है। प्रहसन कि हम जीवन की विषम आदान-प्रदान से छुटकारा हो। यह छुटकारा प्रहसन है अवाध हँसी।

प्रहसन के विषय हल्ला आवारित होता है। इसमें

मानसिक कुछ भ्रममूलक आनंदित्वा निरर्थक वाता अशिष्टता, दुष्प्रियता-पूर्ण का सूखनापूर्ण का पाखंड तथा इशारीरिक स्थूल

प्रहसन मूलतः परिस्थिति कारण की इतनी तीव्रता सोचने-समझने की ज़रूरत जैसे तुकानी सम्बन्ध रहता।

प्रहसन विशुद्ध प्रदर्शन सहज मृजन-शीलता ये दो

चैत्रव का 'दी मेरेज स्टूप दू कान्कर', मेलियर पियर का 'दी मेरी वाइब्रेशन

और नाटक की भूमिका

पौर भावना के सन्तुलन

गोल्डस्मिथ की भावु-  
चनाओं में दर्शक की  
रंगकी पूरी समवेदना  
खान्तकियों में वस्तुतः  
न सर्वत्र मिलता है।  
बड़ा शब्द भावना है,  
जहाँ बुद्धि प्रभावित  
के हेतु तटस्थ वस्तु-

य रंग-प्रदर्शन का सत्य  
या पांडुलिपि में नहीं  
है। अभिनेता की गति,  
च-व्यापार, परिस्थिति  
प्रदर्शन में महत्वपूर्ण

तरह है। किन्तु शर्त  
प्रतिक्रिया दर्शक और

है, जिसमें जीवन  
केन्तु यह सारा प्रयोग-  
कर्ता—नाट्य स्थिति

है, ठीक उसी प्रकार

प्रहसन सुखान्तकी का। एक तरह से अति सुखान्तकी ही प्रहसन है। यों ड्रामा  
के स्वरूपों में प्रहसन बहुत ही प्राचीन रूप है, जिसका प्रभाव भी बहुत व्यापक  
है। प्रहसन का मूल उद्देश्य मनोरंजन है—वह भी हल्के स्तर से। इसका दर्शक  
पर प्रभाव अवाध और अनियन्त्रित रूप में पड़ता है। इसमें बौद्धिक और प्रती-  
कात्मक अर्थ और अभिप्रायः बहुत ही कम होता है।

प्रहसन विशुद्ध सामाजिक होता है, इसमें व्यक्ति नहीं आता, बल्कि समाज  
के पक्ष आते हैं, उसकी विषमताएँ आती हैं। तभी प्रहसन इतना लोकप्रिय होता  
है, क्योंकि इसके हास्य का विषय व्यक्ति उतना नहीं होता, जितना कि उसका  
प्रतिनिधि होता है। प्रहसन की लोकप्रियता का एक दूसरा कारण यह भी है  
कि हम जीवन की विषमताओं, उसके संघर्षों तथा उसके दिन-प्रतिदिन के  
आदान-प्रदान से छुटकारा पाते हैं। चाहे वह छुटकारा कुछ ही देर का क्यों न  
हो। यह छुटकारा प्रहसन सबसे ज्यादा हमें देता है। क्योंकि इसका साधन ही  
है अवाध हँसी।

प्रहसन के विषय हल्के-फुल्के होते हैं। यह स्थिति के बाह्य कारण पर ही  
आधारित होता है। इसके विषय प्रायः होते हैं—होते रहे हैं :

मानसिक कुरुपता, असंगति और अनैतिकता  
भ्रममूलक आशाये और विचार  
निरर्थक वातालाप, अनर्गल संवाद  
अशिष्टता, दुशीलता तथा विटण्डावाद  
प्रपञ्च-पूर्ण कार्य तथा अस्वाभाविक जीवन  
मूर्खतापूर्ण कार्य  
पालंड तथा अस्वाभाविक कार्य  
शारीरिक स्थूलता, विदूषक—भोजन-प्रियता

प्रहसन मूलतः परिस्थिति-जन्य होते हैं। इनकी कथावस्तु में कार्य और  
कारण की इतनी तीव्रता और वेग होता है कि इसमें न अभिनेता को कुछ  
सोचने-समझने की ज़रूरत होती है, न दर्शक को। कार्य और हँसी दोनों में  
जैसे तूफानी सम्बन्ध रहता है।

प्रहसन विशुद्ध प्रदर्शन का सत्य है। इसमें भी अभिनेता की प्रतिभा, उसकी  
सहज सृजन-शीलता ये दोनों तत्त्व महत्वपूर्ण हैं।

चैख्य का 'दी मेरेज प्रपोजल', 'दी एनीवरसरी', गोल्डस्मिथ का 'शी  
स्टूप्स दू कान्कर', मोलियर का 'दी डाक्टर इन स्पाइट आँफ हिमसेलफ', शेक्स-  
पियर का 'दी मेरी वाइब्स आँफ बिन्डसर' ये सब महत्वपूर्ण प्रहसन हैं।

पाइचात्य रंगमंच

प्रस्तुतिकरण पक्ष

## पाश्चात्य रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

रंगमंच का कृतित्व पक्ष इमारा (नाटक) जिस तरह एक कला-रचना है, ठीक उसी तरह रंगमंच का दूसरा पक्ष प्रस्तुतिकरण भी एक स्वायत्त कला है। कला के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण है कि हर कला, प्रकृति का अनुकरण है। मनुष्य की प्रकृति की यथार्थ भाँकी और उसका प्रतिविम्बन—यही मूलाधार है पश्चिम की कला-दृष्टि का। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य और रंगमंच, इस तरह मनुष्य की प्रकृति का दर्पण है तथा उसके भावों-विचारों की अभिव्यक्ति है। उस अभिव्यक्ति की रचना-प्रक्रिया यह है कि रचनाकार, कलाकार, पूर्वसृष्टियों, चित्रों, भावों की संरचना करता है। उन्हें किरण से जीता है—कला-स्तर से समरण करके। समरण इसलिये कि कलाकार अपनी अनुभूति ही को तो किरण से रचना है। इस रचना में उसकी कलाना, उसकी मृजन-वृत्ति और मिली रहती है, किन्तु यह रचना मूलतः जीवन-धर्मी ही तो हुई। इस तरह कला, मृजनकर्ता द्वारा जीवन की व्याख्या है—और यह व्याख्या इस ढंग से है कि वह सब के द्वारा समझी-वृत्ती और जानी जा सके। इस समझने-वृत्तने और जानने का भी उद्देश्य यह है कि दर्शक, श्रोता और पाठक में 'भाव' पैदा हो सके। 'मैडोना' जैसा महान् चित्र, 'नाजनहूल' जैसी महान् दर्शकत दर्शक के भीतर भाव ही तो पैदा करती है। उसी तरह 'वियावन' की 'फिल्म सिमफनी', 'वैग्नर' की 'नूतो' और 'आद्सोल्डे' श्रोता के लिये भाव-श्रोत मिछ होते हैं। और ठीक इसी तरह 'ओडिपस', 'हैमलेट', 'सीगल', 'लोथर डैथ' जैसे नाटक दर्शक के भीतर गहन भाव और विचार पैदा करते हैं।

ये गहन भाव और विचार क्षणिक हों, ऐसी वात नहीं, ये दर्शक और श्रोता में सदा के लिये अपर हो सकते हैं। वास्तविक-सम्पूर्ण कलाकृति की यही भूमिका है। यही स्तर है। कलाकृति से प्राप्त भाव और दृष्टि, मनुष्य में वह अन्तर्दृष्टि पैदा करती है कि वह जीवन और जगत को उसके वास्तविक अर्थ और प्रसंग में देखना शुरू करता है। हर दर्शक और श्रोता को यह भावनात्मक प्रतिक्रिया एक-दूसरे से अलग और भिन्न हो सकती है। यह सब उसके संस्कार और गौन्दर्य-वौध पर निर्भर करता है।

रंगमंच की प्रस्तुतिकरण-कला से दर्शक और श्रोता में वह बड़ा भाव और

विचार उद्भूत करना, इस सत्य का मूलाधार है कि नाटक में व्याप्त भाव और विचार को प्रस्तुतिकरण कला के माध्यम से सम्प्रेषित करना।

इस सम्प्रेषण के लिये, बल्कि इस रचना के लिये कलाकार पहले मूल विषय-वस्तु के प्रति अपनी अवधारणा निश्चित करता है। फिर उस अवधारणा को कला-माध्यम से व्यक्त करने के लिये वह उसकी शिल्पविधि का सहारा लेता है। इस तरह कला-रचना निम्नलिखित तत्त्वों से सम्पूर्ण होती है:

#### अवधारणा

#### शिल्पविधि

अन्विति

संगता

आग्रह

अनुपात

गहनता

भावदशा

लक्ष्य

#### भाव और शिल्प का सम्बन्ध

पश्चिम के रंगमंच में, प्रस्तुतिकरण पक्ष से इन तत्त्वों के समन्वित विन्दु पर जो महत् कला खड़ी होती है, उसके व्यक्तित्वधारी का नाम है—निर्देशक अथवा प्रस्तुतकर्ता।

#### निर्देशक

पश्चिम के रंगमंच-इतिहास और उसकी परम्परा में निर्देशक के व्यक्तित्व को बड़ा ही निश्चित और उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। उसे पश्चिम के रंगमंच में रचनाकार और व्याख्याकार दोनों का पद एक साथ मिला है।

और ये दोनों पद एक साथ अन्य किसी भी कलाकार को नहीं मिल सकते। क्योंकि कलाकार या तो केवल मृजनकर्ता होता है—जैसे 'कम्पोजर', 'मूर्तिकार', 'चित्रकार' और 'लेखक'। या तो वह केवल व्याख्याकार 'विवेचक' जैसे गायक, वादक, अभिनेता, रंगशिल्पी आदि—जो मूलतः अपनी स्वतन्त्र मृजन-चेतना से रचना न कर, एक रचित कलाकृति की पुनररचना करते हैं—उसे फिर से प्रकट करते हैं।

निर्देशक के इस मूल्यवान् व्यक्तित्व का उदय, आधुनिक रंगमंच की

#### पाठ्यात्मक रंगमंच : प्रस्तुति

देन है। प्राचीन समय में, 'कोरेगियस' जिसका कार्य 'कोरेगियस' कोरस को गति नहीं बताता था, बल्कि वह तथा विवेचन भी बताता था हजारों दर्शक एक साथ भय, व्यक्तित्व के प्रसंग में यही 'क

मैंकड़ों वर्षों तक इसी कलामिकल स्कूल ने अपने नायाओं के बीच (दो बेंचों पर) के लिये उन्होंने बाक्-प्रशिक्षण

फिर 'गोथे' तथा अन्य की ओर उसके प्रति आग्रह को स्थान मिला। मंच पर दो दूसरी ओर तीन कुसियों के स

प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में, 'गोथे' एक अभूतपूर्व घटना है। 'केग' उसने उसे एक सम्पूर्ण इकाई मंच-विधान, रंग-दीपन, वस्त्र अकला के रूप में प्रतिष्ठित किया के रूप में स्वीकार कर ली गयी। का उदय होता है।

रंगमंच के इतिहास में (आधुनिक) विभिन्न ढंग से हल किया गया विवाह तथा तथ्यपूर्ण रंग-शिल्प दायित्व का वहन करता था। एकमपनियों में निर्देशन का यह काम सम्भालते थे। रंगमंच के शेष प्रबंध में हैमलेट स्वयं अपने अभिनेताओं देता है, इस तथ्य के पीछे उस काल पर्याप्त है कि अभिनेता और नाटक की

है कि नाटक में व्याप्त भाव और सम्प्रेषित करना। उनके लिये कलाकार पहले मूल करता है। फिर उस अवधारणा है उसकी गिर्विविधि का सहारा तत्त्वों से सम्पूर्ण होती है:

## पाइचात्य रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष

देन है। प्राचीन समय में, अर्थात् ग्रीक रंगमंच में निर्देशक का आदि रूप था 'कोरेगियस' जिसका कार्य था 'कोरस' को प्रशिक्षण देना। इस प्रशिक्षण में 'कोरेगियस' कोरस को गति-संचार, समूहन, वृत्त्यवत् गतियाँ, मुद्रायें, आदि ही नहीं बताता था, वल्कि वह उन्हें नाटक का मूल विचार, संघर्ष-भाव, भावबोध तथा विवेचन भी बताता था, ताकि 'कोरस' के अभिनय से दृश्य के अनुसार हज़ारों दर्शक एक साथ भय, वास और आँसुओं में भीग जायें। आज के निर्देशक व्यक्तित्व वे: प्रसंग में यही 'कोरेगियस' ही संभवतः उस युग का निर्देशक था।

मैकड़ों वर्पों तक इसी क्रम रूप से प्रस्तुतिकरण चलता रहा। फेंच कलामिकल स्कूल ने अपने नाटक में स्वगतकथन के विकास-क्रम में परस्पर दो पात्रों के बीच (दो बैंचों पर) लम्बे कथोपकथनों को ग्रहण किया। इसके प्रदर्शन के लिये उन्होंने वाक्-प्रशिक्षण की प्रतिष्ठा की।

फिर 'भोथ्रे' तथा अन्य कई नाटककारों ने रंगमंच में यथार्थ की प्रतिष्ठा की और उसके प्रति आग्रह किया; विशेषकर प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में। आगे यथार्थ को स्थान मिला। मंच पर दो 'बैंचों' की जगह एक और एक सोफा आया, तथा दूसरी और तीन कुर्सियों के साथ एक छोटी मेज।

तत्त्वों के समन्वित विन्दु पर जो औरी का नाम है—निर्देशक अथवा

प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में, 'गाड़न क्रेग' का आगमन निर्देशन-कला के उदय में एक अभूतपूर्व घटना है। 'क्रेग' ने प्रस्तुतिकरण को कला का रूप दिया, तथा उसने उसे एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया। नाट्य-प्रदर्शन में, मंच-विवान, रंग-दीपन, वस्त्र और रूप-विन्यास—इन सभी को उसने यथार्थ कला के रूप में प्रतिष्ठित किया। और तभी से रंगमंच-कला एक स्वायत्त कला के रूप में स्वीकार कर ली गयी। यहीं से पश्चिम के रंगमंच में आधुनिक निर्देशन का उदय होता है।

रंगमंच के इतिहास में (आधुनिक सम्पूर्व) प्रदर्शन की अनेक समस्याओं को विभिन्न ढंग से हल किया गया है। जैसे मध्ययुगीन रंगमंच में विशाल मंच-विवान तथा तथ्यपूर्ण रंग-शिल्प के लिये पूरा का पूरा एक संगठन, इसके दायित्व का वहन करता था; एलिजाबीथन रंगमंच में—सम्पूर्ण व्यावसायिक कामनियों में निर्देशन का यह कार्य अभिनेता और नाटककार दोनों मिलकर सम्हालते थे। रंगमंच के शेष प्रबंध-कार्य, मैनेजर के हाथ में रहते थे। 'हैमलेट' में हैमलेट स्वयं अपने अभिनेताओं को प्रदर्शन के लिये प्रशिक्षण और निर्देशन देता है, इस तथ्य के पीछे उस काल के 'ग्लोब थियेटर' का यह उदाहरण काफी पर्याप्त है कि अभिनेता और नाटककार ही उस युग में निर्देशक का कार्य सम्हालते

परम्परा में निर्देशक के व्यक्तित्व अन प्राप्त है। उसे पश्चिम के का पद एक साथ मिला है।

भी कलाकार को नहीं मिल करता होता है—जैसे 'कम्पोजर', वह केवल व्याख्याकार 'विवेचक' दि—जो मूलतः अपनी स्वतन्त्र क्रिया की पुनर्रचना करते हैं—

उदय, आधुनिक रंगमंच की

थे। 'मोलियर' (नाटककार) ने स्वयं सत्रहवीं शताब्दी में अपनी मंडली के साथ बारह वर्षों तक नाट्य-प्रदर्शन का सारा कार्य नंचालित किया है। 'हॉकने के लिये अभिनेता एक विचित्र प्रकार का जानवर है' मोलियर की यह प्रसिद्ध उक्ति 'निर्देशक' के ही व्यक्तित्व की ओर जबलंत मंकेत है।

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में 'डेविट गैरिक' और 'विलियम मेकरेडी' जैसे महान् अभिनेताओं ने नाट्य-प्रदर्शन को एक संगठित रूप देने का प्रयत्न किया; फिर भी आधुनिक युग से पूर्व, जब तक कि निर्देशक के व्यक्तित्व का उदय नहीं हुआ, नाट्य-प्रदर्शन का कार्य, परम्परा के ही सहारे ज्यादा चलता था।

### अभिनेता और अभिनय

रंगमंच का जीवन्त माध्यम और शक्ति अभिनेता है, जो अपनी अभिनय-कला से नाटक के आधार पर दर्शक-समाज को बाँध लेता है। अभिनेता वीर रचना और व्याख्या रंगमंच को जीवन्त रूप देनी है। अभिनयात्मिक वृत्ति—जो रंगमंच की अनन्य शक्ति है, इसका मूल यही अभिनेता है।

अभिनय-कला आदिम है। इसकी परम्परा वास्तव है; और हर युग में (आधुनिक युग के पूर्व तक) अभिनेता अपने ही काल से बँधा है। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रीक अभिनेता कितनी विभिन्न भूमिकाओं को अदा करता था। उसके बाद, उसके मुख्योंटे, उसकी अभिनय-कला ग्रीक रंगमंच से कितनी सांकेतिकता से जुड़ी हुई थी। एलिजाबीथन रंगमंच में अभिनेता, स्त्री-पुरुष दोनों की भूमिकायें अदा करता था।

अभिनेता और उसकी अभिनय-कला में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

- (क) अभिनेता रचना करता है।
- (ल) अभिनेता व्याख्याकार भी है।
- (ग) रंगमंच का यही वह जीवन्त माध्यम है, जिससे नाटक दर्शक को सम्प्रेषित होता है।

पाठ्यात्मक रंगमंच में, अभिनय-पद्धति के अन्तर्गत इसमें पांच अंग माने गये हैं :

- मुख-मुद्रा
- शरीर-मुद्रा

पाठ्यात्मक रंगमंच : प्रस्तुति

○ गति

○ वेग

○ वाणी या वाच

अभिनय के रूपों तथा उद्दिया गया है। अभिनय-कला है। अवात् अभिनय में लंप पर प्राप्त अनेक अभिनेता कार्यरत होते हैं, कभी एक अभिनेता मुख्य-रूप से अभिनेता अभिनेता अधिक नहीं यारीरिक चेटा, मूल की (ऐवश्य) अवश्य प्रकट करते तथा अनुक्रियात्मक—इन

इसी निये अभिनय में महत्व है। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है।

मासूदिक अभिनय भी जिसमें अभिनेताओं का एक दूसरा सामूहिक अभिनय विमर्श, सम्मिलित कार्य प्रकार—भीड़ अथवा जन-साथ ही प्रत्येक अभिनेता के पड़ता है।

शरीर

वाणी और

भाव-प्रदर्शन

अभिनेता के महत् व्यक्ति दिया गया है।

मंच-सज्जा

अरस्तू ने दृश्यता को

दा में अपनी मंडली के  
लित किया है। 'हाँकने  
वीलियर की गति प्रसिद्ध  
है।

'स्ट्रिक' और 'विनियम  
के संगठित स्वर देने का  
निर्देशक के व्यक्तित्व  
के ही सहारे ज्यादा

है, जो अपनी अभिनय-  
तेता है। अभिनेता की  
भिन्नताएँ का वृत्ति—  
ता है।

त है; थीर हर युग में  
न से बैंधा है। पांचवीं  
भूमिकाओं को यदा  
कला का रंगमंच में  
तंच में आ जाता, स्त्री-

त उत्तमियाँ उत्तेजा-

से नाटक दर्शक को

इसे पांच अंग माने

## ० गति

## ० वेग

## ० वाणी या वार्

अभिनय के रूपों तथा उसके कुछ मूलभूत प्रकारों पर पश्चिम में बहुत बल दिया गया है। अभिनय-कला को वहाँ 'आकेस्ट्रा' से कभी-कभी उपमा दी जाती है। अर्थात् अभिनय में लय, अनुभाव तथा संगति पर बहुत आग्रह है। मंच पर प्रायः योंक अभिनेता उपस्थित रहते हैं। उनमें से कभी दो अभिनेता कार्य-रत होते हैं, कभी एक और शेष महज खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो अभिनेता मुख्य-रूप से अभिनय करता है, वह सक्रिय अभिनेता होता है, किन्तु शेष अभिनेता अक्रिय नहीं रहते। वे वद्यपि मौन रहते हैं, फिर भी वे अपनी यारीरिल चेष्टा, मूल की भाव-भंगी तथा गति से अपनी अनुकिया (करेस्पार्डिंग प्रैक्शन) अवश्य प्रकट करते हैं। यह अभिनय—समर्थनात्मक, सहानुभूति-पूर्ण, तथा अनुक्रियात्मक—इन तीन प्रकारों का होता है।

इसी विधे अभिनय में सहवेग और प्रदर्शन में सामूहिक कला का विशेष महत्व है। इसी संदर्भ में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संगठित अभिनय-कला उल्लेखनीय है।

सामूहिक अभिनय भी तीन प्रकार का मिलता है। एक समवेत (कोरस) जिसमें अभिनेताओं का एक समूह एक साथ गाता-बजाता अभिनय करता है। दूसरा सामूहिक अभिनय, जिसमें एक दल के लोग एकत्र होकर विचार-विसर्ग, समिलित कार्य तथा दल के रूप में कोई चेष्टा करते हैं। तीसरा प्रकार—भीड़ अथवा जन-माम्लक का होता है, जिसमें सामूहिकता के तत्त्व के साथ ही प्रत्येक अभिनेता को उसमें अपने व्यक्तिगत अभिनय का भी योग देना पड़ता है।

## यरीर

## वाणी और

## भाव-प्रवरणता

अभिनेता के महत् व्यक्तित्व में इस तीन प्रसाधनों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है।

## मंच-सज्जा

अगस्त्र ने हृथिका को छाड़ा और अन्तिम तत्व माना है। इस हृथिका का

बहुत बड़ा आवार प्रदर्शन में यही मंच-सज्जा है। हर दर्शक 'नाटक देखने' जाता है—नाटक के लिये नहीं जाता। अतएव दृश्यत्व इसकी बहुत बड़ी विशेषता है—मूल है। ग्रीक, एलिजावीथन और 'नोह' में जहाँ कि मंच स्थायी और अपनी सीमा-मरणी में एक दृश्य ही होता था, वहाँ भी नाटक के प्रदर्शन में, गति, मुद्रा, चृत्य, समूहन, वस्त्र-विन्यास, और रूप-विन्यास में दृश्यत्व पर कितना आग्रह रहता था।

आधुनिक युग के पूर्व तक मंच-सज्जा के संदर्भ में प्रायः दो उपलब्धियाँ सामने आती हैं :

(१) चित्रीय परम्परा (पिक्टोरियल ट्रेडीशन)

(२) दृश्य-सज्जाकार का व्यक्तित्व।

मंच की चित्रीय परम्परा में नाटकीय वातावरण का निर्माण इसकी परम विशेषता है। पश्चिम का मध्ययुगीन नाटक जिस मंच-सज्जा के साथ प्रस्तुत होता था, उसमें मंच-गलंकरण, मंच-प्रसाधन के प्रति कितने व्यापक और गहन रूप में याथात्थ तत्त्व पर आग्रह रहता था, वह उस युग के रंगमंच की एक परम विशेषता है।

ऐतिहासिक रूप में मंच-सज्जा-कला का अपूर्व उदय 'रेनेसाँ' के बाद हुआ है। जिस वर्ष (१६१८ ई०) इटली के 'फारनेस थियेटर' में 'चित्रबंध द्वार' (प्रोसीनियम शार्च) की पहली बार प्रतिष्ठा हुई थी।

इसी रंगद्वार-परम्परा से मंच-सज्जा-कला के उदय का सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। चित्रकला का सम्बन्ध मंच-सज्जा से गठित हुआ, तथा गहराई 'डिप्थ' तत्त्व की सृष्टि हुई। इसी के साथ ही मंच दृश्य में आयाम और परिप्रेक्ष्य (डाइमेन्शन एण्ड पर्सेप्शन) की भी साकार कल्पना शुरू हुई। इसी उदय के साथ ही मंच-संगठन तथा उसके गहन शिल्प का व्यापार बढ़ा। सत्यामास के लिए प्रयत्न शुरू हुए तथा मंच-दृश्य का सारा व्यापार 'मैकेनिकल' दिशा की ओर विकसित हुआ।

रंगमंच के भौतिक तक को प्रभावित किया ज्ञान व्लेटफार्म तथा भरातल अनन्त स्वतन्त्रता का विश्वास के साथ जीता काव्योचित नाट्य-व्याया

रंग-भवन का भीत केवल रूप और आकार में। इसी लिए इसे 'छि

रंगशाला के आकार उल्लेखनीय है। 'थियेटर' उसके मंच-प्रकार को तरह नाट्य-लेखन और सत्य है।

रंग-स्थापत्य-कला प्रतिनिधि (पूर्व आधुनिक

ग्रीक प्रेक्षागृह

ग्रीक रंगमंच का त्रुट्टा। इसी के अनुरूप बी० सी० के बाद आकेन नाटककार अपने युग के बल्कि उसने भी उसे वि 'कोरस' के बीच 'अस्काइ ब्लॉज' ने तीसरे पात्र

## रंगमंच नाटक की भूमिका

है। हर दर्शक 'नाटक देखने' दृश्यत्व में बहुत बड़ी नोह' में जहाँ कि मन स्थायी रूप, वहाँ भी नाटक के प्रदर्शन रूप-विन्यास में दृश्यत्व पर

रंभ में प्रायः दो उपलब्धियाँ  
(डीग्न)

1 निर्माण इसकी परम विशेषज्ञता के साथ प्रस्तुत होता रहता व्यापक और गहन रूप युग के रंगमंच की एक परम

उदय 'रेनेस' के बाद हुआ थियेटर' में 'चित्रवंश द्वार'

उदय का सारा इतिहास जुड़ा हुआ, तथा गहराई 'डिप्थ' में आयाम और परिप्रेक्ष्य न शुरू हुई। इसी उदय के बापापार बढ़ा। सत्यामास के और 'मैकेनिकल' दिशा की

## प्रेक्षागृह तथा प्रस्तुतिकरण

रंगमंच के भौतिक पक्ष 'प्रेक्षागृह' ने नाट्य-लेखन से लेकर नाट्य-प्रदर्शन तक को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए एलीजाबीथन मंच के उन्मुक्त प्लेटफार्म तथा वरातली मंच ने शेक्सपियर तथा उसके काल के रंगमंच को अनन्त स्वतन्त्रता का भाव दिया। अनेक दृश्य, देश, काल में उसका नाटक पूर्ण विश्वास के साथ जीता-बढ़ता रहा। उसमें अनेक कक्षायें, घटनायें तथा महाकाव्योचित नाट्य-व्यापार होते रहे।

रंग-भवन का भीतरी पक्ष—रंगभूमि (स्टेज) और रंगशाला (ऑडीटोरियम) केवल रूप और आकार मात्र नहीं हैं, बल्कि यह एक जीवन्त कला है अपने आप में। इसी लिए इसे 'थियेटर आर्टिटिक्ट' रंग-स्थापत्य कला की मर्यादा मिली है।

रंगशाला के आकार-प्रकार से रंगभूमि का अनुपात, अपने प्रभाव से अत्यन्त उल्लेखनीय है। 'थियेटर आर्फ डायोनिसस' में दर्शक के बैठने का क्षेत्र-विस्तार उसके मंच-प्रकार को किस तरह प्रभावित करता है, तथा वे दोनों तत्व किस तरह नाट्य-लेखन और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं—यह एक मनोरंजक सत्य है।

रंग-स्थापत्य-कला को उसके सम्पूर्ण अर्थ में जानने के लिए हम यहाँ चार प्रतिनिधि (पूर्व आधुनिक) रंगभवनों (ज्ले हाउसिस) की चर्चा करेंगे।

## ग्रीक प्रेक्षागृह

ग्रीक रंगमंच का क्रमशः उदय कर्मकांड, जादू-रहस्य से लेकर फिर ड्रामा तक हुआ। इसी के अनुरूप ग्रीक रंगभवन पहले नृत्य-परिधि, फिर पांचवीं शताब्दी बी० सी० के बाद आकेस्ट्रा-परिधि भूलक रंगभवन के रूप में निर्मित हुआ। ग्रीक नाटककार अपने युग के रंगभवन की भौतिक स्थिति से न केवल प्रभावित हुआ बल्कि उः ने भी उसे विकसित किया। जैसे आकेस्ट्रा परिधि में नाचते-नाते हुए 'कोरस' के बीच 'अस्काइलेस' ने एक दूसरे अभिनेता की संख्या बढ़ायी और 'सोफो-वलीज' ने तीसरे पात्र की प्रतिष्ठा की। कोरस की संख्या में क्रमशः कमी और

### रंगमंच और नाटक की भूमिका

अभिनेता (पत्र) की संस्था में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रीक रंगस्थल में विशाल दर्शक-समूह के बैठने के लिए जो अस्थायी व्यवस्था थी, उसके स्थान पर पत्थर की स्थायी सीढ़ियाँ बनी। इस तरह प्रेक्षालय और रंगभूमि (एकटिंग एरिया) का स्थायी, महत्व सम्बन्ध स्थापित हुआ।

इस विशाल रंग-भवन का प्रभाव नाट्य-लेखन के साथ ही साथ स्वभावतः अभिनय-कला और प्रदर्शन-विधि पर पड़ा। अभिनय की मूल प्रवृत्ति में प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) कला पर अत्यधिक वल दिया गया। प्रदर्शन-शिल्प में महत् और उदात्त मुद्राओं, नृत्यबत गतियों और समूहन को विशेष महत्व मिला। सारा प्रदर्शन, डरा तरह विशाल दर्शक-समूह को रंग में वाँचे रहने तथा उन्हें प्रभावित करने के लिए, विशेष रूप से भीतिवद्ध हुआ।


### मध्ययुगीन प्रेक्षागृह

पिछले में मध्ययुगीन नाटक गहले चर्च में प्रस्तुत होते थे। वाइविन की कथाओं का तथ्य-पूर्ण प्रदर्शन इसकी परम विशेषता थी। लेकिन ज्यों-ज्यों नाटक की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष होनी गयी, त्यों-त्यों गिर्जा और 'कैथिड्रल' से ड्रामा बाहर गया। बाहर आकर यह मध्ययुगीन ड्रामा, यद्यपि बड़ी-बड़ी व्यावसायिक कम्पनियों के हाथ में आया, किन्तु 'चर्च ड्रामा' के तीन प्रमुख तत्त्वों को इसने अपने स्वरूप में समन्वित और ग्रहण कर रखा :

- (१) नाटक का घटनात्मक स्वरूप
- (२) निश्चित देश-स्थान का महत्व
- (३) कार्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहना।

एक देश-स्थान से दूसरे देश-स्थान के लिए, विभिन्न भवनों के बाह्य ढार (यातातद्य) तथा जल, सड़क, मैदान इन सभी स्थानों में नाटकीय व्यापार का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रदर्शित होना, मध्ययुगीन रंगमंच-प्रदर्शन की मूल विशेषता थी। ये सारे स्थान, स्थल, अपने भवन और स्थापत्य स्वरूप में मंच पर बाकायदा बनाए जाते थे।

'मोन्स' में १५०१ई० में 'द मिस्ट्री ऑफ द पैशन' नाटक के प्रदर्शन में इस तरह सङ्गठ भवनों के स्वरूप (देश-स्थान) मंच पर बनाये गये थे। इनके सामने सामान्य अभिनय-क्षेत्र होता था, जिसे 'लेट्रिड' या लेटफार्म कहते थे। भवनों से आकर अभिनेता इसी स्थल पर अभिनय करते थे। ये भवन-स्थान प्रायः एक ही पक्की में स्थित होते थे। उदाहरण के लिए 'बैलेन्सनीज' (१५४७)



च और नाटक की भूमिका


प्रभाव यह हुआ कि श्रीक  
जो अस्थायी व्यवस्था थी,  
इस तरह प्रेक्षालय और  
स्थापित हुआ।

साथ ही साथ स्वभावतः  
नी मूल प्रवृत्ति में प्रक्षेपण  
दर्शन-शिल्प में महत् और  
ष महत्व मिला। सारा  
रहने तथा उन्हें प्रभावित

होते थे। बाइबिल की  
थी। लेकिन ज्यो-ज्यो  
गा और 'कैथिड्रल' से  
यद्यपि बड़ी-बड़ी व्या-  
' के तीन प्रमुख तत्त्वों

गतिमान रहना।  
वनों के बाह्य द्वार  
नाटकीय व्यापार का  
की मूल विशेषता  
स्वरूप में मंच पर

नाटक के प्रदर्शन में  
नाये मये थे। इनके  
प्लेटफार्म कहते थे।  
थे। ये भवन-स्थान  
लेन्सनीज' (१५४७)



श्रीक शियटर

(एपीडोरम के भगवावेप से पुनर्निर्माण )

च और नाटक की भूमिका


प्रभाव यह हुआ कि श्रीक  
जो अस्थायी व्यवस्था थी,  
इस तरह प्रेक्षालय और  
स्थापित हुआ।

साथ ही साथ स्वभावतः  
नी मूल प्रवृत्ति में प्रक्षेपण  
दर्शन-शिल्प में महत् और  
ष महत्व मिला। सारा  
रहने तथा उन्हें प्रभावित

होते थे। वाइविन की  
थी। लेकिन ज्यो-ज्यो  
गा और 'कैथिड्रल' से  
यद्यपि बड़ी-बड़ी व्या-  
' के तीन प्रमुख तत्त्वों

गतिमान रहना।  
वनों के बाह्य द्वार  
नाटकीय ध्यापार का  
की मूल विशेषता  
स्वरूप में मंच पर

नाटक के प्रदर्शन में  
नाये गये थे। इनके  
प्लेटफार्म कहते थे।  
ये। ये भवन-स्थान  
लेन्सनीज' (१५४७)



श्रीक शिष्येन्द्र

(एप्रिलोरम के भग्नावशेष से पुनर्निर्माण )

प्रेक्षागृह तथा प्रस

का मंच, जो एक  
थे—एक मिरे प  
के बीच में गिरज


मध्ययुगीन  
जैसे नाट्य-हृष्यों  
अथवा 'वैगन' के  
अलग-अलग स्था  
गतिमान होतीं।

प्रचलित थी—ज  
प्रयोग में लाते थे

मध्ययुगीन  
प्रस्तुतकर्ता एक  
व्यवधान नहीं था  
नीय वात थी। अ  
सामान्य अभिनेत  
होने के फलस्वरू  
उसकी दड़त व  
प्रस्तुत होकर व  
कर रखा है कि पा  
उस में भी कथा  
और विद्युपक अ  
घटनाओं से निमि  
बड़ी विशेषता थी।

एलिजाबीथन र

एलिजाबीथन  
विद्वान् लोग इस  
आते हैं कि यह र  
दिनेमाँ कला व  
डच रंगमंच के ना  
रूप प्रत्यक्ष है। व



श्रोतोनिपक्ति विषेषर (१८९६) इटली; इसकी परिचयता उल्लेखनीय है।

## प्रेक्षागृह तथा प्रस्तुतिकरण

१५३

का मंच, जो एक सौ लीप फुट लम्बा था और जिस पर अनेक भवन-द्वार वने थे—एक सिरे पर जहाँ नश्क-स्थल था, दूसरी ओर जहाँ स्वर्ग-भवन। इन दोनों के बीच में गिरजा, कैथिड्रल, प्रीस्ट का घर, वाजार और जलखंड आदि।

मध्ययुगीन नाटक के प्रस्तुतिकरण में एक दूसरी शैली भी प्रचलित थी। जैसे नाट्य-दृश्यों को दर्शकों के सामने एक के बाइ एक चौकियों पर लाना। अथवा 'वैयंग' के सहारे उन्हें मंच पर स्थापित करना। दर्शक-वर्ग मुविधानुसार अलग-अलग स्थानों पर एकत्र होते और नाट्य चौकियाँ अपने हृष्यों सहित गतिमान होतीं। विशेषकर इंग्लैण्ड में यह रीति सबसे अधिक प्रसिद्धि के साथ प्रचलित थी—जहाँ सैकड़ों कस्ते जौर गाँव इन्हीं चौकियों वाले मंचहृष्य को प्रयोग में लाते थे।

मध्ययुगीन नाट्य-प्रदर्शन की कई परम्पराएँ उल्लेखनीय हैं। दर्शक और प्रस्तुतकर्ता एक हूसरे से बहुत नजदीक थे। दोनों के बीच किसी तरह का व्यवधान नहीं था। गम्भीर नाट्य-मूत्र में प्रहमन के तत्त्व का भेल एक उल्लेख-नीय बात थी। अभिनेता तथा दर्शक में और भी ज्यादा सम्बन्ध-मूत्र जोड़ने के हेतु होने के फलस्वरूप, नाटक का कार्य-व्यापार घटनाओं के प्रयोगों से भरा रहना, उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। कोई भी घटना या कार्य वर्गन ढाग न प्रस्तुत होकर बस्तुतः अपने घटित रूप में मंच पर प्रस्तुत होता था। यहीं कहा रखा है कि गिरिचम का मध्ययुगीन नाटक इतना अधिक घटना-धर्मी है और उस में भी कथा-भ्रमु का संगठन इतना ज्यादा, और हीला-दाला है। गम्भीर और विदूपक अभिनेताओं का संगम, तथा कथानक के भीतर प्रत्यक्ष कार्य तथा घटनाओं से निर्मित छोटी-छोटी कहानियों का भरा रहना, इसकी रचना की बड़ी विशेषता थी।

## एलिजाबीथन रंगभवन (प्रेक्षागृह)

एलिजाबीथन रंग-भवन तथा उसकी रंग-स्थापत्य-कला को समझने के लिए विद्वान् लोग इस पर अनेक प्रभावों की चर्चा करते हैं। और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह रंगमंच ही अनेक परम्पराओं की उपलब्धि है। मध्ययुगीन तथा 'रेनसैं' कला की परम्परा एक और है, तथा दूसरी ओर इसमें सैनिय, डच रंगमंच के तत्त्व मिलते हैं। बस्तुतः एलिजाबीथन रंगभवन का भौतिक स्वरूप प्रत्यक्ष है। बाहर की दीवारे अस्सी वर्ग फिट की थीं। मंच तैतालिस

फिट चौड़ा, और साड़े सत्ताइस किट गहरा था। इसमें तीन 'बाल्कनी' थीं, बारह, ग्यारह और नी फिट ऊँची और बारह फिट चौड़ी। इस तरह इसका अभिनय-क्षेत्र परम उल्लेखनीय है। आज के आधुनिक मंच से प्रायः दूना बड़ा मंच। आगे दर्शकों की ओर बढ़ा हुआ, जिस पर दो खम्भों के सहारे 'मंडप' बना था।

एलिजाबीथन रंगभवन, जिसमें प्रायः व्यावसायिक, अव्यावसायिक, तथा स्थायी सभी नाट्य मंडलियाँ रहा करती थीं—तीन मंजिला इसका रूप था। इसके भीतर एक बड़ा आँगन, तीन तरफ से बरामदों से घिरा हुआ। मुख्य-अभिनय-क्षेत्र—आँगन। इसी आँगन में बना हुआ विस्तृत मंच था। इसके पीछे दो और कक्ष-भाग थे, जो अतिरिक्त अभिनय क्षेत्र का कार्य करते थे। शेष बरामदे दर्शकों के लिए।

एलिजाबीथन मंच एक विस्तृत अभिनय-क्षेत्र था, जिस पर नाटक का सारा कार्य-व्यापार बिना किसी स्थान-दृश्य के होता था। स्थान-दृश्य, केवल कथोर-कथन से व्यंजित हो जाता था। जमीन के ऊपर का मंच, बाल्कनी-दृश्य अथवा युद्ध-दृश्य के लिए इस्तेमाल होता था।

बस्तुतः एलिजाबीथन रंगमंच में दृश्य के बावद दृश्य, बिना किसी विराम अथवा व्याघात के आते थे। मंच पर अलग-अलग अभिनय-क्षेत्र जो मुख्यतः अभिनेता के प्रवेश और प्रस्थान से निश्चित कर लिये जाते थे, इस मंच की विशालता और सृजनशीलता के बहुत बड़े उदाहरण थे।

मंच के विभिन्न भागों और अभिनय-क्षेत्रों के प्रयोग का उदाहरण हमें 'हैमलेट' के पहले अंक की रूपरेखा से प्रकट होता है :

पहला दृश्य : कैसिल के आगे एक प्लेटफार्म'

(अपर स्टेज, नीचे से चरित्रों का प्रवेश)

दूसरा दृश्य : 'कैसिल में एक कमरा'

(क्लाडियस और गर्द्दूड के लिए सिहासन—इनर स्टेज—दरबार के लोग प्लेटफार्म पर)

तीसरा दृश्य : 'पलोनियस का घर'

(लर्टीज और ओफीलिया का पर्दे के भीतर से प्लेटफार्म पर प्रवेश) भीतरी दृश्य की व्यंजना के लिए पदा) प्लेटफार्म की वायी ओर 'ले सीन'।)

चौथा दृश्य : 'द प्लेटफार्म'

(अपर स्टेज)

पांचवाँ दृश्य : 'प्लेटफार्म का दूसरा भाग'

(इनर स्टेज—नीचे 'घोस्ट और हैमलेट के लिए)



एलीजाबीथन थियेटर (नीचे द्वा

## रंगमंच और नाटक की भूमिका

था। इसमें तीन 'बाल्कनी' धों, बारह-  
ट चौड़ी। इस तरह इसका अभिनय-  
क मंच से प्रायः दूना वड़ा मंच। आगे  
परम्परों के सहारे 'मंडप' बना था।

व्यावसायिक, अव्यावसायिक, तथा  
धों—तीन मजिला इसका रचना था।  
से वरामदों से विश्रा हुआ। मुख्य-  
बना हुआ विस्तृत मंच था। इसके  
अभिनय क्षेत्र का कार्य करते थे। शेष

अभिनय-क्षेत्र था, जिस पर नाटक का सारा  
होता था। स्थान-दृश्य, केवल कथोग-  
के ऊपर का मंच, बाल्कनी-दृश्य अथवा

के बाद दृश्य, विना किसी विराम-  
लग-ग्रलग अभिनय-क्षेत्र जो मुख्यतः  
चत कर लिये जाते थे, इस मंच की  
है उदाहरण थे।

क्षेत्रों के प्रयोग का उदाहरण हमें  
होता है :  
'प्लेटफार्म'  
(चरित्रों का प्रवेश)


'रा'  
लए सिंहासन—इनर स्टेज—दरवार के

पर्दे के भीतर से प्लेटफार्म पर प्रवेश)  
लिए पर्दों) प्लेटफार्म की बायीं ओर

स्टेज)

'रा भाग'

और हैमलेट के लिए)




एलोजावीयन थियेटर (ग्लोब थियेटर)

प्रेक्षागृह तथा प्रस्तुतिकरण

घोष्ट का सँकरे द्वा  
से)

इस तरह एलीजावीथ  
के तीन अभिनय-क्षेत्रों में र  
के चलते हैं। और जहाँ क  
में किन्हीं विशेष तत्वों की  
उसकी पूर्ति कर देता है।  
वातावरण की विवात्सकता



जापानी 'नोह' ड्रामा का मंच। म्लोवर थियेटर (मंच)  
में इसकी समानता उल्लेखनीय है।

रेनेसाँ 'प्रोसीनियम आ

पन्द्रहवीं शताब्दी के बढ़ा, जिसके फलस्वरूप अरेनेसाँ रंगभवनों की स्थापना (१५७६) 'ओलेम्पिक थियेटर' नेस-थियेटर'।

'ओलेम्पिक थियेटर'

जिसमें मंच और प्रेक्षक-भूमि विशाल खर्मों से सूचायित प्रकट होता था।

विशाल 'रेनेसाँ थियेटर'

उपलब्धियों के बीच से दू

घोस्ट का सँकरे द्वार से प्रस्थान, 'मरसिलस' और 'होरोशियो' के प्रवेश—  
से)


इस तरह एलीजावीथन मंच पर नाटक की गति अवाध रहती है। मंच के तीन अभिनय-क्षेत्रों में तीन प्रकार के विभिन्न कार्य, दृश्य, बिना किसी विराम के चलते हैं। और जहाँ कार्य-व्यापार अथवा दृश्य में देश, काल, स्थान के बारे में किन्हीं विशेष तत्वों की आवश्यकता होती है, वहाँ नाटककार कथोपकथन में उसकी पूर्ति कर देता है। उदाहरण के लिए पहले अंक के पहले दृश्य में बातावरण की चिनात्मकता।

### रेनेसाँ 'प्रोसीनियम आर्च मंच'

पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में इटेलियन महाजनों का आकर्षण रंगमंच के प्रति बढ़ा, जिसके कलस्वरूप अनेक रंगभवन निर्मित हुए। इस तरह दो महत्वपूर्ण रेनेसाँ रंगभवनों की स्थापना हुई : पहला वेसेजा में पेलेडियो द्वारा निर्मित (१५७६) 'ओलेमिपिक थियेटर' तथा दूसरा पार्मा में एल्यूटी द्वारा निर्मित 'फार-नेस-थियेटर'।

'ओलेमिपिक थियेटर' प्राचीन 'रोमन थियेटर' का ही विकसित प्रतिरूप था, जिसमें मंच और प्रेक्षक-भूमि को दृश्यखचित किए हुए पाँच प्रवेश-द्वार थे—पिशाल खम्भों से रूपायित, जहाँ से सामने मंच का सारा परिप्रेक्षित दृश्य प्रकट होता था।

पिशाल 'रेनेसाँ थियेटर' की प्रकृति, दृश्यत्व और संगीत इन दो महान उपलब्धियों के बीच से हूँड़ी जा सकती थी।



दुखान्तकी और अप्रिस्टोके  
एथेन्स के उस दर्शक-बर्ग के

ग्रीक दर्शक वडे ही की  
की मारी छियों और खूनी  
विचार इन तीनों स्तरों प  
वैसी महान् रचना सम्भव

## दर्शक

दर्शक के बिना किसी भी रंगमंच की कल्पना नहीं की जा सकती। अबवा  
यों कहें कि दर्शक के लिए ही रंगमंच के इतने बड़े व्यक्तित्व की कल्पना हुई।  
दर्शक के लिए मूलतः नाटक लिखे गए। रंग-भवन बनाये गये, हथ्य-सज्जा, रंग-  
शिष्प वीर रचना हुई। दर्शक के ही व्यक्तित्व ने हर युग में नाटक की प्रकृति  
और प्रदर्शन की पद्धति को प्रभावित किया।

नाटक एक सामाजिक और गतिशील कला है, ठीक जीवन की तरह जो  
हर समय विकासमान् और गतिशील रहता है।

रंगमंच में दर्शक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक मूँह अथवा समुदाय में  
बदल जाता है। क्योंकि सब एक ही भावना के अन्तर्गत आ जाते हैं। यों  
गमाज में दर्शक अनेक वर्गों और कोटियों के होते हैं। ओपेरा, वैले, मुमान्तकी,  
दुखान्तकी, नोह (जापानी) और कानुची—इन सभी प्रदर्शनों के लिए विभिन्न  
प्रकार के दर्शक-बर्ग होते हैं।

एक सामाजिक संस्था के रूप में रंगमंच ने कितने-कितने प्रकार से दर्शक  
को विमोहित किया है! कभी रंगमंच दर्शक के लिए मन्दिर था, कभी न्याया-  
लय, कभी प्रचार-वेन्ड, कभी तफरीह की जगह, कभी कैशन परेड, कभी  
मिलन-भूमि, कभी बौद्धिक विलास का स्थान। अथवा रंगमंच को दर्शक ने  
जिस रूप में संरक्षण दिया, रंगमंच का व्यक्तित्व उसी के अनुरूप बना।

उदाहरण के लिए पश्चिम के रंगमंच में, ग्रीक, एलिजावीथन और 'रेस्टो-  
रेशन' रंगमंच के दर्शक-बर्ग एक दूसरे से बिन्न थे!

ग्रीक रंगमंच के विषय में यह परम उल्लेखनीय है कि दर्शक के लिए वह  
रंगमंच एक धार्मिक संस्था थी। कम से कम वर्ष में दो नाट्य महोत्सव देखना  
उनके लिए एक पवित्र धर्म-कार्य था। एथेन्स का वह दर्शक-बर्ग जो 'डायोनिसस'  
(गहर के भाग) में एकत्रित होते थे, गम्भीर दुखान्तकी देखने के लिए, जीवन-  
जगत के विषय में उनकी हचि कितनी गहरी रही होगी, इसकी कल्पना आज  
सहज ही की जा सकती है। वह एथेनियन दर्शक इस अर्थ में विचित्र था कि  
उने जीने और मोत्तने में कितना गहन लगाव था। कला, दर्शन और तक-  
शास्त्र—ये सब विषय उनके लिए महान् विचार का ही सत्य न था, वरन् ये  
सब विषय प्रत्यक्ष रूप से वे अपने जीवन में जीते भी थे। 'अस्काइलेस' की उदात्त

ग्रीकों की ही तरह।  
उत्साही, और उसमें प्रत्यक्ष  
बौद्धिक और भावात्मक  
कार्य, संगीत और राजनीति  
युग ने मनुष्य को ईश्वर की  
उनकी आस्था और संकल्प  
दर्पणा है, एलिजावीथन रंगमं  
सहत्वाकांक्षा, प्रेम, अविश्वा-  
को जीवन के दीन से उस  
अपने रंगमंच में युग के उस

'रेस्टोरेशन' रंगमंच का  
था। चालम्ब द्वितीय जव राज  
विलास का मुख्य केन्द्र हो ग  
यिए हो गया। दर्शक-बर्ग स  
गम्भीरता से न ग्रहण किय  
वेवल खेल और जनोरंजन म  
यह मिलन-जुलने का बहान  
ड्रामा अथवा रंगमंच जीवन  
रूप में विकसित हुआ। 'क  
देन है।

इस तरह हर युग का द  
है, और स्वभावतः उसी की  
रंगमंच बनता है।

दुखान्तकी और अरिस्टोफेन की वह समृद्ध सुखान्त थी—ये दोनों चरम सीमायें पथेन्ता के उस दर्शक-वर्ग की जीवनी-शक्ति का ही तो उदाहरण है।

ग्रीक दर्शक यड़े हो कलात्मक संस्कार के लोग थे। नाटक और प्रदर्शन की सारी छपियों और खूबियों को जानने परम्परा-वाले। भाषा, भाव और विचार इन तीनों स्तरों पर वे कितने सचेतन थे, वरना, ग्रीक दुखान्तकी की बैसी महान् रचना सम्भव न होती।

## दर्शक

नहीं की जा सकती। अद्वा  
इ व्यतिरिक्त की कल्पना हुई।

वनये गये, दृश्य-मञ्जुरा, रेग-  
हर युग में नाटक की प्रकृति

है, ठीक जीवन की तरह जो

समूह अथवा समुदाय में  
अन्तर्गत आ जाते हैं। यों  
हैं। ओपेरा, वैले, मुखान्तकी,  
भी प्रदेशनों के लिए, विभिन्न

करने-कितने प्रकार से दर्शक  
ए मन्दिर था, कभी न्याय-  
ह, कभी कैशन परेड, कभी  
अर्थात् रंगमंच को दर्शक ने  
इसी के अनुरूप बना।

एलिजावीथन और 'रेस्टो-  
न' थे।

है कि दर्शक के लिए वह  
दो नाट्य महोत्सव देखना  
दर्शक-वर्ग जो 'हाथोनिसस'  
की देखने के लिए, जीवन-  
होणी, इसकी कल्पना आज  
सम अर्थ में विचित्र था कि  
कला, दर्शन और तर्क-  
ग ही सत्य न था, वरन् ये  
ये। 'अस्काइलेस' की उदात्त

ग्रीक्स की ही तरह एलिजावीथन दर्शक भी जीवन-जगत के प्रति परम उत्साही, और उसमें प्रत्यक्ष रुचि लेने वाले लोग थे। शेक्सपियर का वह युग, बौद्धिक और भावात्मक विकास की एक चरम सीमा का युग था। भाषा, काव्य, संगीत और गजनीति इन सभी क्षेत्रों में उनकी रुचि अद्भुत थी। उस युग ने मनुष्य को ईश्वर की सबसे अनुपम रचना के रूप में स्वीकार किया था। उनकी आस्था और सकल्प बड़ा था। इसी युग-चेतना और सौन्दर्य-बोध का दर्पण है, एलिजावीथन रंगमंच। घृणा, अहंकार आत्मलिप्सा, अधिविज्ञाम, महत्वाकांक्षा, प्रेम, अविश्वास, स्वार्थ आदि इन सभी जीवनधर्मों महन प्रकृतियों को जीवन के बीच से उस युग ने देखना-समझना चाहा था। शेक्सपियर ने अपने रंगमंद में युग के इसी भाव-बोध को बाणी दी है।

'रेस्टोन' रंगमंच का दर्शक-वर्ग एलिजावीथन दर्शक से विलकृत भिन्न था। चाल्म द्वितीय जव राज्य-गद्दी पर बैठा, तो रंगमंच जैसे उसके जीवन-विलास का मुख्य केन्द्र हो गया। रंगमंच का क्षेत्र सामान्य से विशिष्ट वर्ग के लिए हो गया। दर्शक-वर्ग सीमित हो गया। और इस युग ने ड्रामा को उस गम्भीरता से न ग्रहण किया, जिस तरह एलिजावीथन युग ने किया था। यह केवल खेल और मनोरंजन मात्र रह गया। फैशन परेड की जगह यह हो गयी। यह मिलने-जुलने का बहाना हो गया। यह इसका फल हुआ कि इस युग का ड्रामा अथवा रंगमंच जीवन से कटकर स्वभावतः 'हाइ' फैशनेबल सुखान्तकी के रूप में विकसित हुआ। 'कमेडी आफ मैनर्स' इसी युग-बोध की स्वाभाविक देन है।

इस तरह हर युग का दर्शक अपने सौन्दर्य-बोध के साथ रंगशाला में आता है, और स्वभावतः उसी की रुचि और जीवनी-शक्ति के अनुरूप उसके युग का रंगमंच बनता है।

देवता एपोलो का पुजार्ह होता था।

आर्केस्ट्रा के पीछे उपन्द्रह फीट होती थी।

ग्रीक कोरस पचास व्यक्ति

ग्रीक थियेटर का यादि सभी स्तरों से।

ग्रास्काइलस (५२५)

थैसियस से आगे बढ़कर

सोफोकलीज (४९५) की, और इसकी रचना से अंतिम उल्लेखनीय नाटक दण्डिनत्व का परिचय दिया गया।

दूसरी ओर 'ग्रीक' कार है—'अरिस्टोकीन'

## रोमन थियेटर

रोमन रंगमंच का प्राचीन नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः है—जहाँ नाटक के इस प्रकार काता के स्थान पर टाइप चक्र के भोंडे रूप मिलते थे।

बाद में रोमन रंगमंच इसकी रंगशाला का अधिक सुला था, किन्तु रोमन-रोलोग छतदार बनाना चाह

प्लेटम (२५४ बी० से 'मिनेन्दर' से सीधे प्रभावित नीय नाम है, जिसने कुछ में सामने मूलतः नाजनीति नियमों द्वारा रोमन समाज

## पाश्चात्य रंगमंच: इतिहास और परम्परा

पाश्चात्य रंगमंच का प्रादुर्भाव यूरोप में सर्वप्रथम यूनान देश में हुआ—'थियेटर आँफ डायोनिसस' के नाम से। यह रंगमंच अपने मूल में पूजा अथवा कर्मकाण्ड के रूप में उदित हुआ। प्राचीन यूनान के लोग अपने देवता 'डायोनिसस' का पूजन बड़े उल्लास और आस्था से करते थे। दूसरा देवता जिसका नाम 'वैक्स' भी था, शराब और उल्लास का देवता था, शारीरिक आनन्द और स्फूर्ति का देने वाला। हर तरह की चिन्ता और शोक को हरनेवाला था यह। इसका पूजन-समारोह वसन्त और शीत काल के दिनों में विशेष रूप से होता था, और यह नाट्य-पूजन देखना पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाता था।

डायोनिसस की प्रतिष्ठा में जो कोरस अथवा समूह गान होते थे, उन्हीं से पश्चिम के ड्रामा का जन्म हुआ। ड्रामा—ट्रेजिडी—जिसका अर्थ है 'गोट साँग' क्योंकि उस पूजा-समारोह में वकरे की वलि दी जाती थी। ड्रामा—कामेडी का अर्थ है, ग्राम-गीत, जिसमें आमोद-प्रमोद की प्रधानता रहती थी। छठी शताब्दी ई० पू० में यूनान के थैसियस नामक व्यक्ति ने कोरस में एक परिवर्तन किया—उसमें बातलाप का समावेश।

आगे के ड्रामा-लेखकों ने इसमें कथा-तत्त्व डाला। फिर इसमें एक चरित्र, दो चरित्र और कमशः कोरस का रूप छोटा होता गया और पात्र बढ़ते गये।

ट्रेजिडी के प्रदर्शन के लिये एथेन्स में 'थियेटर आँफ डायोनिसस' का निर्माण पाँच सौ ई० पू० में हुआ। यह एथेन्स के एकोपोलिस नामक पर्वत के चरणों में स्थित था (और आज तक है)। यह खुला हुआ प्रशस्त रंगमंच अर्धवृत्ताकार है। दर्शकों की सीटों की पंक्तियाँ एक के ऊपर एक चट्ठानें काट-काटकर बनायी गयी हैं। मच पत्थर का बना है। और उसके पीछे एक ऊंची दीवार थी। दर्शकों की संख्या बीस हजार तक होती थी। मुख्य 'स्टेज' के मध्य में ठीक सामने एक नीचे अर्धवृत्ताकार स्टेज और होता था, जिसे आर्केस्ट्रा कहते हैं। इसके मध्य में वलिवेदी होती थी, जिसके चारों ओर नृत्य होते थे। इस वेदी के पास की सीटें संगमरमर की थीं, जो पुजारियाँ और न्यायाधीशों के लिये सुरक्षित होती थीं। वेदी के ठीक सामने डायोनिसस का पुजारी बैठता था। उसके दायीं ओर सूर्य

देवता एपोलो का पुजारी और दायीं और नगर-देवता 'ज्युस पौलियस' का श्रासन होता था।

आर्केस्ट्रा के पीछे उठे हुए मंच की लम्बाई साठ-सत्तर फीट और गहराई पन्द्रह फीट होती थी। अभिनय-क्षेत्र नीचे-ऊपर की दोनों भूमियाँ होती थीं। ग्रीक कोरस पचास व्यक्तियों का था, जो क्रमशः कम होकर पन्द्रह का हो गया।

ग्रीक थियेटर का यह सारा प्रदर्शन रीतिवद्ध था। अभिनय, वस्त्र, रूप-सज्जा आदि सभी स्तरों से।

आस्काइलस (५२५ ई० सी०) ग्रीक ड्रामा का जनक माना जाता है। यैसियस से आगे बढ़कर इसी ने ड्रामा में द्वितीय चरित्र की प्रतिष्ठा की थी।

सोफोकलीज (४६५ ई० सी०) ने ग्रीक ड्रामा में तृतीय चरित्र की स्थापना की, और इसकी रचना से ग्रीक रंगमंच अपनी चरमसीमा पर पहुँचा। 'यूरोपडीज' अंतिम उल्लेखनीय नाटककार हुआ, जिसने 'एलक्ट्रा' के माध्यम से अपने बड़े व्यक्तित्व का परिचय दिया।

दूसरी ओर 'ग्रीक कामेडी' की परम्परा है—जिसके उल्लेखनीय नाट्यकार हैं—'अरिस्टोफोन' और 'मिनेन्दर'।

### रोमन थियेटर

रोमन रंगमंच का प्रारम्भ काँस से होता है, जो 'केवला 'रतीलाना' के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः इसका संबंध रोम के दक्षिण में 'अतेला' नगर से है—जहाँ नाटक के इस प्रहसनात्मक रूप का थीरगणेश मिलता है। इसमें मौलिकता के स्थान पर टाइप चरित्रों के आधार पर भंड़ती, प्रहसन, अभिनटन आदि के भोड़े रूप मिलते थे।

वाद में रोमन रंगमंच ग्रीक रंगमंच के प्रभाव को लेकर विकसित हुआ। इसकी रंगशाला का अविक विस्तार हुआ। मंच का क्षेत्र बढ़ा। मंच अब तक खुला था, किन्तु रोमन-रंगभवन-कला की प्रकृति से स्पष्ट है कि मंच को ये लोग छतदार बनाना चाह रहे थे।

ख्लेटस (२५४ ई० सी०) पहला रोमन नाटककार था, जिसकी नाट्य-कला 'मिनेन्दर' से सीधे प्रभावित थी। कबल 'सिनेका' रोमीय लेखकों में वह उल्लेखनीय नाम है, जिसने कुछ महत्वपूर्ण योग दिया। वस्तुतः उस समय रोमन राष्ट्र के सामने मूलतः राजनीतिक तथा साम्राज्यवादी प्रश्न थे, और जिन-जिन नियमों द्वारा रोमन समाज की शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये थी, उन्हीं का उपयोग

सर्वप्रथम यूनान देश में हुआ—  
रंगमंच अपने मूल में पूजा अथवा  
के लिये अपने देवता 'डायोनिसस'  
थे। दूसरा देवता जिसका नाम  
शारीरिक आनन्द और सूक्ष्मता  
हरनेवाला था यह। इसका पूजन-  
रूप से होता था, और यह नाट्य-  
था।

थवा समूह गान होते थे, उन्हीं से  
उडी—जिसका अर्थ है 'गोट साँग'  
जाती थी। ड्रामा—कामेडी का  
आनंद रहती थी। छठी शताब्दी  
कोरस में एक परिवर्तन किया—

डाला। फिर इसमें एक चरित्र,  
होता गया और पात्र बढ़ते गये।  
अब आरॉफ 'डायोनिसस' का निर्माण  
गोपेलिस नामक पर्वत के चरणों  
द्वारा प्रशस्त रंगमंच अर्द्धवृत्ताकार  
एक चट्ठाने काट-गाटकर बनायी  
गयी थी एक ऊंची दीवार थी। दर्शकों  
टेटेज' के मध्य में टीक सामने एक  
आर्केस्ट्रा कहते हैं। इसके मध्य में  
थे। इस बेदी के पास की सीटें  
दर्शकों के लिये सुरक्षित होती थीं।  
ठता था। उसके दायीं और सूर्य

सिनेकाने आने नाटकों में किया। उसने इस तरह एक विशेष प्रतार की सामाजिक तथा राजनीतिक नैतिकता का प्रसार-प्रचार आने नाटकों में किया, जिसके कारण उसमें दुखात्तकी की आत्मा मर गयी। मह हीन दशा नमूने मध्य युग के पूर्वार्द्ध तक रही। दूसरी ओर थीरे-थीरे ईसाई पादरी इसके विरोधी होते गये, और उन्होंने नाटकों को पाप के प्रसार का साधन घोषित कर नाटकारों का स्वान बहुत तुच्छ मिथ्कि किया। और इस तरह करीब तीन सौ वर्षों तक नाट्य-साहित्य की रचना नहीं हुई और यूरोप पर अंधकार युग पूरण-रूप से छा गया।

### मिडीवल थियेटर

मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में नाटक को फिर से जीवन-दान भिला। कभी-ईसाई पादरियों का विरोध वया और ईसाई धर्म के विचारों तथा सिद्धान्तों के प्रचार के लिये किरण से नाटक और रंगमंच अपनाये गये। इस तरह प्रदर्शन की रंगभूमि गिरजाघर हुआ। प्रारम्भ में जो नाटक गिरजाघरों में मेले गये, वे ईसा के जीवन से मंत्रन्य रखते थे। ईसा का जन्म, उनकी ईश्वरीयता, उनके धर्मकार्य इन सब पक्षों पर प्रकाश ढालकर नाटक जनना को धर्म की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते थे। इसके पश्चात् पादरियों ने ईसाई सम्नां की जीवनी के क्रियों पर नाटक खेलने की अनुमति दी। बस्तुतः उन नाटकों में ड्रामा के कोई भी स्ट्रॉकपूरण नहीं है, त उनमें कोई आकर्षण ही है।

मध्ययुगीन दुखात्तकी-रचनाकार के लिये किमी श्रेष्ठ और सम्मन मनुष्य का आकस्मिक भाष्य-परिवर्तन ही दुखात्तकी का आधार था। उन ह विचारों के अनुमार मनुष्य भाष्य के हाथों में खिलीना मात्र है।

किन्तु नाट्य-प्रदर्शन जैसे-जैसे लोकप्रिय हुआ, नाटक में से थीरे-थीरे धर्मतत्त्व कम होने लगा। वाइविल की कथा से जनना ऊबकर दूसरी कथा की ओर भागी। कथा में प्रहसन के तत्त्व आगे चुर हुए। इसी समय वे रंग, जो कभी बहुत पहले चर्च छाया रंगमंच से बहिष्कृत किये गये थे, इस क्षेत्र में फिर वापस आ गये और अपने रंग-चमत्कारों से दर्यक का मन भोग्ने लगे। इस तरह से चमत्कार (मिरैकिल), नैतिकता (मोरेल्टीज) और रहस्य (मिस्ट्रीज), ये तीनों तत्त्व रंगमंच की प्रकृति के मूल स्वर बन गये। रहस्य-तत्त्व उन नाटकों में विशेष रूप से होता था, जो किसी संत के जीवन के आधार से रचित होते थे। नैतिकता-तत्त्व, मनुष्य को उपदेश देने वाले, तथा उसे चरित्रबोध देने वाले नाटकों में

पाश्चात्य रंगमंच : इतिहास और

मुख्य हुआ। 'मोरेल्टी एल' इस युद्धी हुई। इसमें नाट्य-गिल, चरित्र तत्त्वों को विशेष आग्रह मिला। सामाजिक नाट्य-हृष्य (इन्टरल्यूड्स) की विकियों (इन्टरल्यूड्स) का महत्व का आकर्षण सबसे ज्यादा बढ़ा देशों के रंगमंच की, इस काल में

इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप अधिकारों लगा।

### रिनेसाँ—नवजागरण काल

मध्ययुग समाप्त होने पर पन्द्रहवीं शती के कुछ पूर्व से ही प्रस्तोज चुरू हुई, किन्तु १४५३ में उपरान्त उसका कम बहुत तीव्र किवन्टिलियन आदि की रचनायें नवयुग पर पड़ा ही, किन्तु सबसे अचूक जो अरब और सीरिया से पुनः प्रस्तावन पर एकत्र पादरियों की सभा प्रदान की, जो ईसाई धर्म के नियम

पुनर्जागरण काल का यह 'क्लिफांस पहुंचा और इस तरह इसने यूरोप डाला। इस तरह लगभग डेढ़ सौ एक ही बलासकी प्रभाव का स्वर फान्सीसी काव्य-चिन्तन निरन्तर और अन्त में लगभग १६३८ के उ

'नियोक्लासीसिज्म' अर्थात् नवीन अधिकारों की विशेषता भी मुख्यतः अधिकारों की विशेषता है।

ने इस तरह एक विशेष प्रशार की प्रशार-प्रचार आने नाटकों में लिया, ज्ञान मरणी। यह हीन दशा मध्यने धीरे-धीरे ईसाई पादरी इसके विरोधी के प्रशार का साथन घोषित कर दिया। और इस तरह कीरीब तीन सौ ईसाई और युरोप नर अंतर्कार युग पूर्ण-

मुख्य हुआ। 'भोरेल्टी व्हे' इस युग की नाट्यधारा की उल्लेखनीय प्रवृत्ति सिद्ध हुई। इसमें नाट्य-गिलन, चरित्र-बोध, चरित्र-संघर्ष तथा स्वाभाविकता—इन तत्त्वों को विशेष आश्रह मिला। इही नाटकों में आगे चलकर छोटे-छोटे सामाजिक नाट्य-दृश्य (इन्टरल्यूड) मिलाये गये। इनसे रंगमंच क्षेत्र में सामाजिक यथार्थ तत्त्व की प्रतिष्ठा की दिशा में बहुत बल मिला। धीरे-धीरे इन मध्यांकियों (इन्टरल्यूड्स) का महत्व बढ़ने लगा। इनके प्रहसन-तत्त्व की ओर दर्शकों का आकर्षण सबसे ज्यादा बढ़ा। इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और स्पेन—इन सभी देशों के रंगमंच की, इस काल में यही विशेषता थी।

इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप व्यवसायिकी रंगमंच के उदय का बातावरण साफ दिखने लगा।

### रिनेसाँ—नवजागरण काल

मध्ययुग समाप्त होने पर यूरोपीय नवजागरण का काल आरम्भ हुआ। पन्द्रहवीं शती के कुछ पूर्व से ही प्राचीन यूनानी तथा लैटिन पाण्डुलिपियों की स्रोज शुरू हुई, किन्तु १४५३ में कुस्तुंतुनियाँ पर तुर्की का अधिकार होने के उपरान्त उसका कम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। सिसिरो, होरेस और विवन्टिलियन आदि की रचनायें सामने आयीं। उनकी कृतियों का प्रभाव तो नवयुग पर पड़ा ही, किन्तु सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, अरस्तू के काव्यशास्त्र का, जो अरब और सीरिया से पुनः प्राप्त किया गया। सन् १५६५ में ट्रेण्ड नामक स्थान पर एकत्र पादरियों की सभा ने अरस्तू के काव्यशास्त्र को वही महत्ता प्रदान की, जो ईसाई धर्म के नियमों को मिलती है।

पुनर्जागरण काल का यह 'कलासकी' आनंदोलन इस तरह इटली से चलकर फ्रांस पहुँचा और इस तरह इसने युरोप के प्रायः सभी सभ्य देशों में अपना प्रभाव डाला। इस तरह लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में इसी एक ही कलासकी प्रभाव का स्वर उदित रहा। यहाँ तक, सत्रहवीं शताब्दी में फान्सीसी काव्य-चिन्तन निरन्तर कलासकी आदर्श की ओर भुकता गया। और अन्त में लगभग १६३६ के उपरान्त उसका वह रूप विकसित हुआ, जिसे 'नियोकलासीसिज्म' अथवा नवीन कलासकी भत की संज्ञा मिली।

'रिनेसाँ' युग में भी मुख्यतः दुखान्तकी नाटक लिखे गये। उनमें मनुष्य को अंधनियति के अधीन न दिखाकर, मनुष्य के चरित्र के ही अधीन नियति को दिखाने की चेष्टाएँ की गयी हैं। मध्ययुगीन धार्मिक नाटकों के चरित्र में नैतिक

या धार्मिक दोष होना आवश्यक नहीं है—केवल असंगत, अयुक्तियुक्त, अनुचित कार्य करना ही उनके पर्याप्त दोष हो सकते हैं।

इससे भी आगे 'नियोक्लासकी' काल में कांस में 'रासीन' और 'वालतेयर' के दुखान्तकी नाटक एक और भी नवीन दृष्टिकोण से लिखे जाने लगे, जिनमें नायक को कृतिम रूप से उदात्त, महामना और तेजस्वी बनाकर, प्रेम और कर्तव्य दोनों ही महान् आदर्शों के बीच पिसते हुए दिखाकर 'करणा' भाव उत्पन्न किया गया। अर्थात् चरित्र-दोष से ही करणा-भाव का उदय दिखाया गया।

किन्तु रंगमंचीय महत्व के स्तर पर कांस में शब तक, फिर भी कुछ उल्लेखनीय न हो सका। जबकि सत्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध बीत रहा था। वस्तुतः यह उल्लेखनीय यश मिला स्पेन को। 'लोग' (१६वीं सदी) और कैल्डरान उस समय स्पेनिश रंगमंच के महान् नाट्यकार उदित हुए। इन दोनों के व्यक्तित्व और रचनाशक्ति से रंगमंच का स्तर इतना ऊँचा उठा कि उसी के सहारे एलिजाबीथन रंगमंच का धरातल सहज ही ऊँचा उठ गया। इंग्लैण्ड के लिए वस्तुतः यह बड़े सौभाग्य की बात थी।

### एलिजाबीथन थियेटर

इंग्लैण्ड के सांस्कृतिक इतिहास में सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वांचल प्रतिम है। १६०० ई० से लेकर १६४२ तक के बीच में शेक्सपियर, चापमैन, डेकर, जान्सन, मैसिन्जर, मिडिल्टन, बेबेस्टर, फोर्ड और शेर्ले जैसी प्रतिभाओं ने इस काल को अमर बना दिया। इतिहास में यह काल महारानी एलिजाबीथ से लेकर विलियम और 'मेरी' तक फैला है।

नाट्य-प्रकृति और परम्परा-बोध के रूप में एलिजाबीथन रंगमंच पहले चरण में जनता का रंगमंच था। हर वर्ग के स्त्री-पुरुष इस युग की रंगशाला में इकट्ठे होते थे। नोब्रुल, लार्ड से लेकर सामान्य स्त्री-पुरुष तक। इसका कल नाटककार पर यह हुआ कि वह नीचे से ऊपर तक समाज के सभी स्तरों को ध्यान में रखकर अपनी रचना करता था।

'ग्लोब थियेटर' इस युग के रंगमंच की प्रकृति का सच्चा दर्पण है—जिसके रंग-नात्वों में एक और 'प्लेटफार्म स्टेज' के तत्त्व हैं, तथा दूसरी और अनेक मध्ययुगीन नाट्य-धर्मितायें कार्यरत हैं। उसी 'ग्लोब थियेटर' के ही मानचित्र के आधार पर उस समय की सभी रंगशालायें बनीं।

पाश्चात्य रंगमंच : इतिहास और

'एलिजाबीथन' रंगमंच में मुरही थीं, पहली—'प्लिक थियेट द्वितीय के शासन-काल में यही दूसरे इसके मंच में दृश्य-सज्जा, प्रकाश और मंच के स्थान पर बंद मंच की पर

किन्तु आगे चलकर एलिजाबीथन राज-दरबार और शाही धराने के नाटक और रंगमंच में सर्वथा नायक प्रभुत्व स्वर था उस समय के जीवन देना।

इस युग के रंगमंच और नाटक

- (१) शेक्सपीरियन दुखान्तकी
- (२) रोमान्टिक सुखान्तकी तथा
- (३) ट्रेजिडी-कामेडी के सम्मिलन

एलिजाबीथन युग का रंगमंच मृक्ष के सम्पूर्ण नाट्य-साहित्य में इस युग परम्पराये बड़े गहन रूप में प्राप्त हैं बीथन थियेटर ही है जिसके रंगमंच इतनी महिमामय सिद्ध हुई।

### फैंच क्लैसिकल धारा

प्रायः शेक्सपियर के समय में ही कार उदित हुआ। किन्तु इस युग के (१६०४-१६४४) हुआ, जिसने फैंच ने 'सिड' उसका महत्वपूर्ण नाटक दुखान्तकी 'होरेस' (१६४०) तथा 'सिड'

इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण नाटक जिसके व्यक्तित्व में शायद पहली बार तीनों व्यक्तित्व एकीकृत हुए। सोलियन या स्वर, नया स्तर और सर्वथा 'सुखान्तकी का मुख्य ध्येय आनन्द द्वारा

## रंगमंच और नाटक की भूमिका

केवल असंगत, अयुक्तियुक्त, अनुचित है।

फांस में 'रासीन' और 'वालतेयर' पिटिकोण से लिखे जाने लगे, जिनमें आ और तेजस्वी बनाकर, प्रेम और निष्ठा हुए दिखाकर 'करणा' भाव ही करणा-भाव का उदय दिखाया

फांस में अब तक, फिर भी कुछ गाढ़ी का उत्तरार्थ बीत रहा था। 'नोन' (१६वीं सदी) और नाट्यकार उदित हुए। इन दोनों स्तर इतना ऊँचा उठा कि उसी हज ही ऊँचा उठ गया। इंस्लैण्ड

शताब्दी का पूर्वार्द्ध अप्रतिम में शेक्सपियर, चापमैन, डेकर, र शेले जैसी प्रतिभाओं ने इस महारानी एलिजाबेथ से लेकर

लिजाबीयन रंगमंच पहले चरण इस युग की रंगशाला में इकट्ठे हुए तक। इसका फल नाटककार के सभी स्तरों को ध्यान में

का सच्चा दर्पण है—जिसके हैं, तथा दूसरी और अनेक नोब थियेटर के ही मानचित्र हैं।

## पाश्चात्य रंगमंच : इतिहास और परम्परा

१६३

'एलिजाबीयन' रंगमंच में मुख्यतः दो प्रकार की नाट्य-परम्परायें कार्य कर रही थीं, पहली—'प्रिलिक थियेटर' की, दूसरी 'प्राइवेट थियेटर' की। चाल्स द्वितीय के शासन-काल में यही दूसरी धारा अपेक्षाकृत अधिक प्रबल हुई थी। इसके मंच में हथ्य-सज्जा, प्रकाश आदि की प्रतिष्ठा हुई, तथा उसमें मुक्त आकाशी मंच के स्थान पर बंद मंच की परम्परा शुरू हुई।

किन्तु आगे चलकर एलिजाबीयन रंगमंच में सामान्य जनता के स्थान पर राज-दरवार और शाही घराने के लोग भरते गये। इसका फल यह हुआ कि नाटक और रंगमंच में सर्वथा नया संस्कार और नया स्वर उभरा। इसमें सबसे प्रमुख स्वर था उस समय के जीवन और परिस्थिति को नाटक में अभिव्यक्ति देना।

इस युग के रंगमंच और नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति थी :

- (१) शेक्सपियर दुखान्तकी।
- (२) रोमान्टिक सुखान्तकी तथा
- (३) ट्रेजिडी-कामेडी के सम्मिलन की।

एलिजाबीयन युग का रंगमंच भूलतः शेक्सपियर का रंगमंच था। शेक्सपियर के सम्पूर्ण नाट्य-साहित्य में इस युग के रंगमंच की सारी प्रकृति और रंग-परम्परायें बड़े गहन रूप में प्राप्त हैं। ग्रीक थियेटर के बाद यह दूसरा एलिजाबीयन थियेटर ही है जिसके रंगमंच-सिद्धान्त और नाट्य-उपलब्धियाँ संसार में इतनी महिमामय सिद्ध हुईं।

## फ्रेंच क्लैसिकल धारा

प्रायः शेक्सपियर के समय में ही फांस में एलिजेन्ड्रो हार्डी नामक नाटककार उदित हुआ। किन्तु इस युग का पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति 'पेरे कोर्नील' (१६०४-१६८४) हुआ, जिसने फ्रेंच रंगमंच में एक नया जागरण पैदा किया। 'सिड' उसका महत्वपूर्ण नाटक है। रोमन कथावस्तु पर आधारित दो दुखान्तकी 'होरेस' (१६४०) तथा 'सिना' (१६४१) भी उल्लेखनीय हैं।

इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण नाटककार मोलियर (१६२२-१६७३) हुआ जिसके व्यक्तित्व में शायद पहली बार नाटककार, निर्देशक और अभिनेता के तीनों व्यक्तित्व एकीकृत हुए। मोलियर द्वारा सुखान्तकी की परम्परा में भूलतः नया स्वर, नया स्तर और सर्वथा नये रंगमंच का बोध जगा। इसने कहा— 'सुखान्तकी का मुख्य ध्येय आनन्द द्वारा शिक्षा-प्रदान तथा सुधार है। सुखान्तकी,

व्यक्ति-विशेष पर आधारित न होकर समाज-विशेष अथवा वर्ग-विशेष पर आधारित रहती है।'

(टार्टफ)

दूसरी ओर 'कानिले' और 'रेसीन' मूलतः नाटककार के रूप में कवि थे। और उस युग की फ्रेच वलेस्किल धारा के यशस्वी व्यक्तित्व थे।

इन सारी नाट्य-उपलब्धियों की चरमसीमा थी १६८६ ई० में 'कोमेदिया फाँसे' की खेरिस में स्थापना—जिसमें अनेक रंग-धाराओं तथा नाट्य-मंडलियों का सहज संगम मिल दूआ।

ग्रंथ

### रेस्टोरेशन थियेटर

पश्चिम के रंगमंच-इतिहास और परम्परा-अध्ययन में, आधुनिक युग से पूर्व-काल तक में 'रेस्टोरेशन' थियेटर को लेना होगा। चालस ड्वितीय का राज-सिंहासन पर लौटना और उसकी रंगमंच-प्रियता तथा संरक्षण इन सभी तन्वों का हाथ 'रेस्टोरेशन' में है। इस काल की मुख्य रंग-परम्पराओं में :

- (१) सुखान्तकी (रेस्टोरेशन कामेडी)
- (२) हिरोइक ड्रामा

ये दोनों नाट्य-प्रवृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं। 'निकोलस रोवे' इस काल का अन्तिम नाटककार था।

रेस्टोरेशन रंगमंच के अन्तिम चरण से ही पश्चिम के रंगमंच में इस सत्य के लक्षण मिलने लगे, कि रंगमंच की दिशा मूलतः यथार्थवाद और उससे प्राप्त नये युग की ओर मुड़ने जा रही है। रंगमंच का वास्तविक संरक्षक अब राजा न होकर समाज का सर्वथा नया वर्ग होने जा रहा है—नायरिक, साहूकार, उदीयमान मध्यवर्ग।

वस्तुतः इसी नये वर्ग ने, दर्शक-भाव से लेकर विषय-वस्तु और यथार्थ-बोध तक पश्चिम के रंगमंच को प्रभावित किया। और इसी महा प्रभाव से आगे उदित हुआ पश्चिम का आधुनिक रंगमंच।

३००

Accent
Alienation
Amphitheatre
Appearance
(Theatre) Archi-
Arena
Aside
Auditorium
Ballet
Business (Stage)
Stage Action
Character ensemble
Coherence
Cast
(Supporting)
Catastrophe
Character
(Stock)
Choreographic
Choral comedy
Composition
(Pictorial)
Complication
Convention
Crisis
Cyclotoma

## रंगमंच और नाटक की भूमिका

कर समाज-विशेष अथवा वर्ग-विशेष पर

(टार्टफ)

न' मूलतः नाटककार के रूप में कवि थे।  
उनके यशस्वी व्यक्तित्व थे।

चरमसीमा थी १६८६ ई० में 'कोमेदिया'  
अनेक रंग-भागाओं तथा नाट्य-मंडलियों

## ग्रंथ में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट अंग्रेजी-हिन्दी

### पारिभाषिक शब्दावली

Accent	स्वरावात
Alienation	भाव निरपेक्षता
Amphitheatre	रंगबाट
Appearance	अवतरण
(Theatre) Architecture	रंग स्थापत्य
Arena	रंगस्थली
Aside	जनान्तिक
Auditorium	प्रेक्षाघृह
Ballet	बैले
Business (Stage)	रंगचर्चा
Stage Action	रंग व्यापार
Character ensemble	पात्र समूहन
Coherence	संगति
Cast	पात्र
(Supporting)	सहपात्र
Catastrophe	प्रकांड
Character	चरित्र
(Stock)	रुढ़ि चरित्र
Choreographic	गृत्यारक
Choral comedy	सुखान्तकी
Composition	संरचना
(Pictorial)	चित्रवत
Complication	संकट
Convention	रुद्धि
Crisis	संघर्ष
Cyclorama	गणनिका

परम्परा-अध्ययन में, आधुनिक युग से  
लेना होगा। चाल्स ड्विटीय का राज-  
प्रियता तथा संरक्षण इन सभी तत्त्वों  
में मुख्य रंग-परम्पराओं में :

'निकोलस रोवे' इस काल का अन्तिम

से ही पहिचान के रंगमंच में इस सत्य  
ग मूलतः यथार्थवाद और उससे प्राप्त  
मंच का वास्तविक संरक्षक अब राजा  
ने जा रहा है—नागरिक, साहूकार,

लेकर विषय-वस्तु और यथार्थ-वोध  
। और इसी महा प्रभाव से आगे

Denouement	निर्वहण
Dancing circle	वृत्त्य परिवि
Dimension	आयाम
Discovery	अन्वेषण
Duration	समय
Dramatic material	नाट्य वस्तु
Exposition	उद्घाटन
Expressionism	अभिव्यञ्जनावाद
Farce	प्रहसन
Formalism	रूपवाद
Foreshadowing	पूर्वच्छाया
Functional	कार्यमूलक
Grouping	समूहन
Harmony	संगति
Illusion	सत्याभास
Illusionistic	सत्याभासी
Impersonation	परस्परण
Improvisation	अनुरचना
Interlude	मध्यांकी
Level	घरातल
Make-belief	प्रतीति-छल
Make-up	रूपसज्जा, रूपसिंगार
Mask	मुखौटा
Masking	आच्छादन
Melodrama	अतिनाटक
Mime	बिडंबन, नकल
Modulation	उतार-चढ़ाव
Motivated	हेतुपूरण
Motivation	हेतु
Movement	गतिसंचार
Magic	जादू, इन्द्रजाल, सम्मोहन
Multiple Stage	बहुधरातली मंच (बहुदृश्यी)
Naturalism	प्रकृतवाद
Offstage	नेपथ्य

Open Air  
Operatic  
Orchestra  
Over Act  
Pageant  
Pantomime  
Performance  
Pitch  
Pose  
Point of  
Posture  
Presentation  
Presentation  
Production  
Prologue  
Prop  
Proscenium  
Projection  
Pictorial  
Picture frame  
Perspective  
Panorama  
Representation  
Representation  
Ritual  
Roed Case  
Sequence  
Set  
Setting  
Spectacle  
Speech  
Stage  
Stage Design  
Stage Director

Open Air Theatre	खुला रंगमंच
Operatic	संगीतघर्मी
Orchestration	स्वर संगति
Over Acting	अतिरंजित अभिनय
Pageant	पेजेन्ट, चौकी
Pantomime	अभिनटन
Performance	अनुष्ठान, प्रदर्शन, प्रयोग
Pitch	तारत्व
Pose	भंगिमा
Point of attack	आक्रमण बिन्दु
Posture	देहभंगी
Presentation	उपस्थापन
Presentational	भावधर्मी
Production	प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रस्तुति
Prologue	प्रस्तावना
Prop	उपकरण
Proscenium Arch	रंगद्वार
Projection	प्रक्षेपण
Pictorial	चित्रात्मक
Picture frame	चित्रबंध
Perspective	परिप्रेक्ष्य
Panoramic Movement	दृश्यवत्, दृश्यांकित गतिसंचार
Representation	प्रतिनिधान
Representational	साहश्यमूलक
Ritual	धर्मकांड, कर्मकांड
Rooed Canopy	मंडप
Sequence	अनुक्रम
Set	दृश्यबंध
Setting	दृश्यसज्जा
Spectacle	दृश्यता
Speech	वाक्
Stage	मंच
Stage Design	मंचांकन
Stage Direction	मंचनिर्देशन

Stage Technician	मंचशिल्पी
Stage Down	रंगपीठ
Stage Up	रंगशीर्ष
Stage Wagon	यानमंच, वाहनमंच
Stress	बलाधात
Style	रीति
Stylized	रीतिवर्मी
Synchronization	एकान्वय
Tempo	गति
Theatre	रंगमंच
Theatre Arts	रंगमंच कलाएँ
Theatre Folk	लोक रंगमंच
Theatre Open Air	मुकाकाशी, खुला रंगमंच
Theatre Professional	पेशेवर, व्यवसायी
Tone	स्वरक
Tragedy	दुखान्तकी
Up Stage	रंगशीर्ष
Unity	अन्विति
Volume	घनत्व
Well made play	सुविद्धनाटक
Wing	पार्श्व

